

श्रीहंसविजयजी प्रा. लानकर्णि (अमदाबाद)
पृथमांश्च तं १५.

विविध पूजा संग्रह.


जैनाचार्य श्रीमद् विजयानन्दसूरि
(श्रीआत्मारामजी) महाराज

ब्रह्म

दुनिष्ठाराजथो दुक्षविजयजी यहाराज
तथा

मुनिराजश्री बलभविजयजी विरचित.

जेमां जुदी जुदी ओगणीस पूजाओन्तो समावेश डे.



प्रसिद्धकर्ता—


श्रीहंसविजयजी—जैन प्री लायब्रेरी.

लूणसावाडा—अमदाबाद.

[द्वादशांश्च] { एकैद्वय
द्वेषी आष्टूति { [प्रगि ४६०७]
मूल्य एक रुपयो.

वीरसवत् २४८७, आत्मसंवत् २६, विक्रम १९७७, सने १९२१.

प्रस्तावना.



परम उपकारी महात्मा १००८ श्रीमद् विजयानन्दसूरि (आत्मारामजी) महाराजे जैन प्रजा ऊपर जैन दर्शनना तत्त्वज्ञान बगेरेना अनेक ग्रंथो लखीं जे उपकार कर्यो छे ते अवर्णनीय छे.

आत्महितैषिओने आत्महित करवानुं साधन जेम तत्त्वज्ञानना ग्रंथोनुं दोहन छे तेम भक्ति पण एक प्रबल साधन छे. परमात्मानी मन्त्रि-भावपूजा-स्तवन स्वाध्याय गुणग्रामादीथी पण साध्व छे अत एव स्वर्गवासी प्रातः स्मरणीय उक्त पूज्यपाद आचार्य महाराजे समयानुसार नूतन पद्धतिए गवाता राग रागणीओना समूहथी भरपूर १ स्त्राव्रपूजा, २ अष्टप्रकारी पूजा, ३ नवपद पूजा ४ सत्तरभेदी पूजा अने ५ वीस स्थानक पूजा मली पांच पूजाओ बनावी जैन समाज-जेमां खास करीने पंजाब, मारवाड, मेवाड, मालवा, वंशालना जैन समाज ऊपर परम उपकार करेलो छे.

उक्त महात्मानो संगीतनो अभ्यास केवो होवो जोइए ए तेओनी बनावेली आ रचनाथी साफ साफ जणाइ आवे छे. संगीतना प्रोफेसरो अने जाणकारो तेमज पूजाना रसिको प्रस्तुत स्वनाना संवंधमां अनेक विध प्रशंसा करे छे.

पूर्वोक्त पांच पूजा पैकी सत्तरमेदी पूजा संवत् १९३९ मां
पंजाब-अंबाला शहरमां वनावी छे जे ए पूजाना कलशनी—

“ विजय आनंद लघु नंदा, निवि^३ शिखी अंक है चंदा^१ ।

“ अंबाला नगरमें गायो, निजातम रूप हुं पायो । ”

आ छेल्ही गाथाथी सिद्ध छे.

वीस स्थानकनी पूजा संवत् १९४० मां वीकानेर
(मारवाड) मां वनावी छे जे वातने ए पूजाना कलशनी—

“ खं युग अंक इंदु वत्सर में, वीकानेर सुरंगी । ८ । ”

आ आठमी गाथा सिद्ध करे छे.

अष्ट प्रकारी पूजा संवत् १९४३ मां पालीताणामां रची
छे जे तेज पूजाना कलशनी—

“ शिखि^३ युग अंक इंदु शुभ वर्ष, पालीताणा सुरंगी । ९ । ”

आ नवमी गाथा कही रही छे.

नवपदजीनी पूजा संवत् १९४८ मां पंजाब-जिला लाहोर
-पट्टीमां जीरा जिला फिरोजपुर (पंजाब) ना संघनी प्रार्थ-
नाथी रचायेल ले जेनी साबीती सदरहु पूजाना कलशनी—

“ जीरा गाम तिहां संघ जयंकर, सुख संपत उदय करणीने । ७ ।

“ तिनके कथनसे रचना कीनी, सुगम रीत अघ हरणीने । ८ ।

“‘^८ वसु युग अंक इंदु शुभ वर्षे, पट्टी नगर सुख धरणीने । ९ ।
“‘रही चौमासा येह गुण गाया, आतम शिव वधू परणीने । १०।’”

आ चारे गाथाओ छे.

स्त्रात्र पूजा संवत् १९५० मां जंडिआला-गुरुका जिला-
अमृतसर (पंजाब) मां श्री संघना आग्रहथी रचवामां आवी
छे जे वात ए पूजाना कलशनी—

“‘^५ सर अंक इंदु शुभ वर्षे, जंडिआले मास रहे चारी । ७ ।
“‘संघके आग्रहसे करी रचना, जिन कल्याणक अघटारी । ८।

आ बे गाथा बतावे छे.

स्त्रात्र पूजामां श्री जिनेश्वर देवना जन्म कल्याणकनो सेरु
यर्वत ऊपर इंद्र मलीने जन्मोत्सव-जन्म स्त्रात्र-जयंती-उजवे छे
ते रीति श्रीजंबूद्धीप पन्नति सूत्रादिना अनुसारे वर्णवतां
आवक-गृहस्थ जैननी करणी वर्णवेली छे.

नवपदजीनी पूजामां अरिहंत १ सिद्ध २ आचार्य ३
उपाध्याय ४ साधु ५ सम्यक्त्व-दर्शन ६ ज्ञान ७ चारित्र ८
अने तप ९ ए नवपदनी आराधनानुं वर्णन छे. जेवी रीते
श्रीपाल अने मयणा ए नवपदनी सेवा करी तेवी रीते अन्य
भव्य प्राणिओए पण करवी घटे छे.

अष्ट प्रकारी पूजामां श्रीमहानिशीथादि अनुसारे प्रभुनी अष्ट द्रव्यवडे अष्ट प्रकारी पूजानुं वर्णन श्रावक कर्तव्य तरीके सदृष्टांत आपेलुं छे.

वीस स्थानकनी पूजामां श्री ज्ञातासूत्र, आवश्यक सूत्र आदिमां तीर्थकर नाम कर्म उत्पन्न करवानां अरिहंत आदि वीस निमित्त वर्णवेल छे तेनी आराधनानुं सदृष्टांत वर्णन छे.

सत्तरभेदी पूजामां ज्ञाताजीमां द्रौपदी महासतीए, राय-पसेण्ठी सूत्रमां सूर्यभद्रेवताए जेवी रीते सत्तर वस्तुवडे प्रभुनी पूजा करी छे तेवीज रीते सत्तर वस्तुए करीं प्रभु पूजानुं वर्णन छे, मतलव पांचे पूजाओमां प्रभु भक्तिद्वारा सम्यक्त्वनी निर्मलताथी यावत् मुक्ति फल प्राप्त करी शके तेबो आत्मोद्धारनो सरल अने साधो मार्ग बताव्यो छे.

यद्यपि आ पूजाओ घणे भागे हिंदीमां छे तोपण सरल अने सार्दी भाषा होवाथी तेमज राग रागणीनी मीठासना कारणने लई गुजरातमां पण एनी वधारे खपत नजरे आवे छे. केटलेक टेकाणे तो संगीतना रसीला श्रावको आ पूजाओ-जेमां पण खास करीने सत्तरभेदी अने वीस स्थानकनी पूजाज भणावे छे. आ पूजाओनी घर्णा आवृत्तिओ रई चूकी छे

એજ એની વધારે ઉપયોગિતા સૂચવે છે. આ દરેક પૂજા જુદી જુદી પ્રથમ છ્યાળી હતી, તે પછી શ્રાવક ભીમસિંહ માણકના તરફથી ગુજરાતી અને દેવનાગરી અક્ષરોમાં છ્યાએલ પૂજા-સંગ્રહમાં એકઠી છ્યાળી હતી. શ્રીજૈન આત્માનંદ સભા તરફથી બે આવૃત્તિઓ નીકળી. એક આવૃત્તિ ૧૦૮ શ્રી હંસ વિજયજી મહારાજજીની ઇચ્છાનુસાર અહુમદાવાદથી નીકળી. બલી શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી “વિવિધ પૂજા સંગ્રહ” આ નામથી ૨૦૦૦ કોષીની ત્રીજી આવૃત્તિ નિર્ણયસાગર પ્રેસમાં મુંબઈમાં કઢાવવામાં આવી. એટલે એકંદર સાત વર્ષત આ પૂજાઓ છ્યાવવામાં આવી. બીકાનેરની વિદ્યાશાલાના નામથી યતિજી રામલાલજી એ “શ્રી જિનપૂજા મહોદધિ” નામા ૩૭ પૂજાઓનો સંગ્રહ સંવત્ત ૧૯૫૮ માં છ્યાબ્યો છે તેમાં પણ આ પૂજાઓ સંગ્રહિત રહ્યે છે તે મલ્લી આડ આવૃત્તિઓ રહ્યે તોપણ પૂજાના રસિકોની અધિકને અધિક માગણી હોવા-થી ૧૦૮ શ્રી સુનિ મહારાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજના ઉપદેશથી આ કામ અમારી લાયબ્રેરીના તરફથી કરાવ-વામાં આવ્યું છે.

“ पूजासंग्रह ” ना आगळथी याहक थनारां
बानुओ अने घृस्थोना नामनी यादी.

अमदावाद.

२ मोहनलाल छोटालाल

२ डाह्याभाइ मलुकचंद

२ रतनचंद मलीचंद

२ कचराभाइ अमृतलाल

१ शा. डाह्याभाइ मोतीलाल

१ शा. चंदुलाल गोकळदास

१ वहेन माणेक पुंजालाल

१ शा. मणीलाल डाह्याभाइ

२ शा. सांकळचंद वालाभाइ

१ हंसराज प्रेमचंद

१ वहेन हीरी जेठालाल

१ शा- कंचराभाइ वखतचंद

१ झवेरी वापालाल न्यालचंद

१ शा. जेसींगभाइ हरजीवनदास

१ शा. मोहनलाल अमीचंद

१ हुकमीचंद गुलावचंद

२ जेसींगभाइ उगरचंद

आकोला.

५ पृथ्वीराजजी रतनलालजी

• अलवरसीटी.

१ कल्लमल पालावत

अरनोद.

३ शागोजीरामजीजालमचंदजी
अमरेली.

१ भगवान्‌जी त्रीकमजी
अशा.

१ नरोत्तम शंकरभाइ
खुडाला.

१ छोगभल धुलाजी

१ गंगाराम सरदारमल

१ निहालचंद पुनमचंद

१ खीमराज ताराचंद

१ मा. त्रीभुवनदास मोतीचंद

१ पृथ्वीराष्ट्र हजारीमल

२ जसराज धनहपजी

१ चुनीलाल पुनमचंद

१ जुहारमल धूलाजी चोवीटीया

१ उमेदमल मेघाजी

१ रिषवदास प्रतापजी

१ गुलावचंद नवलाजी
 २ प्रेमचंद हजारीमल
 १ अमीचंद चीमनाजी
 १ फोजमल खुशालजी
 १ फोजमल ताराजी
 १ धोरीदास सोभाजी
 १ रतनचंद कस्तुरचंद
 १ निहालचंद नवलाजी
 १ रिखबदास मोतीजी
 १ रतनचंद वृद्धिचंदजी
 १ तिलोकचंद भीखाजी
 १ दलीचंद चेनमल
 १ हीमतमल मयाचंदजी
 २ जवारमल छजमल
 ५ पंचमहाजन देवकी दुकान
 खाते
 १ धनराज ताराचंद भंडारी
 १ दलीचंद परतापमल
 १ सरदारमल राजमल
 वेरावल.
 ३० जैन ज्ञानवर्धक शाला.
 ४ कालीदास अमरसी

२ हीराचंद वीरचंद
 १ कपुरचंद लखमीचंद
 १ केशवलाल जेचंद
 १ लाल हीराचंद
 १ जेपाल पानाचंद
 १ हरखचंद सुंदरजी
 १ लालचंद देवचंद
 १ यमभइ हरखचंद
 १ हंसराज वसनजी
 १ कल्याणजी लखमीचंद
 १ ओतमचंद नेमचंद
 १ रामचंद लाधा
 १ जगजीवन गणेश
 १ लीलाधर पानाचंद
 १ जुठा लीलाधर
 १ हीराचंद ताराचंद
 १ प्रेमजी रामचंद
 १ सोमचंद गोविंदजी
 १ मेघजी जगजीवन
 १ नानजी रतनजी
 १ टोकरसी जेठा
 १ देवचंद रवजी

श्री जैन आत्मानंद सभाना तरफथी “ विविध पूजा संग्रह ” नामे प्रसिद्ध थयेली तृतीयावृत्तिमां आ पांच पूजाओ उपरांत नव पूजाओ मुनि महाराजश्री वल्लभविजयजीनी वनावेली मली एकंदर चउद पूजाओ छे. अमारी आ, स्वर्गवासी गुरु महाराजनी पूजाओने लई नवमी आवृत्ति अने सर्व पूजाओना संग्रहरूपे प्रथमावृत्तिमां, श्री जैन आत्मानंद सभानी तृतीयावृत्तिमां आवेली चउद पूजाओ उपरांत परमगुरु १०८ श्री हंसविजयजी महाराज विरचित श्री गिरनार पूजा तथा मुनिमहाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित पंचतीर्थी पूजा १ श्री महावीरस्वामी पंचकल्याणक पूजा २ श्री आदिनाथ प्रभु पंचकल्याणक पूजा ३ अने चउद राजलोक पूजा ४ मली कुल ओगणीस पूजाओनो संग्रह करवामां आवेल छे, अने एज माटे अमे पण आ पुस्तकनुं नाम श्री जैन आत्मानंद सभा भावनगरनुं राखेलुं “ विविध पूजा संग्रह ” ज कायम राख्युं छे.

आ पुस्तकनो सर्व साधारण वर्गमां एक सरीखो उपयोग थाय अने सर्वने लाभ मले ए हेतुथी आ पुस्तकने छपाववामां खप लागता कागलो आदिने माटे ६५०) शेठ गोवींदजी सुशाल वेरावलवाला, ५००) शेठ सोमचंद उत्तमचंदम गंगरोल-

વાળા, અને ૨૫૦) કોટ-સુંવર્ડી-જ્ઞાનખાતા તરફથી મદદ તરીકે આપવામાં આવેલ છે એ બાવત પૂર્વોક્ત સર્વનો આભાર માની તેઓને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે. ૧૫૦) સુંદરજી-ભર્ડી માંગરોલ વંદરના તરફથી સાધુ સાધ્વિયોને સદરહુ પુસ્તક ભેટ તરીકે આપવા બાવત મલ્યા છે જેના બદલામાં એઓ સાહેબને ધન્યવાદ આપી બીજા સદ્ગૃહસ્થોને પોતાની સુકૃતની કમાણીનો સદુપયોગ કરવા—અનુકરણ કરવા ભલા-મણ કરી, છૈવટમાં વનતા સુધી શુદ્ધ કરવામાં લક્ષ્ય આપવા છતાં રહી ગયેલ અશુદ્ધિને માટે ક્ષમા માંગી વિરમિએ છીએ.

શ્રી હંસવિજયજી જૈન ફ્રી લાયબ્રેરીના.

સભાસદો લુણસાવાડા મોટી પોલ

અહમદાબાદ.

- १ जुठालाल कल्याणजी
 १ गुलावचंद नरसी
 १ जैचंद खीमजी
 १ गुलावचंद प्रेमचंद
 २५ शा. चतरभुज हरखचंद
 बीकानेर.
 २५ शेठ. सुमेरमलजी सुराणा
 ५० शेठ. सदनमलजी कोचर
 सुरत.
 ५ झवेरी नगीनचंद कपुरचंद
 १ शा. चुनीलाल छगनचंद
 महीदपुर.
 २५ सोनी धुमजी गणेशजी
 प्रतापगढ.
 ५ लक्ष्मीचंदजी धीया
 ५ रामचंद्र लालाजी
 रतलाम.
 ११ रखवदास फतेचंद
 २५ रा. केसरीसीहजी पटवा
 १० भंडारी केसरीमलजी
 ३ कर्मचंद जडावचंद
 धंधुका.
 १ नागरदास जगनलाल
- दाठा.
 ५ सलोत दलीचंद ताराचंद
 बुहारी.
 १ कसनाजी मनाजी
 चाणस्मा.
 ३ त्रीभुवनदास दलीचंद
 लींबोदरा.
 २ त्रीभोवनदास फुलचंद
 २ अमथाराम नालचंद
 २ सरूपचंद पानाचंद
 १ गुलावचंद फुलचंद
 १ माणेकचंद उगरचंद
 बोरसद.
 २ गंभीरविजयजी
 पालणपुर.
 १ विरविद्योत्तेजकसभा
 १ भणसाली मलुकचंद साक-
 रचंद
 १ मणीलाल खुशालचंद
 १ पारी प्रेमचंद केवळचंद
 ५ नगीनदास खुबचंद
 ६ शा. मणीलाल खुशाल

थाना कंटारी.		कंपडवंज	
१ राजपल पुनमचंद	जयपुर	१ दोस्री करमचंद वीरचंद	
१ प्रिय मेडले		भासुदा	
पादरली.			
२ हजारीमुल मानाजी		२ शा. रामाजी पदमाजी	
जंडीयाला.		झीझुवाडा.	
५ लाला खरायतीराम लक्ष्म-		५ मास्तर सुखलाल रवजी	
णदास		पाटडी.	
सनखतरा.			
५ अनंतराम कपुरचंद		१ शा. हठीसींग गोकुलचंद	
कच्छ भुज.		मुंबई.	
१ देवसी हेमचंद		१०० जैनमित्रसभा	
१ झवेरी कानजी लालजी		२५ रतनजी लाधाभई	
१ नेमसी रतनसी		१ वजेचंद जयचंद	
१ रायचंद वीजपाल		१ फुलचंद रूपलाल	
२ नाथीवाइ तपगच्छना उपा-		१ नाथाभाई नंदलाल	
सरा सारू		१ मुक्कजी वेचर	
१ कानजी मानसी		१ पीतांबर खुशाल	
१ जादवजी मुक्कजी		१ नगीनदास मोतीचंद	
१ छगनलाल ताराचंद		१ नाथालाल शंकरभाई	
१ नथुभाई वेलजी		१ मोतीचंद धरमचंद	
१० शा. देवजी हेमचंद		१ मोतीलाल वजेचंद	
		१ नाथाभई हरीलाल	
		१ नानचंद शंकरभई	

२१ शा. नंथुभाई लखमीचंद	१ मोहनलाल नाहणजी भगत
५ लवजीभई करसनजी	१ शा. गोकलदास त्रीभोवन-
१ शा. डाह्याभाई हकमचंद	दास
भावनगरी	१ वहोरा मुलचंद लाधा
१ शा. नाथालाल जगजीवन	१ गुलावचंद वीरचंद
दास	१ वेचरदास जेचंद
१ शा. सामजी देवचंद	१ शेठ हरखचंद जेचंद
२ शा. ओतमचंद नानजी	१ दुलभजी नागजी
३ शा. जगजीन डाह्याभाई	१ रतनशा नानजी
अपरेलीवाला	१ संघवी कल्याणजी वच्छराज
४ शा. चुनीलाल मुलचंद भा-	५ आदि श्रीसंघ
वनगरी	१ मोदी ताराचंद नथुभाई
५ शा. परसोतम ओववजी	मेसाणा.
६ शा. सोभाग्यचंद जसराज	१५ आनंदजी देवसीभाई
७ कचरा जीवण	५ जैन झानभंडार
८ पटवा खुशाल आणंदजी	५ रविसागरजी पाठशाला
९ शा. काळा लालाजी	१ मनसुख चुनीलाल
१० शा. झवेरचंद लाधा	४ यशोविजय जैनशाला
११ संघवी भगवानदास मनोर-	तर्खतगढ़.
दास	२ सहस्रम इंदाजी
१२ शेठ माधवजी रुगनाथ	२ मकराज मुलचंद
१३ मुलचंद हीरजी	२ अखेचंद धीराजी

४ चौथमल सकाजी
 १ कपुरचंद जेठाजी
 १ सेसमल दोलाजी
 २ मुलचंद वालाजी
 १ रगनाथ अंदाजी
 २ प्रतापचंद हरखचंदजी
 १ जुहारमल पुनमचंदजी
 १ पुनमचंद कस्तुरजी
 १ भूरमल राजाजी
 १ नथमल गुलाबचंदजी
 १ हजारीमल पन्नाजी

 जुनागढ.
 १ शा. परमाणंद हीरजी डडीया
 १ कंपाऊंडर दुलभचंद सुरचंद
 १ पटवा हीराचंद कल्याणजी
 १ शा. जगजीवन जीवा

 जामनगर.
 १ शा. गलालचंद संघराज

 कुतीयाणा.
 १ फुलचंद गलालचंद

 तळाजावंदर.
 ११ श्री संघ हा. केशवजी

 झ़्राभाई

पोरबंदर.
 १ भणसाली प्रेमजी धर्मसीह-

 राणी.
 ५ बृद्धिचंदजी

 लुधीयाना.
 ५ बाबु पंजाबराय जैनी

 विजापुर.
 १५ अस्त्मानंद जैन पाठशाला

 लीबडी.
 १ शा. हरखचंद उजमजी
 १ शा. मणीलाल धनजी

 शीनोर.
 १ हरीलाल नेमचंद
 १ नाथालाल नरोत्तमदास
 १ शा. गुलाबचंद डाह्याभेझ

 टींवा.
 १ कालीदास हीराचंद

 कोलारगोलफील.
 १ शा. जसराज परतापजी

 कच्छ मांडवी.
 ५ जादवजी वेलजी

 सैलाणा.
 ४ चांदमल मोतीलाल

सीयाणी.

- २ कुसनचंदजी मीलापचंद
सीतामउ.
- ५ चंपालालजी चोधरी
जेलम.
- २ साहेव दियाल अमीरचंद
जैनी
पाटण.
- १२ शा.
दभोई.
- ७ शा. खुशालभई
जयपुर.
- २ ढढा गुलावचंद एम. ए.
गुजरांवाला.
- १० श्री संघ
भाडीयो.
- ५ कानजी जेवत (संघतरफथी)
जीरण.
- २ शैठ उंकारलालजी
बोरी.
- ३ देवजी मोहनलाल भादव्या
धमोत्तर.
- २ मगनजी रुपचंजी

मीयाणी.

- १ रामचंद्र खरायतीराम
वनकोडा.
- १० तारावत केशवदास (चंपा-
लालभई न्यालचंद)
- पाली.
- १ चांदमलजी छाजेड .
- ३ अनोपचंदजी पोरवाड
- २ मेवराजजी मीठालालजी
वालीया
- १ तेजमलजी बछराज पोरवाड
- १ हंसराजजी संतोकचंदजी
- १ गुलावचंदजी गणेशमलजी
- १ मोतीलालजी वारसांवाला
- १ मीठालाल घीवाला
- १ मीठालालजी पोरवाड
- ३ बच्चुलालजी मुता
- ५ हर्षचंद सेठीया
- १ हीराचंदजी मुक्तचंद सींधी
- १ पन्नालालजी पंडिया
- १ शोभाचंदजी पंडिया
- १ लालचंदजी मुता

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| २ पन्नालालजी मुता
पाली. | १ झवेरचंद दीपाजी |
| १ जेठमलजी भंडारी | १ कुपा चमनाजी
गोंडल |
| १ चुनीलालजी पीरवाड | १० जगजीवन मोनजी
धोराजी. |
| १ वस्तीमलजी छाजेड
समाणा. | ५ शेषकरण सोभाग्यचंद |
| २ इदुमलजी सदाराम | २ प्रेमचंद कचराणी |
| १ रिखिराम कुंदनलाल | १ कनकजी सुंदरजी |
| १ देवीचंद वाबुराम | १ मंगलजी जसराज |
| १ सरथामलु सलेखचंद | १ मुलजी जेचंद |
| १ रोसनलाल उदयचंद | १ दुलभजी झवेरचंद |
| २ बनसीलाल मुन्नीलाल
नाणा. | १ विसाश्रीमार्णी ज्ञाति
धोराजी |
| १ ओटरमल अमरचंद | १ गोकत्न हंसराज |
| १ गंगाराम गुलावचंद | १ हरखचंद रूपचंद |
| १ नानचंद भगवान | १ पानाचंद लीलाधर |
| १ कपुरचंद कानजी | १ उजमवाइ मुलजी |
| १ भगवानदास देवीचंद | १ मुळजी विरजी
जेतपुर. |
| १ सीबलाल चंद्रभाण | १ त्रिभोवन नानजी |
| १ सोगमल हेमाजी | १ बलभदास फुलचंद |
| १ फताजी लल्लुर्जी | १ गुलावचंद वेलजी |
| १ पुनमचंद ताराचंद | |

२ दामोदर रामचरण
 १ जीवण जगजीवन
 बीयावर,
 ११ श्री जैनश्वेतांवर भंडार
 ५ पुखराजजी भैरोलालजी
 सींघी
 १ शा. उदयमलजी कल्याण-
 मलजी

५ कोठारी मेलापचंदजी भंड-
 लालजी
 १ हीरालाल मोतीलाल
 १ मिश्रीमलजी धार्दीलाल
 १ सिंधी अगरचंदजी गोरी-
 चंदजी
 १ भंडारी देवराजजी मुन्नी-
 लालजी

रु. ५०० मांगरोल्वाळा सोमचंद ओतमचंद
 २५० मुंवई कोटना संघ तरफथी
 १५० वेरावल्वाळा गोविंदजी खुशाल
 १३० अमदावादवाळा पुंजाभाई दीपचंद
 १५० मांगरोल्वाळा सुंदरजी शेठ
 ७० डाह्याभाई गुलावचंद
 उपरना सदृगृहस्थोनो आभार मानवामां आवे ह्ये.



बीकानेर (मारवाड)	कोचर	१ राजमल	कोचर
६ नेमचंदजी,		१ भोजराजजी	,
१ भमरलाल	,	१ सिढ्करण	,
१ जीवनमल	,	१ गैनमल	,
१ हीरालाल	,	१ दृष्टिचंद	,
१ मंगलचंद	,	१ शमचंद	,
१ बहादरमलजी	,	१ अनोपचंद	,
१ कनैयालाल	,	१ पूनमचंद	,
१ मुकुंदलाल	,	१ हेमराज	,
१ रोशनलाल	,	१ देखचंद	,
१ लालचंद	,	१ पुरवराज	,
१ हुकमचंद	,	१ धनराज	,
१ उदयचंदजी	,	१ जसकरण	,
१ दीपचंद	,	१ सदनमल	,
१ छत्रसिंह	,	१ मानमल	,
१ गुलाबचंद	,	१ मोहनलाल	,
१ शिववक्ष	,	१ छगनमल	,
१ मूलचंद	,	१ वसंतलाल	,
१ तेजकरण	,	१ गिनदास	,
१ सगतसिंह	,	१ शमसिंह	,
१ लूणकरण	,	१ मोहनलाल	,

१ मानमल	कोचर	१५ ,,	हांशियारपुर
१ हस्पान	"	१० ,,	मालेरकोटला
१ तेजकरण सिद्धकरण	"	१० ,,	लुधीआना
१ नेपिचंद लृणकरण	"	१५ ,,	जंडियाला
१ मानमल मंगलचंद	"	१० ,,	लाहोर
१ कर्मचंद सेठिया		१० ,,	समाना
१ कनैयालाल गुलेच्छा		१० ,,	पट्टी
१ जैठमल बैगानी		१० ,,	जीरा
१ वशीलाल पारख-		५ ,,	सनखतरा
१ मगनमल लूणिया		५ ,,	नारोवाल
५ मोतीलाल बैद		५ ,,	जम्मू
१० शिवचंदजी सुमेरमल	सुराणा	५ ,,	नकोदर
		५ ,,	जलंधर
१ पूनमचंदजी सावनसुरवा		५ ,,	रोपह
१ उदयमलजी ढढा		१० ,,	अमृतसर
१ लक्ष्मीचंदजी-सीपानी			अजमेर (लाखनकोटडी)
१ देवचंद	"		१५ शेठ हीराचंदजी सहावसजी
	पंजाब		१० श्रीयुत सेठ हीराचंदजी-
१५ श्री आत्मानंद जैन सभा			सचेजी
	अंबालासीटी		१ ,,, पनालालजीरीधरा-
१५ ,,	गुजरांवाला		जी महता,

१ „, मणनपलजी माणक-	१	पारवती नाभजी
मलजी वाठीया	१	वकील चकुजी
१ „, मेगराजजी गोलेछा	१	डाह्यालाल घीवाला
१ „, दीरदोचंद्रजी गोलेछा	१	मणीलाल चुनीलाल
१ „, हमीरमलजीः स्था नं. १४ रंगुन वरमा	१	कच्छ मांडवी
(मांगलस्तीट)		चतुभुज गोकलजी
१ भुखणदास हेमचंद जवेरी राजकोट	४	आसपुर
१ कागदी परसोतमपरमाणंद	ताराषत चंपालाल निहा-	
समरत बेन	लचंद	
१ सामजी भाइ		अमदाकाद
१ चुनीलाल न्यालचंद	२५ सात भायावाला हीरा-	
	कोर बहेन	
	प्रभास पाटण	
	२५ सुंदरजी हरचंद	



॥ अनुक्रमणिका ॥

पूजानुं नाम.	पृष्ठांक ॥
१ स्नात्र पूजा	१ से १६
२ अष्ट प्रकारी पूजा	१६—३५
३ नवपद पूजा	३५—६०
४ सत्तरभेदी पूजा	६०—८२
५ वीस स्थानक पूजा	८३—११८
६ गिरनार तीर्थ पूजा	११९—१५९
७ पंचपरमेष्ठि पूजा	१६०—१८१
८ पंचतीर्ति पूजा	१८२—२०१
९ आदीश्वर पंचकल्याणक पूजा	२०४—२३३
१० पार्श्वनाथ पंचकल्याणक पूजा	२३४—२६१
११ महावीर पंचकल्याणक पूजा	२६२—२९४
१२ एकवीस प्रकारी पूजा	२९५—३३३
१३ ऋषिपंडल पूजा	३३४—३६१
१४ नंदीश्वरदीप पूजा	३६२—३९२
१५ नित्योनवे प्रकारी पूजा	३९३—४२०
१६ द्वादशव्रत पूजा	४२१—४५६
१७ चउद राजलोक पूजा	४५७—४८६
१८ संक्षिप्त अष्टप्रकारी पूजा	४८७—४९१
१९ गुरुमहाराजकी पूजा—दो प्रकार	४९२—४९६

श्री आदर्श प्रिन्टर्स ब्रेसमां

ग्रा. वाडीलाल दाहायामाई एडिटे नायी-नवा दृताना श्रीहात्माज्



अथ श्रीजैनाचार्य श्रीश्रीश्री १००८ श्रीमद् विजयानंद
सूरीश्वरजी-प्रसिद्ध नाम “आत्मारामजी”
महाराजजी विरचित

पूजासंग्रह.

—३४८—

“स्नात्रपूजा”

प्रथम पूर्वदिशा सन्मुख, अथवा उत्तरदिशा सन्मुख, प्रतिमाजीका मुख होवे उस तरह ऊपरा ऊपरी शुद्ध करके, धूपादिकसे पवित्र करी हुई तीन चोकियां (बाजोट) जलादिकसें शुद्ध करके, धूपादिकसें पवित्र करके, गुलाब केवडा प्रमुखके जलसे सुगंधित छंटकाव करके, पुण्यकी वृष्टि करी हुई भूमिमें स्थापन करनी. ऊपर प्रतिमाजी स्थापनेके लिये सिंहासन स्थापन करना. यदि दो चोकियां और तीसरा सिंहासन होवे तो भी कुछ हरकत नहीं. चोकियोंके मध्य भागमें एक एक केसरका स्वस्तिक करना. उसके ऊपर चावलोंका स्वस्तिक करना. उसके ऊपर श्रीफल, सुपारी आदि रखना. सिंहासनमें, अगर ऊपर रखी हुई परात आदिमें, दो स्वस्तिक केसरसे करके एकके ऊपर तीन नवकार पूर्वक पंचतीर्थी प्रतिमा स्थापन करनी, उसके आगे दूसरे स्वस्तिकके ऊपर सिद्धचक्र स्थापन करना. स्नात्रका जल नीचे न गिरे जिसके लिये सिंहासनके

पास पाणी निकलनेकी दूटीके नीचे पीत्तलकी बाटी (त्रांवाकुडी) रखनी, स्लात्र पूजा आदि संपूर्ण होए पीछे स्लात्रका जल जहाँ पांव न आवे वैसे स्थानमें गेरना, चोकियोंके आगे एक पटडा (पाटला) अगर छोटी चोकी (बाजोठ) शुद्ध पवित्र करके स्थापन करनी, उस चोकीके ऊपर चावल पूरने, तिसके ऊपर सुपारी, बदाम आदि रखना, पीछे निर्मल जल १, दूध २, दधि (दही) ३, गौका घृत ४, और मिसरीं ५, इनसे पंचामृत बनाके बीचमें फूल, बरास, केसर, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ डालके जितने स्वस्तिक किये हां उतने कलश भरके स्वस्तिकके ऊपर रखने, कलशके पासे पर स्वस्तिक करने, और गलेमें दूटीके साथ पेच (आंटी) पाकर मौली (नाडा) बांधना, कलशोंके ऊपर शुद्ध अंगलहँणें तह (घड़ी) करके स्वस्तिक करके रखने,

प्रतिमाजीके दाहिणे (जिमणे) पासे प्रतिमाजीकी नाशिकाके बराबर लाट (शिखा) आवे उस रीतिसे दीपक रखना, सो दीपक लालटैन (फानस) आदिमें रखना, बामे (डाभे) पासे धूप रखना, सिंहासनके ऊपर चंद्रोया, बंदरबाल (तोरण) बांधना, भगवान्के ऊपर छत्र धारण करना, इत्यादि विधि करे बाद दो अगर चार स्लात्री शुद्ध होके, आभूषणोंसे सुशोभित हो तिलक लगा मुखकोश बांध हाथ धो धूपादिकसे पवित्र कर, तीन तारकी मौली(नाडाछडी)से कंकण बांध हाथको केसर - आदिकसे चर्चित करके खड़े रहे, पीछे स्लात्र पढ़ाना प्रारंभ करे,

“स्नात्रपूजा.”

॥ दोहा ॥

बामासूनु पणमीए, श्रीशंखेश्वर पास ।

स्नात्र रचू जिनवरतणा, जिम तूटे भवपास ॥१॥

अलंकार विकार विना, विधुवत् कमनीय अंग ।

सहज उपाधिमुक्त विभु, सोभे जीत अनंग ॥२॥

“यह पढ़कर प्रतिमाजीके अलंकार उतारने.”

॥ दोहा ॥

बिंब भला जिनराजका, माहिमा जास अपार ।

कुसुमाभरण उतारीए, त्रिभुवन मोहनहार ॥३॥

“यह पढ़कर निर्माल्य अर्थात् पहिले चढ़ाये
हुए फूलादि उतारने.”

॥ दोहा ॥

बालपणेमें सुरगिरौ, कनक कलश भरि नीर ।

करी स्नात्र सुराधिपा, पाम्या भवजल तीर ॥४॥

दिठा जिन जिनराजको, धन्यं जन्म है तास ।

नयन सफल पिण तेहना, सफल फली मन आस ॥५॥

“यह पढ़कर प्रथम स्थापन किये कलशसे

स्नान करना, पीछे शुद्ध जलके साथ स्नान करा
 अंगलूहणा कर चंदन पुष्पादिकसे पूजा करनी.
 पीछे धोए धूपादिकसे पवित्र किये हुए कलश
 स्नान करने योग्य सुगंधि पंचामृतसे भर हारबंध
 रखने, ऊपर शुद्ध वस्त्र ढाँक देना. पीछे सर्व
 स्नात्री हाथमें केशर, चंदन, धूप, पुष्प, चामर
 आदि लेके हारबंध खडे रहे. एक स्नात्री कुसुमां-
 जलि लेके भगवानके दाहिणे (जिमणे) पासे
 खड़ा रहे. पीछे नीचे मूजिब उच्चारण करे.”

नमोर्हत्सद्वाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥

॥ दोहा ॥

अतिसयं चउतीस संयुत, वाणीगुण पणतीस ।
 सो परमेसर देख भवि, त्रिभुवनकेरो ईस ॥ १ ॥

॥ कुसुमांजलि ढाल ॥ लावणी ।

(पार्वतीका पति जो कहीये, जिनपति पूजे फूलोंसे यह चाल.)

सर्व सुरेंद्र पूजे जिम तिम, कुसुमांजलि
 करो फूलोंसे । अं० ॥ पवित्र उद्क लेइ अंग
 पखाली, शुचि वसन तनु धारी रे । आदिजि-

नंदके चरण कमलमें, कुसुमांजलि मनोहारी रे
॥ स० ॥ १ ॥

“यह पढ़कर कुसुमांजलि चढ़ावे. कुसुमांजलि
के साथ तिलक, पुष्प, धूप आदि पूजाका
विस्तार समझलेना. सर्व कुसुमांजलिमें ऐसेही
समझना. इति प्रथमकुसुमांजलिः ॥ १ ॥

॥ नमोर्हत०—दोहा. ॥

जो निजगुणपर्यव रमे, जस अनुभव इक्र रंग ।
सहजानंदी शिवंकरु, अचल सरूप अनंग ॥ २ ॥

॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

रथण सिंहासन जिन थापीजे, आतमगुण
आनंदीरं । शांति जिनंदके चरण कमलमें, कुसु-
मांजलि सुखकंदीरे ॥ स० ॥ २ ॥ “यह पढ़कर
कुसुमांजलि चढ़ानी. इति द्वितीयकुसुमांजलिः २ ”

॥ नमोर्हत०—दोहा. ॥

निर्मल आतमरूप करी, निर्मल गुण सोहंत ।
निर्मल दीनी देशना, निर्मल भविजन संत ॥ ३ ॥

॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

अगर कपूर धूप कर वासी, पूजो पुण्गल

निरासी रे । नेमि जिनंदके चरण कमलमें, कुसु-
मांजलि सुखरासी रे ॥ स० ॥ ३ ॥ “यह पढ़कर
कुसुमांजलि चढ़ानी इति तृतीयकुसुमांजलिः ॥३॥”
॥ नमोर्हत०—दोहा ॥

जे सिद्धा जे सीझसी, भविजन कर भव अंत ।
जिनभक्ति विन कोइ नहि, जय जय अमर अनंत ॥
॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

आतमानंदी निजगुणसंगी, जगत उद्धारण
हारारे ॥ पास जिनंदके चरण कमलमें, जल थल
फूल उदारारे ॥ स० ॥ ४ ॥ “यह पढ़कर कुसु-
मांजलि चढ़ानी. इति चतुर्थकुसुमांजलिः ॥४॥”
॥ नमोर्हत०—दोहा ॥

त्रिभुवन दीपक चरम जिन, सर्व संघ आधार ।
मुक्ति रमणी कारण विभु, भव दुःख भंजनहार ॥५॥
॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

जिनके गुणका पार न पाऊं, जो मुझ ता-
रण हारा रे । वीर त्रिलोकी हितकर बंदु, कुसु-
मांजलि अघ टारा रे ॥ स० ॥ ५ ॥ “यह पढ़कर
कुसुमांजलि चढ़ानी. इति पंचमकुसुमांजलि.” ५

॥ नमोर्हत०—दोहा ॥

ऋषभदेव आदि करी, वर्ढमान परजंत ।
वर्तमान चउ वीस जिन, कलिमल सयल निहंत ६
॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

जग तारक चउ वीस हि जिनवर, भविजन
कमल दिनंदारे । चउवीस जिनंदके चरण कम-
लमें, कुसुमांजलि शिवकंदारे ॥ स० ॥ ६ ॥
“ यह पढ़कर कुसुमांजलि चढ़ानी । इति षष्ठ
कुसुमांजलिः ॥ ६ ॥

॥ नमोर्हत०—दोहा ॥

उत्कृष्ट पदे सय सत्तरि, विहरमान लाभंत ।
चवण समय इग वीस जिन, पूजो कलिमल हंत ७
चार चार मेरु समंत, विहरमान जिन वीस ।
भक्तिभावे पूजीए, पूरे संघ जगीस ॥ ८ ॥

॥ कुसुमांजलि ढाल ॥

भूत भविष्य अनंत चउवीसी, वर्तमान
जिन चंदारे । आतमानंदी सयल जिनंदकी कु-
सुमांजलि करो नंदारे ॥ “ यह पढ़कर कुसुमां-
जलि चढ़ानी । इति सप्तमकुसुमांजलिः ” ॥ ७ ॥

“पीछे स्नात्री तीन खमासमण पूर्वक जग-
चिंतामाणि चैत्यवंदन संपूर्ण जय वीयराय पर्यंत
करे. पीछे मुखकोश बांधके हाथ शुद्ध करके
धूपादिकसे पवित्र करके तीन खमासमण देके
एक नवकार गिणके एक स्नात्री पंचामृतका
कलश अंगल्हहणेसे ढाँकके ऊपर फूल माला
डालके हृदयके पास धारण करके खड़ा रहे.
और सर्व स्नात्री धूप, चामरादि लेके खडे रहे,
यीछे मिठे स्वरसे नीचे मुजब पढ़ें ॥”

—३४—

॥ ढाल दूसरी ॥

॥ दोहा ॥

सकल जिनंद नमी करी, कल्याणक विधि रंग ।
जो भवि गावे रंगसे, अटल महोदय चंग ॥१॥
(कोयल टौंक रही मधुवनमें यह चाल.)

सुपन महोच्छव करो भवि रंगे, मुक्ति रमणी
सुख लहो भवि चंगे ॥ सुपनमहोच्छव०—अंचली ॥
समकित महावत संजम पाली, वीसथानक

तप विधि कर झाली । तीर्थकर पद बांधि उमंगे
 भव तीजे शुभ दया दिल संगे ॥ सु० ॥ १ ॥
 एक भवांतर जिनपद संगी, पंदर क्षेत्रमें नृप-
 कुल चंगी आर्य देशमें नृप पटराणी, अवतरे
 कूखमें जिन त्रिहुं नाणी ॥ सु० ॥ २ ॥ सुख
 सिजामें माता देखे, चउ दस सुपन सुहंकर
 रेखे । गजवर वृषभ सिंह वर कमला, फूलमाला
 विधु सूर्य हि अमला ॥ सु० ॥ ३ ॥ धजाकलस वलि
 पद्म सरोवर, रतनागर पय अतिही विसाला ।
 भवन विमान रतनकी राशि, अग्नि शिखा अति
 झाकझमाला ॥ सु० ॥ ४ ॥ पतिको सुपन प्रकासे पति
 कहे, तीर्थकर सुत त्रिभुवन नंदा । होसे सुनकर
 माता हरखी, आतमराम जिनंद सुख कंदा ।
 सु० ॥ ५ ॥

॥ ढाल तीसरी ॥

॥ दोहा ॥

शुभ लभे जिन जनामिया, त्रिभुवन भयो प्रकाश ।

नारकको सुख उपनी, भविजन पूरे आशा ॥ १ ॥

(वारि जाउंरे केसरिया सामरा, गुण गाउंरे वारि । यह चाल

जन्म महोच्छव गावोरे, भवताप निवार
 जन्ममहोच्छव० अं । उरध अधो दिशि अ
 अठ आवे, सुंदर रूप कुमारीरे ॥ भ० ॥ १ ॥
 रुचक गिरि चउ दिशिसे अठ अठ, चार विदिवि
 मध्य चारीरे ॥ भ० ॥ २ ॥ अष्ट संवर्त्तक वात गंधोदव
 अड जल भरी ले भृंगारीरे ॥ भ० ॥ ३ ॥ दर्पण अ
 अष्ट लेइ चामर, पंखा अष्ट लेइ भारीरे ॥ भ
 ॥ ४ ॥ कदली घर कर पुत्र मातायुत, शुर्च
 करण कुंभ वारीरे ॥ भ० ॥ ५ ॥ माताको कुसु
 मालंकार करीने, राखडी बाँधे सारीरे ॥ भ०
 ॥ ६ ॥ शयने थापी गिरिसम आयु, होजो जि
 नजी तुमारीरे ॥ भ० ॥ ७ ॥ पूजी बांदी निज
 गेह पहुंती, आतम आनंद कारीरे ॥ भ० ॥ ८

—३४—
 ॥ ढाल चौथी ॥

॥ दोहा ॥

जन्म्या जिन जननी घरे, कंपे आसन सार ।

दाहिण उत्तर नायके, जान्यो यह अधिकार ॥१॥
घंटानाद बजायके, करे सुधोषण सार ।
सुरगिरि मिल सब आईयो, जन्म महोच्छव कार ॥२

राग—भैरवी.

(लागी लगन कहो कैसे छुटे प्राणजीवन—यह चाल)

23
सुरपति सगरे जिनपति केरा, करे महो-
च्छव रंगेरे ॥ अं० ॥ सब सुर वर मिल सुरगिरि
आवे, सोहमपति चित चंगेरे । बहु परिवारें ज-
न्मनगरमें, जिनपति नमत उमंगेरे ॥ सु० ॥१॥
रत्न कूख धारिणि सुन माता, सोहमपति हुं
सुरंगेरे । तुम सुतकेरा ओच्छव करसुं, भय मति
करी मन चंगेरे ॥ सु० ॥ २ ॥ थापी प्रतिबिंब
जिनवर लेइ, पंच रूप करी संगेरे ॥ पांडुक व-
नमें शिला सिंहासने, जिनवर लेइ उछरंगेरे ॥
सु० ॥ ३ ॥ शक्र विराजे त्रेसठ सुरपति, सुरगिरि
मिले मन रंगेरे । अच्युतपति तिहाँ हुकमज
कीनो, हरख न मावे अंगेरे ॥ सु० ॥ ४ ॥ सा-
मथी सकल मिलावो सुरवर, खीरनिधि जल

गंगेरे । ओच्छव करे जो जिनपति केरा, जन्मा-
दिक दुःख भंगेरे ॥ सु० ॥ ५ ॥ मागध आदि
तीर्थ उद्क वर, ओषधि मृत्तिका सुरंगेरे । सूत्रे
भाषी सर्व सामग्री, मेली अधिक उमंगेरे ॥ सु०
॥ ६ ॥ अड जातिके कलश प्रत्येके, अड अड
सहस सुचंगेरे । चउसठ सहस ही इक अभि-
षेके, अढीसें गुणा सर्वंगेरे ॥ सु० ॥ ७ ॥ ईशान
इंद्र लेड खोले प्रभुको, सोहमपति मन रंगेरे ।
बृषभ रूप करी शृंगे जल भरी, न्हवण करे प्रभु
अंगेरे ॥ सु० ॥ ८ ॥ आतम आनंद जन्म सफ-
लकर, गावे गीत सुरंगेरे । भव संताप निवारण
होरे, जिनपति मज्जन चंगेरे ॥ सु० ॥ ९ ॥

“ पीछे पंचामृतसे भेरेहुए कलशोंसे स्नात्र
करावै और नीचे मुजिब पढ़े. ”

॥ ढाल पंचमी ॥

॥ राग—कमाच ॥

कलश इंद्र भर ढारे, जिनंदपर० अंचली ॥

हाथो हाथ हि सुर वर लावत, खीर विमल
जलधारे ॥ जि० ॥ १ ॥ सुर वनिता मिल
मंगल गावे, आनंद हरख अपारे ॥ जि० ॥ २ ॥
गंधर्व किञ्चर गण सब करते, गीत नृत्य स्वर
तारे ॥ जि० ॥ ३ ॥ देवदुंदुभि मनहर वाजे,
बोले जय जयकारे ॥ जि० ॥ ४ ॥ आतम आ-
नंद पदके दाता, जगर्जीवन हितकारे ॥ जि०

“संपूर्ण पंचामृतसे स्नान कराए बाद स्वच्छ
जलसे स्नान कराके अंग लूहणे करके चंदन
केशर धुपादिकसे पूर्वसे अधिकतर पुजन करे
पीछे स्नानी धूप चामरादि करे और नीचे मु-
जिब पढे.”

॥ ढाल छट्ठी ॥

॥ दोहा ॥

पुष्पादिकसे पूजके, करिं बहु मंगलमाल ।
रच संगीत सुहावना, सुघर बजावे ताल ॥ १ ॥

॥ राग कमाच, तराना ॥

नाचत शंक शक्री, हेरी माई नाचत शक शक्री ।
छुँछुँछुँछुँ छननननन, नाचत शक शक्री ॥ अं०॥

श्री ही धृति कीर्ति बुद्धि वहु वनी ठनी ।

इंद्र इंद्राणी करे नाटक संगीत धुनी ॥

जय जय जिन जग तिमिर भानु तू ।

चरण धूंधरी छननननन ॥ माई० ॥ १ ॥

धौं धौं धप मप मादल करत धुनी ।

सुंदर रंगीली गोरी गावत जिनंद गुनी ॥

धन्य कृतपुन्य हम जन्म सफल अज ।

मेटे भवदुःख तुम वरननननन ॥ मा० २ ॥

त्रौं त्रौं त्रिक त्रिक वेणु वीणा त्रां त्रिक ।

भमरी फिरत गावे गीत मानु मधु पिक ॥

चार गति भ्रमण मिटावे भवि जनको ।

तेरे विन नहीं कोइ सरननननन ॥ मा० ३ ॥

करके संगीत शुद्ध करमसे करी जुद्ध ।

माता कर सोंप बुध वचन उच्चारे शुद्ध ।

सुत तुम स्वामी हम जतनसे राखजो ।

जनम मरण दुःख हरनननन ॥ मा० ४ ॥

बत्ती कोडी कनक वसन माणि माणकुं ।

बृष्टि करे पुण्य भरे रिष्टि सिष्टि दाणकुं ॥

आतम आनंद भरी दीप नंदीसरे जाइ ।

करके अठाइ गए सदनननन ॥ मा० ५ ॥

“अथ कलश.”

(राग दुपरी ॥ गिरनारीकी पहारी पर कैसे गुजरी-यह चाल)

जिन जन्म महोच्छव जयकारी, जयकारी
रे देवा जयकारी ॥ जि०अं० ॥ दीक्षा केवलज्ञान
कल्याणक, नित नित ओच्छव चित्त धारी ॥
जि० १ ॥ जंबूदीप पन्नतिए भाखी, जन्म महो-
च्छव विधि सारी ॥ जि० २ ॥ ते अनुसार सं-
खेप रूपसे, जिन गुण गाया कुमत छारी ॥ जि०
॥ ३ ॥ तप गच्छ गगनमें दिनमणि सरिसा,
विजयसिंह प्रभु गणधारी ॥ जि०४ ॥ सत्य कपूर
क्षमा जिन उत्तम, पद्मरूप कीर्ति भारी ॥ जि०५ ॥
श्रीकस्तूरमणि बुद्धि विजया, आतमरूप आनंद-

चारी ॥ जि० ६ ॥ खं सर अंक इंदु (१९५०) शुभ
वर्षे, जंडिआले मास रहे चारी ॥ जि० ७ ॥ संघके
आग्रहसे करी रचना, जिन कल्याणक अघ
टारी ॥ जि० ८ ॥

। इति स्नात्र पूजा ॥

॥ अथ अष्टप्रकारी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

॥ जिनवर वाणी भारती, दाराति तिमिर अज्ञान ॥
साराति कविजन कामना, वाराति विघ्न निदान ॥ १ ॥
चिदानन्द घन सुरतरु, श्री शंखेश्वर पास ॥
पद्मकज प्रणमी तेहना, आणी भाव उल्लास ॥ २ ॥
पूजा अष्ट प्रकारकी, अंग तीन चित धार ॥
अग्र पंच मन मोदसे, करि तरिये संसार ॥ ३ ॥
न्हवण विलेपन सुमन वर, धूप दीप अति चंग ॥
वर अक्षत नैवेद्य फल, जिन पूजन मन रंग ॥ ४ ॥
उज्जल विमल वसन धरी, शुचितनु मनजिनराग
उतरासंग मुखकोशको, बांधी सुभग सोभाग ॥ ५ ॥

॥ अथ प्रथमा न्हवणपूजा ॥

॥ दोहा. ॥

अधिक सुगंध जले भरी, कंचन कलश अनूप ॥
नर नारी भक्ति करी, पूजे त्रिभुवन भूप ॥ १ ॥

॥ राग-मालकोश. ॥

न्हवण करो जिनचंद, आनंदभर ॥ न्ह-
वण० ॥ कंचन रतन कलंश जल भरके, महके
वास सुगंध ॥ आ० ॥ १ ॥ सुरगिरि ऊपर सुर-
पति सगरे, पूजे त्रिभुवन इंद ॥ आ० ॥ २ ॥
श्रावक तिम जिन न्हवण करीने, काटे कलि-
मल फंद ॥ आ० ॥ ३ ॥ आतम निर्मल सब अघ
टारी, अरिहंत रूप असंद ॥ आ० ॥ ४ ॥

॥ दोहा. ॥

जलपूजा विधिसे करे, टरे करम मल चृंद ॥
हरे ताप सब जगतका, करे महोदय चंद ॥ १ ॥

॥ राग-जयजयवंती ॥

सुरगण इंद मधुर ध्वनि छंदा, पठन करी
करे न्हवण जिनदा ॥ मागध वरदाम ने परभासा,

अपर तरंगिनी उद्क अमंदा ॥ सुर० ॥ १ ॥
 क्षीरोदधि अड़ जाति कलश भर, न्हवण करे
 जिम् चौसठ इंदा ॥ तिम् श्रावक जिन् भक्ति
 रंगे, न्हवण करे जरे करमको कंदा ॥ सुर०
 ॥ २ ॥ विप्रवधू सोमेश्वरी नामे, जल पूजनसे
 लेहे महानंदा ॥ कारण कारज समज भलीपरे,
 आतम् अनुभव ज्ञान अमंदा ॥ सुर० ॥ ३ ॥

॥ अथ काव्यम् वसंततिलकावृत्तम् ॥

तीर्थोदकैर्धुतमलैरमलस्वभावं, शश्वन्नदी-
 हृदसरोवरसागरोत्थैः । दुर्वारमारमदमोहमहाहि-
 ताक्ष्यं, संसारतापशमनाय जिनं यजामि ॥ १ ॥
 ॥ मंत्रः ॥ ओँ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलं
 यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ अथ द्वितीया विलेपनपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

कुमलि कुवास निरासिनी, वासिनि चिदघनरूप ॥

श्रीमद् विजयानंदसूरिकृत अष्टप्रकारी पूजा.

१९

भासिनी अंमर अनघपद, नाशिनि भवजल कूप ।१।
सुरपति जिन अंगे करे, सरस विलेपन सार ॥
आवक तिम लेपन करे, चंदन घसि घनसार ॥२॥

॥ राग-जिंद काफी ॥

कररे कररे कररे कररे, श्रीजिनचंद विले-
पन कररे ॥ श्रीजि० ॥ चेतन जान कल्याण कर-
नको, आन मिल्यो अवसर रे ॥ शास्त्र प्रमान
जिनंदजी पूजी, मन चंचल स्थिर कररे ॥ ४ ॥
श्रीजि० ॥ १ ॥ सरस चंदन केसर हरिचंदन,
घसी घनसार सु धर रे ॥ कनक रतन जरी भरी
रे कचोरी, मन वच तनु शुचि कर रे ॥ ५ ॥ श्री
जि० ॥ २ ॥ चरण जानु कर अंश शिरोपर, भाल
कंठ प्रभु उर रे ॥ उदर तिलक नव कर जिन-
वरके, आतम आनंद भर रे ॥ ६ ॥ श्रीजि० ॥३॥

॥ दोहा ॥

॥ शीतल गुण जिनमें वसे, शीतल जिनवर अंग ॥
आतम शीतल कारणे, पूजो अरहिनं रंग ॥१॥

॥ राग-कस्तुरी जंगलो ॥

॥ सिञ्चि वधू लङ् रे, जिनरंग राची ॥
 ॥ जिन० ॥ हरिचंदन घनसार सुमन हर रे,
 द्रव्य तिलक नव दड ॥ जिन० ॥ १ ॥ अचल
 सुरंगी सुमन गुण भृंगी रे, भावतिलक शिर भइ
 ॥ जिन० ॥ २ ॥ पूजक चार तिलक करि अंगे
 रे, पूजे आति हरखड ॥ जिन० ॥ ३ ॥ जयसुर
 शुभमति जिनवर पूजी रे, दंपती शिवपद लङ्
 ॥ जि० ॥ ४ ॥ आतमानंदी करम निकंदी रे,
 आनंद रस रंग मड ॥ जि० ॥ ५ ॥

॥ काव्यम् ॥

सच्चन्दनेन घनसारवीमिश्रितेन, कस्तूरिका-
 द्रवयुतेन मनोहरेण । रागादिदोषरहितं महितं
 सुरेन्द्रैः, श्रीमज्जिनं त्रिजगतः पतिमर्चयामि ॥१॥
 ॥ मंत्रः ॥ अँ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अन्द-
 नं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

श्रीमद् विजयानंदसूरिकृत अष्टप्रकारी पूजा. २१

॥ अथ तृतीया कुसुमपूजा ॥

॥ दोहा ॥

त्रीजी पूजा सुमनकी, सुमन करे भवि रंग ॥
पंच बाण पीड़ा हरे, भाव सुगंधि अभंग ॥ १ ॥

॥ राग-धनाश्री ॥

(अब मावडी गिरि जानदे, मेरा नेमजीसे कामहै ॥

॥ अब भविक जन जिन पूजले, जिम सु-
धरे सगरे काम रे ॥ अब० ॥ अंचलि ॥ अतिही
सुगंधी कुसुम लीजें, खरचीने बहु दाम रे ॥
मोगरा चंपक मालती, केतकी पाटल आम रे ॥
अब० ॥ १ ॥ जासुल प्रियंगु पुन्नाग नागन, दा-
उदी वर नाम रे ॥ मचकुंद कुंद चंबोलि ले, जे
ऊगियां शुभ धाम रे ॥ अब० ॥ २ ॥ सदा सो-
हागन जाइ जूई, वोलसिरी शुभ ठाम रे ॥ लइ
कुसुम जिनवर देवने, पूजो जरे जिम काम रे ॥
अब० ॥ ३ ॥ शुभ सुमन केरी माल गूंथी, जिन
गले धरी जाम रे ॥ आतम आनंद सुहंकरु,
जिम मिले शिववधू धाम रे ॥ अब० ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

सुभग अखंड कुसुम लई, दूर करी सब पाप ॥
 त्रिभुवन नायक पूजिये, हरे मदन संताप ॥ १ ॥
 ॥ श्रीराग वा कालिंगडो ॥

॥ जिनवर पूजा शिवतरु कंद ॥ जिनवर० ॥
 दमनक मरुवो बकुल केवडो, सरस सुगंधित
 अति महकंद ॥ जि० ॥ १ ॥ कुसुमार्चन भवि
 करो मन रंगे, ताप हरे प्रभु जिनवर चंद ॥
 जि० ॥ २ ॥ विषयि देवको आक धतूरा, पूजे
 नर वायस मति मंद ॥ जि० ॥ ३ ॥ वणिक
 धूआ लीलावती पूजी, फूलें जिनवर हरे भव
 फंद ॥ जि० ॥ ४ ॥ आतम चिदघन सहज वि-
 लासी, पामी सत् चित् पद महानंद ॥ जि० ॥ ५ ॥
 ॥ काव्यम् ॥

जातीजपाबकुलचम्पकपाटलाद्यैर्मन्दारकुन्दश-
 तपत्रवरारविन्दः । संसारनाशकरणं करुणाप्रधानं,
 पुष्पैः परैरपि जिनेन्द्रमहं यजामि ॥ १ ॥
 ॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमे श्वराय

श्रीमद् विजयानंदसूरिकृत अष्टप्रकारी पूजा.

२३

जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय पु-
ष्पाणि यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थी धूपपूजा ॥

॥ दोहा ॥

कर्मधनके दृहनको, ध्यानानल करि चंड ॥

द्रव्य धूप करि आतमा, सहज सुगंधित मंड ॥१॥

॥ राग पीलू अथवा बरवा ॥

धूप पूजा अघ चूरे रे भविका, धूप पूजा
अघ चूरे रे ॥ एतो भव भय नासत दूरे रे, भ० ॥
कृष्णागर अंबर घनसारे, तगर कपूर सनूरे रे ॥
कुंदरु मृगमद तुरक सुगंधि, चंदन अगर सचूरे
रे ॥ भविका० ॥ १॥ ए सब चूरण करी मन रंगे,
भंगे करम अंकूरे रे ॥ नव नव रंगी शुद्ध द-
शांगी, जिनवर आगें अदूरे रे ॥ भविका० ॥ २॥
धूपदान कंचन माणि रखे, जडित घडित अति
पूरे रे ॥ निर्धूम पावक अति चमकंति, जिनप-
तिको कर तूं रे रे ॥ भविका० ॥ ३ ॥ जिनवर
मंदिरमें महमहती, दश दिग् सुगंध पूरे रे ॥

आतम धूप पूजन भविजनके, करम दुर्गधने
चूरे रे ॥ भवि० ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

धूपदान निज घट करी, जिनभगती वर धूप ॥
करम कुर्गंधी मिट गई, पूजे आतम भूप ॥ १ ॥

॥ राग-खमाचका तराना ॥

पूजत आनंद कंद री हेरी माइ ॥ पूजत० ॥

जिनप जिनंद चंद पूजे सुर नर वृंद ॥

सेवत अनूप धूप मिटे दुर्गंध रूप ॥

जिनवर अंग भ्रम तिमिर भानु तुं ॥

मरन हरन तुम चरनननन ॥ मा० ॥ १ ॥

दश अंग धूप खेवी दश ही निदान सेवी ॥

सुभग सुरंगी रंगी मुगति वधूटी लेवी ॥

जिनवर सेवी हम ऊर्ध्व अभंग गति ॥

तिम तुम गति जिन अरचनननन ॥ मा० ॥ २ ॥

सिद्ध बुद्ध अजर अमर अज निरमल ॥

कालवेदी भव छेदी दूर करी कलिमल ॥

ऐसा महानंद पद धूप पूजा फल वरे ॥

अखय भंडार भरे कौन करे वरनननन ॥ मा० ॥ ३ ॥

वाम अंगे धूप धरी पूजी मन शुद्ध करी ॥
 चार गति दुःख हरी आत्म आनंदे भरी ॥
 विनयंधर नृप सात भव सिद्धि वर ॥
 नहीं कोइ तुम विन सरनननन ॥ मा० ॥ ४ ॥
 ॥ काब्यम् ॥

कृष्णागस्प्रचुरितं सितया समेतं, कर्पूरपूर-
 महितं विहितं सुयत्तात् । धूपं जिनेन्द्रपुरतो गुरु-
 तोषपोषं, भक्तयोत्क्षिपामि निजदुष्कृतनाशनाय ॥
 ॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्यं ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय
 धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमी दीपकपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

पंचमि पूजा जिन तणी, पंचमि गति दातार ॥
 दीपकसे प्रभु पूजिएँ, पामें केवल सार ॥ १ ॥

॥ राग-सिंध काफी ॥

पूजो अरिहंत रंगरे, भवि भाव सुरंगे ॥ पू० ॥
 दीपक उयोति बनी नवरंगी, जिनजीके

दाहीने अंग ॥ रथण जडित चमकत शुभ रंगे,
 गोघृत भरी अति चंग रे ॥ भविं ॥ १ ॥ करुणा
 रससे धरी शुभ फानस, मरत न जेम पतंग ॥
 झगमग ज्योति सुंदर दीपे, अनुभव दीप अभंग
 रे ॥ भविं ॥ २ ॥ जिन मंदिरमें दीप प्रगट
 करी, भावना शुद्ध मन रंग ॥ ध्यान विमल
 करतां अघ नासे, मिथ्या मोह भुजंग रे ॥ भविं
 ॥ ३ ॥ दीप दरससे तस्कर नासे, आत्म तिमिर
 उतंग । तिम जिन पूजत मिले चित्त दीपक, ज-
 रत है समर पतंग रे ॥ भ० ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

॥ द्रव्य दीपक विभावरी, तिमिर करे सब दूर ॥
 भाव दीप जिन भक्तिसे, प्रगटे केवल सूर ॥ १ ॥

॥ राग भैरवी ॥

॥ दीप जयंकर चिदघन संगी, केवल जगत
 प्रकासे रे ॥ अंचलि ॥ द्रव्य दीपक अर्चन करि
 रंगे, मिथ्या तिमिर निरासे रे ॥ तस फल केवल
 दीप सुहंकर, लोकालोक विकासे रे ॥ दीप० ॥ १ ॥

पड़त पतंग न धूमकी रेखा, केवल दीप उजासे
रे । जनस्म मरण गति चार भयंकर, दुर्मति दुःख
सब नासे रे ॥ दीप० ॥२॥ घृत विन पूरे ज्योति
अखंडित, वर्तिक मल न चिकासे रे ॥ पाप
पतंग जरत सब छिनमें, ज्योतिमें ज्योति मि-
लासे रे ॥ दीप० ॥ ३ ॥ जिनमति धनसिरि
दीप पूजनसे, सिद्धि गति सुख रासे रे ॥ आ-
तम आनंद धन प्रभु मिलसे, पूजत भवि जो
उल्लासे रे ॥ दीप० ॥ ४ ॥

॥ काव्यम् ॥

विध्वस्तपापपटलस्य सदोदितस्य,
विश्वावलोकनकलोकलितस्य भक्त्या ।
उद्योतयामि पुरतो जिननायकस्य,
दीपं तमःप्रशमनाय शमाम्बुराशेः ॥ १ ॥
॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपं
यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ अथ पष्टी अक्षतपूजा ॥

॥ दोहा ॥

अक्षय शिवसुख कारणे, अक्षत पूजा सार ।
चउगति चूरण साथियो, करे कुमाति मत छार ॥१॥

॥ राग-बद्धस ॥

॥ तुमतो सुघर भये शिव साधो, अक्षत
पूजा करो मन मेरे ॥ तुम० ॥ अंचालि ॥ अक्षत
तंदुल मणि मुक्काफल, साथियो करो जिन बिंब
पुरो रे । माणक मरकत अंक आदिसे, जिन पूजी
मन आनंद लो रे ॥ तुम० ॥१ ॥ तंदुल गोधुम
अन्न अखंडित, आदि लेइ ढिग पुंज करो रे ॥
अक्षत पूजा करी मन रंगे, अक्षय सुख भंडार
भरो रे ॥ तुम० ॥ २ ॥ आतम अनुभव रत्न
सुरंगो, चिंतामणि सुरद्रम खरो रे, अक्षत पूजासे
भवि प्रगटे, जिनवर भक्ति हृदयमें धरो रे ॥
तुम० ॥ ३ ॥

॥ दोहा ॥

शुद्धाक्षत तंदुल ग्रहि, नंदावर्त विधान ॥
जिन सन्मुख हो पूजिएँ, जरे करम संतान ॥१॥

॥ लावणी मराठीमें ॥

अरिहंत पद अर्चन करी चेतन, जिन स्व-
रूपमें रम रहिये ॥ निजसत्ता प्रगटे, जारके
करम भरम निज सुख लहिये ॥ अ० ॥ १ ॥ तुं
निज अचल ईश विभु चिद्घन, रंग रूप विन
तुं कहिये ॥ अज अचल निराशी, शिव शंकर
अघहर जग महिये ॥ अरि० ॥ २ ॥ अव्यय विभु
निरंजन स्वामी, त्रिभुवन रामी तुं कहिये ॥ सब
तेरी विभूति, अक्षत अर्चनसे झट लहिये ॥
॥ अरि० ॥ ३ ॥ मरुदेवी नंदन चरण सुहंकर,
कीर जुगल अक्षत गहिये ॥ करि अर्चन सुरनर,
अंतमें परमात्म पद रस वहिये ॥ अरि० ॥ ४ ॥

॥ काव्यम् ॥

ज्ञानं च दर्शनमर्थो चरणं विचिन्त्य, पुञ्जत्रयं
च पुरतः प्रविधाय भक्त्या। चोक्षाक्षतैः कणगणै-
रपरैरपीह, श्रीमन्तमादिपुरुषं जिनमर्चयामि ॥ १ ॥
॥ मंत्रः ॥ अँ हँ श्री परमपुरुषाय परमे श्वराय

जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अ-
क्षतान् यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥



॥ अथ सप्तमी नैवेद्यपूजा ॥

॥ दोहा ॥

शुचि निवेद्य रस सरससुं, भरि अष्टापद थाल ।
विविध जाति पकवानसे, प्रौजँ त्रिभुवनपाल ॥ १ ॥

॥ राग-दुमरी ॥

जिन अर्चन सुखदाना रे ॥ भविका ॥
जिन० ॥ अमृति अमृत पाक पतासां, बरफी
कंद विदाना रे । फेणी घेबर मोदक पेठा, मगदल
पेडा सोहाना रे ॥ जि० ॥ १ ॥ लाखणसाई स-
झरपारा, मोतिचूर मन माना रे ॥ खाजां खुरमां
खीर खांड धृत, सेव कंसार विदाना रे ॥ जि०
॥ २ ॥ साटा दोठा मठडी सबुनी, कलाकंद क-
लिदाना रे ॥ सीरा लापसी पूरी कचोरी, साल
दाल धृत आना रे ॥ जि० ॥ २ ॥ इत्यादि नै-
वेद्य सुरंगा, पूजिये त्रिभुवन राना रे ॥ आतम

आनंद शिव पद रंगी, संगी सदा आधाना रे
जि० ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

अनाहार पद दीजिये, हे जिन दीनदयाल !
करुं अर्चन नैवेद्यसु, भर भर सुंदर थाल ॥१॥

॥ राग जंगले

(॥ महाबीर तोरे समवसरणकी रे ॥ महा० ए देशी)

जिनंदा तोरे चरण कमलकी रे ॥ जो करे
अर्चन नर नारी, नैवेद्य भरी शुभ थारी, तन
मन कर शुद्ध आगारी ॥ जिनंदा तोरे चरण
कमलकी रे ॥ जि० ॥ १ ॥ वीणा रंग राजे रे,
मृदंग ध्वनि गाजे रे। वाजे वाजिंतर भारी, मिल
अर्चन जन शृंगारी, आये जिन मंदिर शुभकारी
॥ जिनं० ॥ २ ॥ भविजन पूजो रे, जगमें देव
न दूजो रे। धूजे जिम करम कठारी, माँगुं पद
अनाहारी, ज्युं वेगे वरुं शिवनारी ॥ जिनं० ॥ ३ ॥
पूजा फल ताजा रे, हालीजन राजा रे। आत-
मको आनंदकारी, भव ऋांति मिट गइ सारी,
जिन अर्चनकी बलिहारी ॥ जिन० ॥ ४ ॥

॥ काव्यम् ॥

सन्मोदकैर्वटकमण्डकशालिदालि—मुख्यैरसं-
ख्यरसशालिभिरन्नभोज्यैः ॥ शुच्चृद्व्यथाविरहितं
स्वहिताय नित्यं, तीर्थाधिराजमहमादरतो यजामि१
॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमपुरुषाय परमे श्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवे-
द्यं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ अथ अष्टमी फलपूजा. ॥

॥ दोहा ॥

अष्ट करमके हरनको, आठमि पूजा सार ॥
अड़ गुण आत्म परगटे, फल पूजन फलकार ॥१॥
(दुमरी । महावीर चरणमे जाय, मेरो मन लाग रहो ॥ ए देशी ॥)

मेरो मन रंग रह्यो, फल अर्चनमें सुखदाय
॥ मेरो० ॥ अंचलि ॥ श्रीफल पूर्णी पिस्ता ब-
दामा, द्राक्ष अखोड़ मिलाय ॥ मेरो० ॥ १ ॥
खारक मीठे अंब नारंगी, कद्ली सीताफल लाय
॥ मेरो० ॥ आडु आलूचाँ फनस संतरा, अंगुर

जंवीर सुहाय ॥ मेरो० ॥ ३ ॥ तरबूजां खरबूजां
सिंघोडां, सेव अनार गिनाय ॥ मेरो० ॥ ४ ॥
इत्यादि शुभ फल रस चंगे, कंचन थाल भ-
राय ॥ मेरो० ॥ ५ ॥ फलसे पूजा अर्हन् केरी,
आत्म शिव फल थाय ॥ मेरो० ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रादिक जिम फल करी, पूजे श्री अरिहंत ॥
तिम श्रावक पूजन करे, फल वरे सादि अनंत ॥१॥
॥ रेखता ॥

जिनवर पूज सुखकंदा, नसे अड़ कर्मका
धंदा ॥ सुंदर भरि थाल रतनंदा, जिनालये पूज
जिनचंदा ॥ जिन० ॥ १ ॥ विविध फल सार
रस चंगा, अपुनरावृत्ति फल मंगा ॥ अड़ दि-
द्धि संपदा रंगा, बुद्धि सिद्धि शिव वधू संगा ॥
॥ जिन० ॥ २ ॥ पूजे भवि भावसुं रंगा, करी
अड़ कर्मसुं जंगा ॥ करी शुद्ध रूप अनंगा, उ-
तरी अनादिकी भंगा ॥ जिन० ॥३ ॥ कीर युग
दुर्गता तंगा, करी फल पूजना मंगा ॥ आत्म

शिवराज अभंगा, विमल अति नीर जिम गंगा
॥ जिन० ॥ ४ ॥

॥ काव्यम् ॥

सन्नालिकेरपनसामलवीजपूर—जंबरिपूरगसह-
कारमुखैः फलैस्तैः ॥ स्वर्गाद्यनल्पफलदं प्रमदा-
अमोदं, देवाधिदेवमशुभप्रशमं महामि ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्रीपरमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय फलानि यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥

॥ अथ कलश ॥

॥ राग-धनाश्री ॥

पूजन करो रे आनंदी, जिनंद पद पूजन
करो रे आनंदी ॥ अंचलि ॥ अष्टप्रकारी जन
हितकारी, पूजन सुरतरु कंदी ॥ जि० ॥ १ ॥
आवक द्रव्य भाव करे अर्चन, मुनिजन भाव
सुरंगी ॥ जि० ॥ २ ॥ गणधर सुरगुरु सुरपति
सगरे, जिन गुण को न कहंदी ॥ जि० ॥ ३ ॥
मैं मतिमंद ही बाल रमण ज्युं, जिनगुण कथन

करंदी ॥ जि० ॥ ४ ॥ तपगच्छ मुनिपति विजय
सिंहवर, सत्यविजय गणि नंदी ॥ जि० ॥ ५ ॥
कपूर क्षमा जिनोत्तम सद्गुरु, पद्मरूप सुखकंदी
॥ जि० ॥ ६ ॥ कीर्त्तिविजय कस्तूर सुहंकर, म-
णिविजय पद वंदी ॥ जि० ॥ ७ ॥ श्रीगुरु बुद्धि
विजय महाराजा, कुमति कुपथ निकंदी ॥ जि०
॥ ८ ॥ शिखि युग अंक इंदु (१९४३) शुभ वर्षे,
पालिताणा सुरंगी ॥ जि० ॥ ९ ॥ विमला चल
मंडन पद भेटी, तन मन अधिक उमंगी ॥ जि०
॥ १० ॥ आतमराम आनंद रस पीनो, जिन्ह
पूजत शिवसंगी ॥ जि० ॥ ११ ॥

॥ इति अष्टप्रकारी पूजा ॥

॥ अथ श्री नवपद पूजा ॥

॥ प्रथमश्रीअरिहंतपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री शंखेश्वर पासजी, पूरो वंछित आस ।

सिद्ध चक्र पूजा रचूं, जिम तूटे भव पास॥ १॥
 उपकारी जिन राजकी, पूजा प्रथम विधान ।
 जो भवि साधे रंगसूं, अजर अमरकी खान ॥ २॥
 उत्पन्न ज्ञान सत रूप है, प्रतिहारज सोहंत ।
 सिंहासन वैठे विभु, दे उपदेश महंत ॥ ३॥

(राग खमाच.)

जिन पूजन आनंद खानी ॥ जिन० अंचली॥
 संत अनंत प्रसोद अनंग, सत चित आनंद दानी
 ॥ जि० ॥ १ ॥ तीर्थकर शुभ नाम कर्मके, उदय
 कहे जिन वानी ॥ जि० ॥ २ ॥ घाति कर्मका
 नाश करीने, अष्टादश मल हानी ॥ जि० ॥ ३ ॥
 करे अघाति जीर्ण वसनसे, तीर्थेश्वर पद ठानी
 ॥ ४ ॥ जि० ॥ ऐसे अर्हन् देव सुहंकर, भयभंज-
 न निर्वानी ॥ जि० ॥ ५ ॥ आतम आनंद पूरण
 खामी, नमो देव मन मानी ॥ जि० ॥ ६ ॥
 ॥ दोहा ॥

शासनपति अरिहा नमो, धर्मधुरंधर धीर ।
 देशना अमृत वर्षणी, निज वीरज वडवीर ॥ १ ॥

निर्मल ज्ञान अखय निधि, शुद्ध रमण निजरूप।
 इथिरता चरण सुहंकरू, पूजो अर्हन् भूप ॥ २ ॥
 (त्रिताल-लावणी-पीलू जिल्ला । महवूवजानी मेरा यह चाल.)

श्री अर्हन् स्वामी मेरा, छिन नाहि भूला-
 नारे । तुम पूजो भवि मन रंगे, भव मय हि
 द्विमिटाना ॥ श्री० ॥ १ ॥ भव तीजे वर तप क-
 रके, सेवी निदानारे । जिन नाम कर्म शुभ बांधी,
 हुए त्रिभुवन राना ॥ श्री० ॥ २ ॥ जिनके कल्या-
 णक दिवसे, नरके सुहानारे । उद्योत हुए त्रिभु-
 वनमें, अतिशय गुण गाना ॥ श्री० ॥ ३ ॥ प्रभु
 तीन ज्ञान लेइ उपने, जगमें सुभानारे । लेइ
 दीक्षा भविजन तारे, हुए केवल ज्ञाना ॥ श्री०
 ॥ ४ ॥ महा गोप सत्थ निर्यासक, बलि महा
 महानारे । येह उपमा जिनको छाजे, ते त्रिभु-
 वन भाना ॥ श्री० ॥ ५ ॥ प्रतिहारज अड़ जस
 सोहे, गुण पैतीस बानारे । प्रभु चौतीस अति-
 शय धारी, महानंद भराना ॥ श्री० ॥ ६ ॥ भवि

अर्हन् पदको पूजो, निज रूप समानारे । जिन
आतम ध्याने ध्यावे, तद रूप मिलाना ॥ श्री० ॥
॥ काव्यम् । द्रुतविलंवितवृत्तम् ॥

अग्निलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहः-
तमस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥
॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतेऽर्हते जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ द्वितीयसिद्धपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

अलख निरंजन अचर विभु, अक्षय अमर अमार ।
सहानन्द पदवी वरी, अव्यय अजर उदार ॥ १ ॥
अनंत चतुष्पथ रूप ले, धारी अचल अनंग ।
चिदानन्द ईश्वर प्रभु, अटल महोदय चंग ॥ २ ॥
अष्टकर्मको क्षय करी, फिर नहि जग अवतार
सिद्धबुद्ध सतरूपही, शिवरमणी भरतार ॥ ३ ॥

॥ ल.वणी त्रिताल ॥ चाल-मराठी ॥

सिद्ध स्वरूप जाने विनु चेतन, मिटे नही

जगका फेरा । सहु कुमत विहंडी, छाँडदे ममता
रंडीका डेरा ॥ सिद्ध० ॥ १ ॥ त्रिभागोन ही च-
रम देहसे, ज्ञानमय आतम केरा । निरावरण ही
ज्योति, निरावाध वगाहन विभु तेरा ॥ सिद्ध०
॥ २ ॥ सकल कर्म मल दूर करीने, पूरण अड़-
गुण ले संगी । निज गुण पर्याये, बोलते जिन
मतमें ही सतभंगी ॥ सिद्ध० ॥ ३ ॥ स्व द्रव्य ही
खेतर काल स्वभावें, स्व पर सत्ता गिन ज्ञानी ।
निजगुण ही अनंते । शक्ति व्यक्ती कर मन
मानी ॥ सिद्ध० ॥ ४ ॥ एक अनेक स आदि-
अनादि, अंत रहित जिनवर वानी । निज आ-
तम रूपे, अज अमल अखंडित सुख खानी ॥ सिद्ध०

॥ दोहा ॥

प्रदेशांतर फरसे नहि, एक समय गति जास ।
सदानन्दमय आतमा, पावे शिवपुर वास ॥ १ ॥

॥ सिध भैरवी कहरवा-गजल ॥

दुक खोज जरा मन लाय खरा, सिद्ध और
नहीं तुं और नहीं । दुक० अंचली । अति पूज्ज

खरा सिद्ध चक्र धरा, निज कारण मान अभंग
वरा । जब पूजा करे सब पाप झरे ॥ सिद्ध० ॥ १ ॥
उपादान तुहीं सिद्ध रूप बुही, हैं निमित्त खरो
सिद्ध चक्र मुही । जब ध्याता ध्येय अरु ध्यान
मिले ॥ सि० ॥ २ ॥ बंधन छेद असंग लही,
गति कारण पूर्व पयोग कही । जब गति परि-
यामका राग गहे ॥ सि० ॥ ३ ॥ एक समय
गति उर्ध्व करी, थिर रूप भये सब विघ्न जरी ।
जब ज्योतिसे ज्योति मिले सुधरी ॥ सि० ॥ ४ ॥
निर्मल सिद्ध शिलाधी सही, एक जोयण लो-
कनो अंत कही । जब सादि अनंत स्वरूप गहे
॥ सि० ॥ ५ ॥ सुखकी उपमा जगमें नही, तिण
केवल ज्ञानी शके न कही । जब सहज समाधीके
रंग पगे ॥ सि० ॥ ६ ॥ रूपातीत स्वभाव धरे,
शुद्ध केवल ज्ञान ही दर्श वरे । जब आतमाराम
आनंद भरे ॥ सिद्ध० ॥ ७ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-

मस्तुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः,
शुचिमेनाः प्रथजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सिद्धाय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

॥ तृतीयश्रीसूरिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

तीजे पद सूरि नमो, रवि जिम तेज प्रकाश ।
कलह कदाग्रह छोरिके, करे कुमातिका नाश ॥ ३ ॥

॥ कलिंगडा-जिनवर वचनं श्रुति अमृतं ॥

सूरिजन अर्चन सुरतरुकंद । सूरिजन०॥
तत्वबोध जिन आगम धारी, सदा नि-
चारी भवभय फंद ॥ षट वर्गे वर्गित गुण शोभे,
पंचाचार धरे निरधंद ॥ सू० ॥ १ ॥ सूत्रानुसारी
दीए देशना, भवि चकोर शशि करत आनंद ॥
चिदानंद रस स्वाद मगनता, परभावे न खचे
मुनि चंद ॥ सू० ॥ २ ॥ निष्कामी निर्मल शुद्ध
चिदघन, दर्शन ज्ञान चरण शिवकंद ॥ साधे साध्य

खरा सिद्ध चक्र धरा, निज कारण मान अभंग
वरा । जब पूजा करे सब पाप झरे ॥ सिद्ध० ॥ १ ॥
उपादान तुहीं सिद्ध रूप बुही, है निमित्त खरो
सिद्ध चक्र मुहीं । जब ध्याता ध्येय अरु ध्यान
मिले ॥ सि० ॥ २ ॥ बंधन छेद असंग लही,
गति कारण पूर्व पयोग कही । जब गति परि-
ग्रामका राग गहे ॥ सि० ॥ ३ ॥ एक समय
गति उर्च्च करी, थिर रूप भये सब विघ्न जरी ।
जब ज्योतिसे ज्योति मिले सुधरी ॥ सि० ॥ ४ ॥
निर्मल सिद्ध शिलाथी सही, एक जोयण लो-
कनो अंत कही । जब सादि अनंत स्वरूप गहे
॥ सि० ॥ ५ ॥ सुखकी उपमा जगमें नहीं, तिण
केवल ज्ञानी शके न कही । जब सहज समाधीके
रंग पगे ॥ सि० ॥ ६ ॥ रूपातीत स्वभाव धरे,
शुद्ध केवल ज्ञान ही दर्श वरे । जब आतमाराम
आनंद भरे ॥ सिद्ध० ॥ ७ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-

अरिको हणें इक रनमें ॥ सू० ॥ २ ॥ सदा अ-
प्रमत्त धर्म उपदेशें, विकथा कषाय नहि निज
मनमें ॥ अमल अकलुष अमाय अद्वेषी, राग
रहित जिम वर्षत घनमें ॥ सू० ॥ ३ ॥ सारण
वारण नोदन करता, प्रतिनोदन देता मुनिजनमें
पटधारी गच्छ थंभ आचारज, जे मान्या सत
भविजन मनमें ॥ सू० ॥ ४ ॥ अत्थसिए जिन
सूरज केवल, चंद गण दीपक सम तममें ।
भुवन पदारथ प्रकटन पटु जे, आतमराम आ-
नंद भवनमें ॥ सू० ॥ ५ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सूरये
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ चतुर्थश्रीउपाध्यायपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

सूत्र अर्थ विस्तारणे, तत्पर श्री उवङ्गाय ।
नहीं सूरि पिण सूरिसम्, गणको अतिहि सहाय १
(राग खमाच.)

पाठकपद जिनवैन दैन मन समंरस भी-
नोरे, ॥ अं०॥ मोह ममता माया सब भंग, सूत्र
अर्थ दीए द्वादश अंग । मदन विहड़न धर्म रंग,
मद् सब तज दीनोरे ॥ पाठक ॥ १ ॥ पंच वर्ग
चर्गित गुण चंग, वादि द्विप छेदन बली सिंघ ।
गणि गच्छ धारण थंभ संग, सुर अंसुर पूजी-
नोरे ॥ पाठक ॥ २ ॥ दशविध जति धर्म धरी
अंग, चरण करण उपदेशक रंग । धरि ब्रह्म नव
गुति संग, जिन वच रस पीनोरे ॥ पा० ॥ ३ ॥
स्याद्वादसे तत्व तरंग, निजगुण ले परगुण सब
भंग । करे जिनंद शासन उतंग, नर भव फल
लीनोरे ॥ पा० ॥ ४ ॥ वाचन दान करण आति
रंग, षोडश उपमा योग अभंग ॥ दूर करे सब
कर्म संग, आतम पदलीनोरे ॥ पाठक ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

निकट हौड़ पढ़िये सदा, जिनवर वचन अभंग ।
सदानन्द पाठक पदे, लाग्यो आविहड़ रंग ॥ १ ॥
॥ राग विहाग ॥

जिननंद मत पाठक पूज सुज्ञानी ॥ अंच-
ली ॥ द्वादश अंग सिद्धाय करे जे, पारग धारक
धामी ॥ सूत्र अर्थ विस्तार रासिक ते, पाठक
नमुं सिर नामी ॥ जि० १ ॥ अर्थ सूत्रके दान
विभागे, आचार्य उवज्ञाय ॥ भव तीजे लहे
शिवपद संपत, नामिये ते हर्षाय ॥ जि० २ ॥
मूर्ख शिष्य करे शुद्ध ज्ञानी, ध्यानी चिदघन
संगी ॥ उपलको पल्लव सदगुनी करता, मोह
मिथ्यात्व विरंगी ॥ जि० ३ ॥ राज कुमर
सरिसा गण चिंतक, आचारज पद जोगी ॥ बा-
वना चंदन रस सम वचने, निज आतम सुख-
भोगी ॥ जि० ४ ॥ जिनशासनको प्रकट करे
जग, स्वाध्याय तप परवीना ॥ आतमाराम आ-
नन्दके ध्याता, कदेड़ नही मन दीना ॥ जि० ५ ॥

काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः,
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥मंत्रः॥ ॐ हैं श्री परमपुरुषाय परमेश्वरा-
य जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते पाठकाय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ पंचम श्रीसाधुपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

साधु संजम धारता, दयातणा भंडार ।

इंद्रिय दम युत संजमी, नमो नमो हितकार । १।

(राग-झिंद काफी । ताल दीर्घचंद्री)

मुनिजन अर्चन शुद्ध मन कर रे, कररे
कररे कररे कररे ॥ मुनि० ॥ अंचली ॥ सुरिजन
वाचक नित्य सेवा, समिति गुसि शुद्ध धर रे ॥
कामभोग जल दूर तजीने, ऊर्ध्व कमल जिम
तररे तररे तररे तररे ॥ मु० १॥ बाह्य अभ्यन्तर
अंथि निवारी, मुक्तिपंथ पग धर रे ॥ अंग अष्ट

चित जोग समाधि, पाप पंक सब झरे झरे
 झरे झरे ॥ मु० ॥ २ ॥ सकल विषय विषदूर
 निवारी, भव द्व ताप सु हरे ॥ शुद्ध स्वरूप
 रमणता रंगी, निर्मम निर्मद वररे वररे वररे
 वररे ॥ मु० ॥ ३ ॥ काउसग मुद्रा धीर ध्यानमें,
 आसन सहज सुथिरे ॥ तप तेजे दीपे दया
 दरियो, त्रिभुवन बंधु सुगिररे गिररे गिररे
 ॥ मु० ॥ ४ ॥ ऐसो मुनिपद पूज सुहंकर, आ-
 तम आनंद भरे ॥ शत्रु मित्र सम जन्म मर-
 णको, जगत मोक्ष इक कररे कररे कररे । मु० ५।

॥ दोहा ॥

क्षमा मुक्ति ऋजु नम्रता, सत्य अकिञ्चन शर्म ।
 तप संजम लघु रमणता, ब्रह्मचर्य मुनि धर्म ॥ १ ॥

(देश-दुमरी आइ इंद्र नार कर कर थृंगार.)

चिदघन आनंद मुनिराज वंद, सब कटत
 फंद भवि पूज रंग ॥ मनमें उमंग समता रस
 भीना ॥ चिद० ॥ अंचली ॥ जिम तरु फूले चैत
 भूंग, आतम संतोषे अधिक रंग । विन पीडे ले

मकरंद चंग, होके आनंद गोचर कर लीना ॥
 चिद० ॥ १ ॥ कषाय टार पण इंद्री रोध, षट
 काय पार मुनि शुद्ध बोध ॥ संजम सतरे मन
 शुद्ध सोध, मचे रणमें जोध मनमें नहीं दीना
 ॥ चि० ॥ २ ॥ अठारे सहस्र शिलांग धार, ज-
 यणा युत अचल आचार पार । नव विध गुस्तिसे
 ब्रह्म कार, आतम उजार भववन दव दीना
 ॥ चि० ॥ ३ ॥ जे द्वादश विध तप करत चंग,
 दिन दिन शुद्ध संयम चढत रंग । सोनाकी परे
 धरे परिख चंग, चितमें अभंग संजम रस लीना
 ॥ चि० ॥ देश काल अनुमान नंद, संयम पाले
 मुनिराज चंद ॥ मिटे हर्ष शोक परमाद धंद,
 आतम आनंद अनुभव रस पीना ॥ चि० ॥ ५ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
 मस्सुविनाशकम् । नवपदावालीनाम् सुभक्तिः,
 शुचिमनाः प्रयज्ञामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते साधवे
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ पष्टश्रीसम्यग्दशेनपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

जिनवर भाषित तत्त्वमें, सचि लक्षण चित धार ।
सम्यग् दर्शन प्रणमिए, भवदुःख भंजन हारा ॥ १ ॥
(माढ़ । थारी गडेरे अनादि निंद । यह चाल)

मिटगईरे अनादि परि, चिदानंद जागो
तो सही ॥ अंचली ॥ विपरीत कदाग्रह मिथ्या-
रूप जे, त्यागो तो सही । जिनवर भाषित तत्त्व-
रूचि, ढिग लागो तो सही ॥ मि० ॥ १ ॥ दर्शन
विना ज्ञान नही भविने, मानो तो सही । विना
ज्ञानके चरण न होवे, जानो तो सही । मि०
॥ २ ॥ निश्चय करण रूप जस निर्मल, शक्ति
तो सही । अनुभव करत रूप सब छंडी, व्यक्ति
तो सही ॥ मि० ॥ ३ ॥ सत्ता शुद्ध निज धर्म
प्रगट कर, छानो तो सही । करणसचि उछले

बहु माने, ठानो तो सही ॥ मि० ॥ ४ ॥ साध्य
दृष्टु सर्व करणी कारण, धारो तो सही । तत्त्व
ज्ञान निज संपत मानी, कारो तो सही ॥ मि०
५ ॥ आत्माराम आनन्दरस लीनो, प्यारो तो
सही । जिनवर भाषित सत्य मानकर सारो तो
सही ॥ मि० ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

देव धर्म गुरु तत्त्वकी, सद्हणा परिणाम ।
सातों मलके मिट गये, सम्यग् दर्शन नाम ॥१॥

(परज । निश दिन जोऊं बाटडी यह चाल.)

सम्यग् दर्शन पूज ले जिम मिटे मन
झोला ॥ अं० । मल उपशम खय उपशमे, ख-
यसे हग खोला । त्रि विध भंग सम दर्शने, जि-
न्नवर इम बोला । स० ॥ १ ॥ जिनधर्मे हठ सं-
गसे, अनुभव रस घोला । निज पर सत्ता ज्ञानसे,
जिम कृमिरंग चोला । स० ॥ २ ॥ पांच वार उ-
पशम लहे, क्षय उपशम डोला । संख्यातीत सो
ज्ञानीए, क्षय इंदु अमोला । स० ॥ ३ ॥ जिस

विन ज्ञान अज्ञान है, वृत्ति तरु नवि मोला ।
सुख निर्वाण न भवी लहे, समक्षित विन भोला ।
स० ॥ ४ ॥ सड़सठ बोले अलंकर्यो, ज्ञान चरण
अंदोला । भववन मिथ्या दहनको, दावानल
तोला । स० ॥ ५ ॥ सब करणीका मूल है, शिव
पंथ अमोला । दर्शन तेही ज आतमा, आतम
रंग रोला । स० ॥ ६ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्षितः,
शुचिमनाः प्रयजामि विशुच्ये ॥ १ ॥

। मंत्रः—ॐ हौं ह्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते
सम्यग्दर्शनाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥६॥

॥ सप्तमश्रीसम्यग्ज्ञानपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

मिथ्या मोह कुपंथ ही, अज्ञ तिमिर करे दूर ।
निज पर सत्ता सहु लहे, ज्ञान हि निर्मल सूर । १ ।

(भरवी । लागी लगन कहो यह चाल ।)

ज्ञान सुहंकर चिदघन संगी, सप्तभंगी मत
सारेरे ॥ अंचली० ॥ शुद्ध ज्ञान मिथ्यात्व मिटेसे,
ज्ञानावरण विडारेरे ॥ षट् द्रव्य नाना बोध
स्वरूपे, निज इच्छा सब वारे रे ॥ ज्ञा० ॥ १ ॥
गुरु सेवासे योग्यता प्रगटे, हेय उपादेय कारेरे ॥
ज्ञेय अनंत स्वरूपे भासें, दीप तिमिर जिम
टारे रे ॥ ज्ञा० ॥ २ ॥ नित्यानित्य नाश अवि-
नाशी, भेदाभेद अभंगी रे ॥ एक अनेकही रूपी
अरूपी, स्यादवाद नय संगीरे ॥ ज्ञा० ॥ ३ ॥
अर्पितानर्पित मुख्य गौणता, साधन सिद्ध वि-
रंगी रे ॥ वाच्यावाच्य सञ्चाश निरंशी, आनन्द-
धन दुःख रंगी रे ॥ ज्ञा० ॥ ४ ॥ विभाव स्वभावी
शुद्ध स्वभावी, वीतराग जड़ संगी रे ॥ संशय
सर्व ही दूर निवारे, आत्म समरस चंगी रे
॥ ज्ञा० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

सूत्र संयुत सूची वत्, कच्चवर पिंड मङ्गार ।
विनसे नहीं तिम श्रुतयुत, पामे भवको पार । ६ ॥

(कंकण खोल देओ महाराज यह चाल.).

सबमें शानवंत बड़ वीर, काटे सकल कर्म
जंजीर ॥ अंचली० ॥ भक्षाभक्ष न जे विन जाने
गस्यागस्य नहीं पीछाने, कार्यकार्य न जाने
कीर ॥ स० ॥ १॥ प्रथमे ज्ञान ही दया पिछाने,
अज्ञानी नर सो नहीं जाने, ऐसे कहे सिद्धांते
वीर ॥ स० ॥ २॥ श्रद्धा सकल क्रियाका मूल,
तिसका मूल ही ज्ञान अमूल, सच्चा ज्ञान धरो
मन धीर ॥ स० ॥ ३॥ पांचों ज्ञानमें श्रुत प्र-
धान, स्व पर प्रकाशे तिमिर मिटान, जगमें
आति उपगारी हीर ॥ स० ॥ ४॥ लोकालोक
प्रकाशन हारा, त्रिमुवन सिद्धिराज सुख भारा,
सत् चिद आत्मराम गंभीर ॥ स० ॥ ५॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः,
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ऊँ ही श्री परमपुरुषाय परमे श्र-

राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यग्
ज्ञानाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ अष्टमश्रीसम्यक्चारित्रपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

सकल जन्म पूरण करे, नहीं विराधे लेश ।
आराधक चारित्रिको, ए जिनवर उपदेश ॥१॥

(वसंत-होरी)

बंदे कछु करले कमाई रे, जाते नर भव
सफल कराई, बंदे कछु करले कमाई रे ॥ अं-
चली० ॥ ज्ञान तना फल चरण मुरंगा, निरा-
शंसता थाई ॥ आश्रव रोध भवांबुधि तरिये,
यानपात्र सुख दाई ॥ बंदे० ॥ १ ॥ धारो चरण
नहीं मिले मोले, रंक राज्य पद दाई ॥ बारह
अंग पढ़े जस महिमा, क्योंकर वरनी जाई ॥
बंदे० ॥ २ ॥ तत्त्व रमण जस मूल सुहंकर, पर
रमणा मिट जाई ॥ सकल सिँचि अनुकूल हुए
जब, सम दम संयम पाई ॥ बंदे० ॥ ३ ॥ सा-
मायिक आदि पंच भेद हैं, दश विध धर्म सुहाई

संवर समिति गुस्ति आदि ले, ए जस नाम पर-
जाई ॥ बंदे० ॥ ४ ॥ अकषाय अति उज्ज्वल
निर्मल, मदन कदन चित्त लाई ॥ आतमाराम
आनंदके दाता, चारित्र पद मन भाई ॥ बंदे० ॥ ५ ॥
॥ दोहा ॥

देश सर्व विराति भली, यही यति अभिराम ॥
ते चारित्र सदा जयो, कीजे तास प्रणाम ॥ १ ॥
(राग-खमाच-ठुमरी त्रिताल-ब्रह्मान नही जानारे यह चाल.)

चारित्र मुज मन मानारे भविका ॥ चा०
॥ अं० ॥ तृण परे जे सब सुख छंडी, षट खंड
केरा रानारे । चक्रवर्ति संयमसिरी वरिया, चा-
रित्र अखय सुख दानारे ॥ चा० ॥ १ ॥ रंक हुआ
चारित्र आदरे, इंद नरिंद पूजानारे । असरण
संरण चारित्र ही बंदु, सतचिद आनंद भरानारे
॥ २ ॥ बारा मास संयम पर्याये, अनुक्तर सुख
ही क्रमानारे । शुक्ल शुक्ल अभिजात्य ते ऊपर,
क्षो चारित्र महानारे ॥ चा० ॥ ३ ॥ चय ते अष्ट
कर्मका संचय, रिक्त करे सब थानारे । चारित्र

नाम निर्युक्तिए भाष्यो, ते वंदु युण ठानारे ॥
चा० ॥ ४ ॥ चारित्र सोइ आतमा मानो, निज
स्वभाव रमानारे । मोह वने नहीं भ्रमण करत
है, तब तुं आतम रानारे ॥ चा० ॥ ५ ॥
॥ काव्यन् ॥

अखिलवस्तुविकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः,
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । ॐ ह्वी श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक्
चारित्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥



॥ नवमश्रीसम्यक्तपदपूजा. ॥

॥ दोहा ॥

कर्म इम उन्मूलने, वर कुंजर अति रंग ।
तप समूह जयवंत ही, नमो नमो मन चंग ॥ १ ॥
(रामकली. तेरो दरस भले पायो यह चाल.)

श्री तप मुज मन भायो आनंदकर ॥ श्री०
॥ अं० ॥ इच्छा रहित कषाय निवारी, दुर्धर्यन

सब ही मिटायो । बाह्य अभ्यंतर भेद सुहंकर,
 निर्हेतुक चित्त ठायो ॥ आ० ॥ १ ॥ सर्व कर्मका
 मूल उखारी, शिव रमणी चित्त लायो । अनादि
 संतति कर्म उछेदी, महानंद पद पायो ॥ आ०
 ॥ २ ॥ योग संयोग आहार निवारी, अक्रियता
 पद आयो । अंतर महूरत सर्व संवरी, निज
 सत्ता प्रकटायो ॥ आ० ॥ ३ ॥ कर्म निकाचित
 छिनकमें जारे, क्षमा सहित सुख दायो । तिस
 भव मुक्ति जाने जिनंदजी, आदरथो तप निर-
 मायो ॥ आ० ॥ ४ ॥ आमोसही आदि सब
 लब्धि, होवे जास पसार्यो । अष्ट महासिद्धि नव
 निधि प्रगटे, सो तप जिनमत गायो ॥ आ० ॥
 ॥ ५ ॥ शिवसुख फल सुर नरवर संपद, पुष्प
 समान सुभायो । सो तप सुरतरु सम नित्य बंदु,
 मन बंछित फल दायो ॥ आ० ॥ ६ ॥ सर्व मंग-
 लमें पहलो मंगल, जिनवर तंत्र सु गायो । सो
 तप पद त्रिहूँ कालमें नामिये, आत्माराम स-
 हायो ॥ आ० ॥ ७ ॥

॥ दोहा ॥

इच्छा रोधन संवरी, परणति समता जोग ।
तप है सोइ ज आतमा, वरते निजगुण भोग ॥१॥

(राग सोरठ.)

जिनजीने दीनी माने एक जरी, एक भु-
जंग पंच विष नागन, सुंघत तुरत मरी । जि०
॥ अं० ॥ समता संवर परगुण छारी, समरस रंग
भरी । अचल समाधि तपपद रमतां, ममता
मूर जरी । जि० ॥ १ ॥ योग असंख ही जिन-
वर भाषित, नवपद मूर्ख्य करी । कर अवलंबन
भवि मन शुद्धे, कर्म जंजीर जरी ॥ जि० ॥ २ ॥
आगम नोआगम करी भेदे, आतम रमण करी ।
सप्तनय सतभंगी अनघ वर, घटमें ही ऋद्धि
धरी ॥ जि० ॥ ३ ॥ ए नव पद शुद्ध अर्चन क-
रके, निज घटमें हि धरी । चिदानंद घन सहज
विलासी, भववन दाह करी ॥ जि० ॥ ४ ॥ सिरीपाल
सिद्धचक्र आराधी, तनमन रोग हरी । नव भवां-
तर शिव कमला ले, आतमानंद भरी ॥ ५ ॥

॥ काव्यम् ॥

अखिलवस्तुं विकासनभास्करं, मदनमोहत-
मस्सुविनाशकम् । नवपदावलिनाम सुभक्तिः,
शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक्
तपसे जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ कलश ॥

(जंगला—ताल कहरवा)

(भविनंदो जिनंद जस वरणीने यह चाल ।)

भवि वंदो जिनंदमत करणीने ॥ भ० ॥ अ०
॥ इम नवपद मंडल गुण वरणी, चार न्यास
दुःख हरणीने ॥ भ० ॥ १ ॥ सम्यक् सात नये-
सब जाणी, आदरी कुमति विहरणीने ॥ भ० ॥
२ ॥ श्री तपगच्छ नभोमणि वर मुनिपति, विज-
यसिंह सूरि चरणीने ॥ भ० ॥ ३ ॥ सत्य कपूर
क्षमा जिन उत्तम, पञ्चरूप अघ टरणीने ॥ भ०

॥ ४ ॥ कीर्त्तिविजय कस्तूर सुगंधी, मणि तिमिर जग हरणीने ॥ भ० ॥ ५ ॥ श्री गुरु बुद्धि विजय महाराजा, विजयानंद जिन सरणीने ॥ भ० ॥ ६ ॥ जीरा गाम तिहाँ संघ जयंकर, सुख संपत उदय करणीने ॥ भ० ॥ ७ ॥ तिनके कथनसे रचना कीनी, सुगम रीत अघ हरणीने ॥ ॥ भ० ॥ ८ ॥ वंसु युग अंक इँदु शुभवर्षे, पट्टी नगर सुख धरणीने ॥ भ० ॥ ९ ॥ रही चौमासा यह गुण गाया, आतम शिववधू परणीने ॥ भ० ॥ १० ॥

॥ इति नवपद पूजा ॥

॥ सत्तरभेदी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सकल जिनंद मुनींदकी, पूजा सत्तर प्रकार ।
आवक शुद्ध भावें करे, पामे भवको पार ॥ १ ॥
ज्ञाता अंगे द्रौपदी, पूजे श्री जिनराज ।

रायपसेणी उपांगमें, हित सुख शिवफल ताज ॥२॥
 न्हवणं विलेपन वस्त्रयुग, वास फूल वर माल ।
 वर्ण चुन्न ध्वज शोभती, रत्नाभरण रसाल ॥३॥
 सुमनगृह अति शोभतुं, पुष्पपगर मंगलीक ।
 धूप गीत नृत नादसुं, करत मिटे सब भीक ॥४॥

॥ प्रथमा स्त्रपत्नपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

शुचितनु वदन वसन धरी, भरे सुगंध विशाला
 कनक कलश गंधोदकें, आनी भाव विशाला ॥१॥
 नमत प्रथम जिनराजको, मुख बाँधी मुखकोष ।
 भक्ति युक्तिसे पूजतां, रहे न रंचक दोष ॥२॥

(खमाच ॥ ताल पंजाबी ठेको)

मान मद मनसे परिहरता, करी न्हवण
 जगदीश ॥ मा० अं० ॥ समकितकी करनी दुःख
 हरनी, जिन पखाल मनमें धरता । अंग उपांग
 जिनेश्वर भाखी, पाप पडल जरता ॥ मा० ॥६॥
 कंचन कलश भरी अति सुंदर, प्रभु स्नान भे-

विजन करता ॥ नरक वैतरणी कुमति नासे,
 महानंद वरता ॥ मा० ॥ २ ॥ काम क्रोधकी
 तपत मिटावे, मुक्तिपंथ सुख पग धरता ॥ धर्म
 कल्पतरु कंद सीचतां, अमृत घन झरता ॥ मा०
 ॥ ३ ॥ जन्म मरणका पंक पखारी, पुण्य दशा
 उदये करता ॥ मंजरी संपद तरु वर्ष्णनकी, अ-
 क्षय निधि भरता ॥ मा० ॥ ४ ॥ मनकी तस
 मिटि सब मेरी, पदकज ध्यान हिये धरता ॥
 आतम अनुभव रसमें भीनो, भव समुद्र तरता
 ॥ मा० ॥ ५ ॥

॥ द्वितीया विलेपनपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

गात्र छुही मन रंगसुं, महके अतिहि सुवास ॥
 गंधकषायी वसनसुं, सकल फले मन आस ॥१॥
 चंदन मृगमद कुंकुमे, भेली मांहि ब्रास ॥
 रतन जड़ित कचोलीयें, करी कुमतिको नास ॥२॥
 १ २ ३ ४ ५
 थग जानु कर खंधमें, मस्तक जिनवर अंग ॥

६ ७ ८ ९

भाल कंठ उर उदरमें, करे तिलक आति चंग ॥३॥
पूजक जन निज अंगमें, रचे तिलक शुभ चार ॥
१ २ ३ ४

भाल कंठ उर उदरमें, तस मिटावनहार ॥४॥

(दुमरी-पंजाबी ठेको-माधुबनमें मेरे सावरीया-देशी)

करी विलेपन जिनवर अंगे, जन्म सफल
भविजन माने ॥ क० ॥ १ ॥ सूगमद् चंदन कुं-
कुम घोली, नव अंग तिलक करी थाने ॥ क०
॥ २ ॥ चक्री नव निधि संपद प्रगटे, करम भ-
रम सब क्षय जाने ॥ क० ॥ ३ ॥ मन तनु शीतल
सब अघ टारी, जिनभक्ति मन तनु ठाने ॥ क०
॥ ४ ॥ चौसठ सुरपति सुरंगिरि रंगे, करी विले-
पन धन माने ॥ क० ॥ ५ ॥ जागी भाग्य दशा
अब मेरी, जिनवर वचन हिये ठाने ॥ क० ॥ ६ ॥
परम शिशिरता प्रभु तन करतां, चित् सुखअ-
धिके प्रगटाने ॥ क० ॥ ७ ॥ आतमानंदी जिन-
वर पूजी, शुद्ध स्वरूप निज घट आने ॥ क० ॥ ८ ॥

॥ तृतीया वस्त्रयुगलपूजा ॥
॥ दोहा ॥

वसनयुगल अति उद्ज्ज्वलें, निर्मल अतिही अभंग ।
नेत्रयुगल सूरि कहे, यही मतांतर संग ॥ १ ॥
कोमल चंदन चरचिये, कनक खचित वर चंग ॥
सह पल्लव शुचि प्रभु शिरें, पहिरावे मन रंग ॥ २ ॥
द्रौपदी शक सुरियाभने, पूजे जिम जिनचंद ॥
श्रावक तिम पूजन करे, प्रगटे परमानंद ॥ ३ ॥
पाप लूहण अंग लूहणां, दीजें पूजन काज ॥
सकल करम मल क्षय करी, पामे अविचल राज ॥ ४ ॥
सोरठ पजावी ठेको-कुवजाने जादुडारा-देशी.

जिनदर्शन मोहनगारा, जिन पाप कलंक
पखारा ॥ जि० ॥ अ० ॥ पूजा वस्त्र युगल शुचि
संगें, भावना मनमें विचारा । निश्चय व्यवहारी
तुम धर्में, वरनुं आनंदकारा ॥ जि० ॥ १ ॥
ज्ञान क्रिया शुद्ध अनुभव रंगे, करुं विवेचन
सारा । स्व पर सत्ता धरुं हरुं सब, कर्म कलंक
पहारा ॥ जि० ॥ २ ॥ केवल युगल वसन अर्चितसे,

मांगत हुं निरधारा । कल्पतरु तुं वंछित पूरे, चूरे
करम कठारा ॥ जि० ॥ ३ ॥ भवोदधि तारण पोत
मिला तुं, चिदघन मंगल कारा । श्री जिनचंद
जिनेश्वर मेरे, चंरण शरण तुम धारा ॥ जि ॥ ४॥
अजर अमर अज अलख निरंजन, भंजन करम
पहारा । आत्मानंदी पाप निकंदी, जीवन प्राण
आधारा ॥ जि० ॥ ५ ॥

॥ चतुर्थी गंवपूजा ॥
॥ दोहा ॥

चौथी पूजा वासकी, वासित चेतन रूप ॥
कुमति कुगंधी मिटी गङ्ग, प्रगटे आत्मरूप ॥ १ ॥
सुमति अति हर्षित भङ्ग, लागी अनुभव वास ।
वास सुगंधे पूजतां, मोह सुभटको नास ॥ २ ॥
कुंकुम चंदन सूगमदा, कुसुम चूर्ण घनसार ॥
जिनवर अंगे धूजतां, लहियें लाभ अपार ॥ ३ ॥

(राग जंगलो-अब मोहे डागरीया देशी.)

अब मोहे पार उतार जिनंदजी अब मोहे
पार उतार । चिदानंद घन अंतरजामी, अब मोहे

पार उतार ॥ अंचलि ॥ वासखेपसे पूजन करतां,
जनम मरण दुःख टार ॥ जि० ॥ निजयुण गंध
सुगंधी महके, दहे कुमति मद् मार ॥ जि० ॥ १ ॥
जिन पूजत ही आति मन रंगे, भंगे भरम अ-
पार ॥ जि० ॥ पुंदगल संगी दुर्गंध नाठो, वरते
जय जयकार ॥ जि० ॥ २ ॥ कुंकुम चंदन मृग-
मद मेली, कुसुम गंध घनसार ॥ जि० ॥ जिन-
वर पूजन रंगे राचें, कुमति संग सब छार ॥
जि० ॥ ३ ॥ विजय देवता, जिनवर पूजे, जीवा-
भिगम मझार ॥ जि० ॥ श्रावक तिम जिन वासे
पूजे, यहस्थ धर्मको सार ॥ जि० ॥ ४ ॥ सम-
कितकी करणी शुभ वरणी, जिन गणधर हित-
कार ॥ जि० ॥ आतम अनुभव रंग रंगीला, वास
यजनका सार ॥ जि० ॥ ५ ॥



॥ पंचमी पुष्पारोहणपूजा. ॥

॥ दोहा ॥

मन विकसे जिन देखतां, विकसित फूल अपार ।

जिन पूजा ए पंचमी, पंचमी गति दातार ॥१॥
 पंच वरणके फूलसे, पूजे त्रिभुवन नाथ ।
 पंच विघ्न भवि क्षय करी, साधे शिवपुर साथ ॥२॥
 (कहेरवा-दुमरी-पास जिनदा प्रभु मेरे मन वसीया-देशी.)

अर्हन् जिनदा प्रभु मेरे मन वसीया ॥ अ० ॥
 मोगर लाल गुलाब मालती, चंपक केतकी नि-
 रख हरसीया ॥ अ० ॥ १ ॥ कुंद प्रियंगु वेलि
 मचकुंदा, बोलसिरी जाइ अधिक दरसीया ॥
 अ० ॥ २ ॥ जल थल कुसुम सुगंधी महके, जिन-
 वर पूजन जिम हरि रसीया ॥ अ० ॥ ३ ॥ पंच
 बाण पीड़े नहीं मुझको, जब प्रभु चरणे फूल
 फरसीया ॥ अ० ॥ ४ ॥ जड़ता दूर गई सब मेरी,
 पांच आवरण उखार धरसीया ॥ अ० ॥ ५ ॥
 अवर देवको आक धतूरा, तुमरे पंच रंग फूल
 वरसीया ॥ अ० ॥ ६ ॥ जिन चरणे सहु तपत
 मिटत है, आतम अनुभव मेघ वरसीया ॥ अ० ॥ ७ ॥



॥ पृष्ठा पुष्पमालापूजा ॥

॥ दोहा ॥

छट्ठी पूजा जिन तणी, गूँथी कुसुमकी माल ॥

जिन कंठे थापी करी, टालियें दुःख जंजाल ॥ १ ॥

पंच वरण कुसुमे करी, गुंथी जिन गुण माल ॥

वरमाला ए मुक्तिकी, वरे भक्त सुविशाल ॥ २ ॥

(राग जंगलो ॥ ताल दीपचंदी ॥)

कुसुममालसे जो जिन पूजे, कर्म कलंक
नसे भवि तेरे ॥ कु० अ० ॥ नाग पुन्नाग प्रियंगु
केतकी, चंपक दमनक कुसुम घनेरे ॥ मल्लिका नवम-
ल्लिका शुद्ध जाति, तिलक वसंतिक सब रंग है रे ॥
॥ कु० ॥ १ ॥ कल्प अशोक बकुल मगदंती, पा-
डल मरुक मालती लेरे ॥ गुंथी पंच वरणकी
माला, पाप पंक सब दूर टरे रे ॥ कु० ॥ २ ॥
भाव विचारी निजगुण माला, प्रभुसे मांगे अरज
करे रे ॥ सर्व मंगलकी माला रोपे, विघ्न स-
कल सब साथ जरे रे ॥ कु० ॥ ३ ॥ आतमानंदी
जगगुरु पूजी, कुमति फंद सब दूर भगे रे ॥ पू-

रण पुण्ये जिन वर पूजे, आनंदरूप अनूप जगे
रे ॥ कु० ॥ ४ ॥

॥ सप्तमी अंगरचनापूजा ॥
॥ दोहा ॥

पांच वरणके फूलकी, पूजा सातमी मान ॥
प्रभु अंगे अंगी रची, लहिये केवलज्ञान ॥ १ ॥
मुक्तिवधूकी पत्रिका, वरणी श्री जिनदेव ॥
सुधी तत्व समजे सही, मूढ न जाणे भेव ॥ २ ॥

(तुम दीनके नाथ दयाल लाल ॥ ए देशी)

तुम चिदघन चंद आनंद लाल, तोरे द-
र्शन की बलिहारी ॥ तु० ॥ ३ ॥ पंचवरण फूलोंसे
अंगीयाँ, विकसे ज्यूं केसर व्यारी ॥ तु० ॥ २ ॥
कुंद गुलाब मरुक अरविंदो, चंपक जाति मंदारी
॥ तु० ॥ ३ ॥ सोवन जाती दमनके सोहे, मन
तनु तजित विकारी ॥ तु० ॥ ४ ॥ अलख नि-
रंजन ज्योति प्रकासे, पुदगल संग निवारी ॥
तु० ॥ ५ ॥ सम्यग् दर्शन ज्ञानस्वरूपी, पूर्ण-

नंद विहारी ॥ तु० ॥ ६ ॥ आत्म सत्ता जबही
प्रगटे, तब ही लहे भव पारी ॥ तु० ॥ ७ ॥

॥ अष्टमी चूर्णपूजा ॥
॥ दोहा ॥

जिनपाति पूजा आठमी, अगर भला घन सारा॥
सेलारस मृगमद करी, चूरण करी अपार ॥ १ ॥
चुन्नारोहण पूजना, सुमति मन आनंद ॥
कुमति जन खीजे आति, भाग्यहीन मति मंद ॥ २ ॥

(जोगीयो-नाथ मैनु छडके गढ़ गिरनार गयो री देशी)

करम कलंक दह्यो री, नाथ जिन जजके
॥ करम० ॥ अं० ॥ अगर सेलारस मृगमद चूरी,
अति घनसार मह्यो री ॥ ना० ॥ १ ॥ तीर्थ कर
पद शांति जिनेश्वर, जिन पूजनि ग्रह्यो री ॥
॥ ना० ॥ २ ॥ अष्ट करम दल उदभट चूरी,
तत्वरमणको लह्यो री ॥ ना० ॥ ३ ॥ आठो ही
प्रवचन पालन शूरा, दृष्टि आठ लह्यो री ॥ ना०
॥ ४ ॥ श्रद्धा भासन रमणता प्रगटे, श्री जिन-

राज कह्यो री ॥ ना० ॥ ५ ॥ आत्म सहजानंद
हमारा, आठमी पूजा चह्यो री ॥ ना० ॥ ६ ॥

॥ नवमी ध्वजपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पंचवरण ध्वज शोभती, धूंधरिको घमकार ॥
हेम दंड मन मोहनी, लघू पताका सार ॥ १ ॥
रणझण करती नाचती, शोभित जिनघर शृंग ॥
लहके पवन झकोरसे, बाजत नाद अभंग ॥ २ ॥
इंद्राणी मस्तक लई, करे प्रदक्षिणा सार ॥
सधवा तिम विधि साचवे, पाप निवारणहार ॥ ३ ॥

(हुमरी पंजाबी ठेको आई इद्र नार देशी)

आइ सुंदर नार, कर कर सिंगार, ठाड़ी
चैत्य छार, मन मोदधार, प्रभु गुण विथार, अघ
सब क्षय कीनो ॥ आ० ॥ १ ॥ जोजन उतंग,
आति सहस चंग, गइ गगन लंघ, भवि हरख
संग ॥ सब जग उतंग, पद छिनकमें लीनो ॥
आ० ॥ २ ॥ जिम ध्वज उतंग, तिम पद अ-

भंग, जिन भक्तिरंग, भवि मुक्ति मंग, चिदघन
आनंद, समतारस भीनो ॥ आ० ॥ ३ ॥ अब
तार नाथ, मुज कर सनाथ, तज्यो कुणुरु साथ,
मुज पकड़ हाथ, दीनाके नाथ, जिनवच रस
पीनो ॥ आ० ॥ ४ ॥ आतम आनंद, तुम च-
रण बंद, सब कटत फंद, भयो शिशिर चंद ॥
जिन पठित छंद, ध्वजपूजन कीनो ॥ आ० ॥ ५ ॥

॥ दशमी आभरण पूजा ॥

॥ दोहा ॥

शोभित जिनवर मस्तके, रयण मुकुट झलकंत॥
भाल तिलक अंगद भुजा, कुंडल अति चमकंत॥१॥
सुरपति जिन अंगे रचें, रत्नाभरण विशाल ॥
तिम श्राव ह पूजा करे, कटे करम जंजाल ॥२॥

(जंगलो, नाल दाहरो ॥ अंग्रेजी वाजेकी चाल)

आनंद कंद पूजताँ जिनंद चंद हुं ॥ अ० ॥
मोती ज्योति लाल हीर हंस अंक ज्युं ।
कुंडलू सुधार करण मुकुट धार लुं ॥ आ० ॥ ३ ॥

सूर चंद कुँडले शोभित कान ढूँ ॥
 अंगद कंठ कंठलो मुर्नींद तार तुँ ॥आ० ॥२॥
 भाल तिलक चंग रंग खंग चंग ज्युँ ॥
 चमक दमक नंदनी कंदर्प जीत तुँ ॥ आ० ॥३॥
 व्यवहार भाष्य भाखियो जिनंद बिंब युँ ॥
 करे सिंगार फार कर्म जार जार तुँ ॥आ० ॥४॥
 बृद्धि भाव आतमा उमंग कार तुँ ॥
 निमित्त शुद्ध भावका पियार कार तुँ ॥आ० ॥५॥

॥ एकादशी पुण्यगृहपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पुष्पघरो मन रंजनो, फूले अदभुत फूल ॥
 महके परिमल वासना, रहके मंगलमूल ॥ १ ॥
 शोभित जिनवर बीचमें, जिम तारामें चंद ॥
 भवि चकोर मन मोदसे, निरखी लहे आनंद ॥२॥
 (खमाच, पंजाबीठेको, शांति वदन कज देख नयन देशी)

चंदवदन जिन देख नयन, मन अमीरस
 भीनोरे ॥ अंचलि ॥ राय बेल नव मालिका

श्रीवच्छ नंदावर्त्त है, मीनयुगल सुविधान ॥ १ ॥
 अतुल विमल खंडित नही, पंच वरण के साल
 चंद्र किरण सम उज्जालें, युवती रचे विशाल ॥ २ ॥
 अति सलक्षण तंदुलें, लेखी मंगल आठ ॥
 जिनवर अंगे पूजतां, आनंद मंगल ठाठ ॥ ३ ॥

(श्रीराग-जिन रुण गानं श्रुति अमृतं देशी)

मंगलपूजा सुरतरुकंद ॥ अंचलि ॥ सिद्धि
 आठ आनंद प्रपंचे, आठ करमका काटे फंद
 ॥ मं० ॥ १ ॥ आठो मद भये छिकनमें दूरे,
 पूरे अड़ गुण गये सब धंद ॥ मं० ॥ २ ॥ जो
 जन आठ मंगलसुं पूजे, तस घर कमला केलि
 करंद ॥ मं० ॥ ३ ॥ आठ प्रवचन सुधा रस
 प्रगटे, सूरि संपदा अतिही लहंद ॥ मं० ॥ ४ ॥
 आतस अड गुण चिदघन राशि, सहज विलासी
 आतस चंद ॥ मं० ॥ ५ ॥

॥ चतुर्दशी धूपपूजा ॥
॥ दोहा ॥

मृगमद् अगर सेलारस, गंधवट्टी घनसार ।
कृष्णागर शुच्छ कुंदरु, चंदन अंबर भार ॥ १ ॥
सुराभि द्रव्य मिलायके, करे दशांगज धूप ॥
धूपदानमें ले करी, पूजे त्रिभुवनभूप ॥ २ ॥
(राग पीलु ॥ ताल-दीपचंदी)

मेरे जिनंदकी धूपसे पूजा, कुमाति कुगंधी
दूर हरी रे ॥ मेरे ॥ रोग हरे करे निजगुण
गंधी, दहे जंजीर कुगुरुकी बंधी, निर्मल भाव
धरे जग धंदी, मुझे उतारो पार, मेरे करतार,
के अघ सब दूर करीरे ॥ मे ॥ १ ॥ ऊर्ध्व
गति सूचक भवि केरी, परम ब्रह्म तुम नाम
जपेरी, मिथ्या वास दुखरास झरे री, करो निरं-
जन नाथ, मुक्तिका साथ, के ममता मूर जरीरे
॥ मे ॥ २ ॥ धूपसे पूजा जिनवर केरी, मुक्ति-
वधू भइ छिनकमें चेरी, अब तो क्यों प्रभु कीनी
देरी, तुमही निरंजन रूप, त्रिलोकी भूप, के

कुंद, मोगर तिलक जाति मच्कुंद ॥ केतकी
 दमनक सरस रंग, चंपक रस भीनो रे ॥ चं० ॥
 ॥ १ ॥ इत्यादिक शुभ फूल रसाल, घर विरचे
 मन रंजन लाल ॥ जाली झरोखा चितरी शाल,
 सुर मंडप कीनोरे ॥ चं० ॥ २ ॥ गुच्छ झूमखाँ
 लंबाँ सार, चंद्रुआ तोरण मनोहार ॥ इँद्रभुवन
 को रंग धार, भव पातक छीनोरे ॥ चं० ॥ ३ ॥
 कुसुमायुधके मारन काज, फूलघरे थापे जिन-
 राज ॥ जिम लाहिये शिवपुरको राज, सब पा-
 तक खीनोरे ॥ चं० ॥ ४ ॥ आतम अनुभव
 रसमें रंग, कारण कारज समझ तुं चंग ॥ दूर
 करो तुम कुगुरु संग, नरभव फल लीनोरे ॥
 चं० ॥ ५ ॥

॥ द्वादशी पुष्पवर्षणपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

वादल करी वर्षा करे, पंचवरण सुर फूल ।
 हरे ताप सब जगतको, जानूदघन अमूल ॥१॥

॥ अडिल छंद ॥

फूल पगर आति चंग, रंग बादर करी,
परिमल अति महकंत, मिले नर मधुकरी ॥
जानुदघन अति सरस, विकच अधो बींट है ॥
बरसे बाधा रहित, रचे जिम छींट है ॥ १ ॥
(वसंत-दीपचंदी-साचा साहिव मेरा चिंतामणी स्वामी-देशी)

मंगल जिन नामे आनंद भविको घनेरा
॥ अं० ॥ फूल पगर बदरी झरीरे, हेठ बीट जि-
नकेरा । मं० ॥ १ ॥ पीड़ा रहित डिंग मधुकर
गुंजे, गावत जिन गुण तेरा । मं० ॥ २ ॥ ताप
हरे तिहुं लोकका रे, जिन चरणे जस ढेरा ॥
मं० ॥ ३ ॥ अशुभ करम दल दूर गये रे, श्री
जिन नाम रटेरा ॥ मं० ॥ ४ ॥ आतम निर्मल-
भाव करीने, पूजे मिटत अंधेरा ॥ मं० ॥ ५ ॥

॥ त्रयोदशी अष्टमंगलपूजा ॥

॥ दोहा ॥

स्वस्तिक दर्पण कुंभ है, भद्रासन वर्धमान ॥

विपदा दूर करी रे ॥ मे० ॥ ३ ॥ आत्म मंगल
 आनंद कारी, तुमरी चरण सरण अब धारी,
 पूजे जेम हरि तेम आगारी, मंगल कमला कंद,
 शरदका चंद, के तामस दूर हरीरे ॥ मे० ॥ ४ ॥

॥ पंचदशी गीतपूजा ॥

॥ दोहा ॥

आम भले आलापिने, गावे जिनगुण गीत ।
 भावे सुधी भावना, जाचे परम पुनीत ॥ १ ॥
 फल अनंत पंचाशके भाखे श्री जगदीश ।
 गीत नृत्य शुध नादसे, जो पूजे जिन ईश ॥ २ ॥
 तीन आम स्वर सातसे, मूरछना इक वीस ।
 जिन गुण गावें भक्तिसुं, तार तीस उगणीस ॥ ३ ॥

(राग श्रीराग-ठेको पंजाबी)

जिन गुण गावत सुरसुंदरी ॥ अंचलि ॥
 चंपक वरणी सुर मनहरणी, चंद्रमुखी शृंगार
 धरी ॥ जि० ॥ १ ॥ ताल मृदंग बंसरी मंडल,
 ब्रेणु उपांग धुनि मधुरी ॥ जि० ॥ २ ॥ देव कु-

मार कुमारी आलापे, जिनगुण गावे भक्ति भरी
 ॥३॥ नकुल मुकुंद वीण अति चंगी, ताल
 छंद अयति सिमरी ॥ जि० ॥ ४ ॥ अलख नि-
 रंजन ज्योति प्रकाशी, चिदानंद सतरूप धरी ॥
 जि० ॥ ५ ॥ अजर अमर प्रमु ईश शिवंकर,
 सर्व भयंकर दूर हरी ॥ जि० ॥६॥ आतम रूप
 आनंद घन संगी, रंगी निज गुण गीत करी ॥
 जि० ॥ ७ ॥

—
॥ षोडशी नाटकपूजा ॥

॥ दोहा ॥

नाटक पूजा सोलभी, सजी सोले शृंगार ।
 नाचे प्रभुके आगलें, भव नाटक सब टार ॥१॥
 देव कुमर कुमरी मिली, नाचे इक शत आठ ॥
 रचे संगीत सुहावना, बत्तिस विधका नाट ॥२॥
 रावण ने मंदोदरी, प्रभावती सुरियाभ ॥
 द्रौपदी ज्ञाता अंगमें, लियो जन्मको लाभ ॥३॥
 टारो भव नाटक सबी हे जिन दीन दयाल ! ।

मिल कर सुर नाटक करे, सुधर बजावे ताल॥४॥
 (राग कल्याण ॥ ताल दाढ़रो)

नाचत सुर वृंद छंद, मंगल गुन गारी ॥
 अं० ॥ कुमर कुमरी कर संकेत, आठ सत मिल
 भ्रमरी देत ॥ मंद्र तार रण रणाट, धुंधुरु पग
 धारी ॥ ना० ॥ १ ॥ बाजत जिहां मृदंग ताल,
 धप मप धुधुम किट धमाल ॥ रंग चंग ड्रंग
 ड्रंग, त्रौं त्रौं त्रिक तारी ॥ ना० ॥ २ ॥ तता
 थेड़ थेइ तान लेत, मुरज राग रंग देत ॥ तान
 मान गान जान, किट नट धुनि धारी ॥ ना०
 ॥ ३ ॥ तुं जिनंद शिशिर चंद, मुनिजन सब
 तार वृंद ॥ मंगल आनंद कंद, जय जय शिव-
 चारी ॥ ना० ॥ ४ ॥ रावण अष्टापद गिरींद,
 नाच्यो सब साज संग ॥ बाँध्यो जिन पद् उ-
 तंग, आतम हितकारी ॥ ना० ॥ ६ ॥

॥ सप्तदशी वाद्यपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

तत वितत धन झूसरे, वाद्य भेद ए चार ।

विविध ध्वनि कर शोभती, पूजा सत्तरमी सार १
 समवसरणमें वाजिया, नाद तणा झंकार ॥
 ढोल दमामा दुदुंभी, भेरी पणव उदार ॥ २ ॥
 वेणू वीणा किंकिणी, षड् भ्रामरी मरदंग ॥
 झल्लरी भंभा नादसुं, शरणाई मुरजंग ॥ ३ ॥
 पंच शब्द वाजे करी, पूजे श्री आरहिंत ।
 मनवाँछितफल पामियें, लहियें लाभ अनंत ॥ ४ ॥
 (जंगलो-मन मोहा जंगलकी हरणीने-ए देशी)

भवि नंदो जिनंद जस वरणीने ॥ अं० ॥
 वीण कहे जग तुं चिरनंदी, धन धन जग तुम
 करणीने ॥ भ० ॥ १ ॥ तुं जग नंदी आनंद कंदी,
 तवली कहे गुण वरणीने ॥ भ० ॥ निर्मल ज्ञान
 वचन मुख साचे, तूण कहे दुःख हरणीने ॥ भ०
 ॥ ३ ॥ कुमाति पंथ सब छिनमें नासे, जिनशा-
 सन उदे धरणीने ॥ भ० ॥ ४ ॥ मंगल दीपक
 आरति करतां, आतम चित्त शुभ भरणीने ॥
 ॥ भ० ॥ ५ ॥

(धन्याश्री-दो नयणांदा मारया मरजांदा परदेशीडा ए देशी)

अरिहंत पद मनरंग, चिदानंद अरिहंत
पद० ॥ अंचलि ॥ चिदानंदघन मंगलरूपी, मि-
श्या तिमिर दिणंद ॥ चि० ॥ १ ॥ चौतिस अ-
तिशय पैतिस वाणी, गुण बारे सुखकंद ॥ चि०
॥ २ ॥ महागोप महामाहण कहियें, काटे भव
भव फंद ॥ चि० ॥ ३ ॥ निर्यासक सत्थवाह
भणीजें, भवि चकोर मन चंद ॥ चि० ॥ ४ ॥
चार निक्षेप रूप जग रंजन, भंजन करम नरिंद
॥ चि० ॥ ५ ॥ अवर देव वामा वश कीने, तुं
निकलंक महिंद ॥ चि० ॥ ६ ॥ ज्ञायक नायक
शुभगति दायक, तुं जिन चिदघन वृद्ध ॥ चि० ॥ ७ ॥
दैवपाल श्रोणिक पद साधी, अरिहंत पद निपजंद
॥ चि० ॥ ८ ॥ सर्व शिवंकर ईशा निरंजन, गत
कलिमल सब धंद ॥ चि० ॥ ९ ॥ जिनके पंच
कल्याणक जगमें, करे उद्योत अमंद ॥ चि० १० ॥
आतम निर्मल भाव करीने, पूजें त्रिभुवन इंदा ॥
चि० ॥ ११ ॥

॥ काव्य ॥ द्रुतविलवितवृत्तम् ॥

आतिशयादिगुणाबिधवदान्यकं, जिनवरेन्द्रं
पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ संत्रः ॥ ॐ ह्री श्री परमपुरुषाय परमे श्र-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रमिते अर्हते
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ द्वितीया सिद्धपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

तनु त्रिभाग दूरे करी, घन स्वरूप अघनाश ॥
ज्ञान स्वरूपी अगम गति, लोकालोक प्रकाश ॥ १ ॥
अक्षर अमर अगोचरा, रूप रेख विन लाल ॥
जे पूजें सो भवि लहे, अर्हन् पद उजमाल ॥ २ ॥

(राग पीलु ॥ नाल-द्रीपचंदी)

(कान्हा मैं नहि रहना रे, तुमचे रे संग चलुं-देशी)

सिद्ध अचल आनंदी रे, ज्योतिमें ज्योति
मिली ॥ अंचलि ॥ अज अलख अमूरति रे, निज

॥ अथ कल्प ॥

॥ रेखता ॥

जिनंद जस आज में गायो, गयो अघ दूर
 मो मनको । शत अठ काव्य हूँ करके, थुणे सब
 देव देवनको ॥ जि० ॥ १ ॥ तप गच्छ गगन
 रवि रूपा, हुआ विजयसिंह गुरु भूपा । सत्य
 कर्पूर विजय राजा, क्षमा जिन उत्तमा ताजा ॥
 जि० ॥ २ ॥ पद्म गुरु रूप गुण भाजा, कीर्ति
 कस्तूर जग छाजा ॥ मणि बुद्धि जगतमें गाजा,
 मुक्ति गणि संप्रति राजा ॥ जि० ॥ ३ ॥ विजय
 आनंद लघु नंदा, निधि शिखी अंक है चंदा
 (१९३९) ॥ अंबाले नगरमें गायो निजातम रूप
 हूँ पायो ॥ जि० ॥ ४ ॥

॥ इति सत्तरभेदी पूजा ॥

॥ अथ विंशतिस्थानक पूजा ॥

॥ प्रथमा अरिहंतपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

समरस रसभर अघहर, करम भरम सब नास ॥
कर मन मगन धरम धर, श्रीशंखेश्वर पास ॥१॥
वस्तु सकल प्रकाशिनी, भासिनी चिदघनरूप ॥
स्यादवाद मत काशिनी, जिनवाणी रसकूप ॥२॥
छट्ठे अंग आवश्यकें, वीश निमित्त विधान ॥
ते साधे जिनपद लहे, अजर अमरकी खान ॥३॥
जिन गणधर वाणी नमी, आणी भाव उदार ॥
विंशति पद पूजन विधि, कहिसुं विधि विस्तार ॥४॥
विंशति तप पद सारिखी, करणी अवर न कोय ॥
जो भवि साधें रंगसुं, अहन् रूपी होय ॥५॥
क्रमसें पीठ त्रिकोपरि, थापी जिनवर वीश ॥
सामग्री सहु मेलके, पूजे त्रिभुवन ईश ॥६॥
एक एक पद पूजीयें, पञ्च अष्ट सत्तार ॥
इव्यार्चनविधि जाणियें, इग विस विधि विस्तार ॥७॥

गुण रंग रली ॥ सि० ॥ १ ॥ शिव अजर अनंगी
रे, करमको कंद०दली ॥ सि० ॥ २ ॥ समय ए-
कमें त्रिपदी रे, नास थिर आविर बली ॥ सि०
॥ ३ ॥ ऋजु एक समय गतिका रे, अनंत चतु-
ष्य मिली ॥ सि० ॥ ४ ॥ गुण एक त्रिश धारी रे,
निर्मल पाप गली ॥ सि० ॥ ५ ॥ त्रिहुं कालके
दैवा रे, सब सुख मेल मिली ॥ सि० ६ ॥ गुणा-
नंत करीजे रे, वरगित वरग बली ॥ सि० ॥ ७ ॥
नभ एक प्रदेशे रे, सब सुख पुंज भिलि ॥ सि०
॥ ८ ॥ लोकालोक न मावे रे, जिनवर तंत्र चली
॥ सि० ॥ ९ ॥ बंधन छेद असंगा रे, पूर्व प्रयोग
फली ॥ सि० ॥ १० ॥ गति करण निदाना रे,
सुमति संग भली ॥ सि० ॥ ११ ॥ हस्तिपाल
आराधी रे, जिनपद सिद्ध तुली ॥ सि० ॥ १२ ॥
अभु आतमानंदी रे, पूजत कुमति टली ॥ सि० १३

॥ काव्यं ॥

विष्वदान्यकं, जिनवरेन्द्र-

पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विश्वतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । अँ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सिद्धाय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥



॥ तृतीया प्रवचनपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

त्रिजे प्रवचन पूजीये, करी कुमतिसंग दूर ॥
मिथ्या मत टाली सबे, जन्म मरण दुःख चूर ॥ १ ॥
भाव रोगकी औषधि, अमृत सिंचनहार ॥
भव भय ताप निवारिणी, अरिहंत पद फलकार ॥ २ ॥

॥ राग बडहंस ॥

प्रवचन पद भवपार उतारे, पूजो भवि मन
रंग रे ॥ प्रव० ॥ अंचलि ॥ प्रवचन अमृत रस
भरी ध्यानें, चिदघन रंग रंगील रे ॥ कुमति
जाल सब छिनकमें जारे, प्रगटे अनुभव लील रे

॥ प्र० ॥ १ ॥ तीनसो साठ तीन मतधारी, जगमें तिमिर अज्ञान रे ॥ जयो जिनवचन सूर तम नाशक, भासक अमल निधान रे ॥ प्र० ॥ २ ॥ सप्तभंगी नय सप्त सुहंकर, युक्त मान दोय सार रे ॥ षड्भंगी उत्सर्गादिककी, अड्यक्ष सम्यक कार रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ प्रवचनाधार संघ जग साचो, जिन पूजें भव पार रे ॥ अरिहंत धर्म कथानक अवसर, करत प्रथम नमोकार रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ प्रवचन अमृत जलधर वरसे, भवि मन आधिक उल्लास रे ॥ कुमति कुपंथ अंधजन जे ते, सूकत जैसे जवास रे ॥ प्र० ॥ ५ ॥ संभव नर पति प्रवचन साधी, तर्थिकर पद थान रे ॥ पंच अंग ताली सदगुरुकी, प्रवचन संघ निधान रे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ आत्म अनुभव रत्न सुहंकर, अचर अनघ पद खान रे ॥ जो भवि पूजें मन तन सूर्धें, अरिहंत पदको निदान रे ॥ प्र० ॥ ७ ॥

॥ काव्यं ॥

अतिशयादिगुणाबिधवदान्यकं, जिनवरेन्द्रप-
दस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते प्रवचनाय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ चतुर्थी सूरिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चोथे पद सूरि नमो, चरण करण पद धार ॥
सारण वारण नोदना, प्रतिनोदन करतार ॥ १ ॥
षट् त्रिंशत गुण शोभता, संपत्त षट् पंचास ॥
मेढी सम जिनशासने, भवि पूजे सुखवास ॥ २ ॥

(काफी-चाल होरीकी-ताल दीचचंदी)

अपने रंगमें रंगदे, हेरी हेरी लाला, अपने रंगमें
रंगदे ॥ अंचलि ॥ पांच आचार अखंडित पाले,
जन्म मरण दुःख भंग दे ॥ हेरी० ॥ ३ ॥ पंच

प्रस्थान जे मंत्रराजके, स्मरण करे मन रंग दे
 ॥ हेरी० ॥ २ ॥ आठ प्रमाद तजें उपदेशें, शिव-
 रमणी सुख मंग दे ॥ हेरी० ॥ ३ ॥ चार अनु-
 योग सुधारस धारे, धरम करम उमंग दे ॥ हेरी०
 ॥ ४ ॥ सात हि विकथा दूर निवारी, मोह सुभट
 संग जंग दे ॥ हेरी० ॥ ५ ॥ श्रुतके सातो अंग
 रंगीले, मुझ्ह हृदयमें टंग दे ॥ हेरी० ॥ ६ ॥
 पुरुषोत्तम नृप जिनपद लीनो, आत्मराम सि-
 वंग दे ॥ हेरी० ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाबिधवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसू-
 द्दनं, कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
 श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सूर्ये
 जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ पंचमी स्थविरपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

परम संगी रंगी नही, ज्ञायक शुद्ध स्वरूप।।
भविजनमन थिर करनको, जय जय थिविर
अनूप ॥ १ ॥

(जंगलो झींझोटी-ताल पजावी ठेको, चाल दुमरीकी)

थिविर सुहंकर पदकज पूजी, तीर्थकर पद-
मुख गतियाँरे ॥ थि० ॥ १ ॥ डिगमिग डिग-
मिग मन चंचल है, धरम करे फिर चित्त राति-
याँरे ॥ थि० ॥ २ ॥ सूत्र थिविर वय ब्रत परि-
णामे, जाने समवायांग बतियाँरे ॥ थि० ॥ ३ ॥
साठ वरस ब्रत वरस वीसमे, थिर परिचित
शुद्ध बुद्ध मतियाँरे ॥ थि० ॥ ४ ॥ दशविध
अंग तीसरे वरने, थिविर ग्रहे इह जिन ब्रति-
याँरे ॥ थि० ॥ ५ ॥ वंदन पूजन नमन करन-
मति, भक्ति करे शुद्ध पुण्य रतियाँ रे ॥ थि०
॥ ६ ॥ पद्मोत्तर नृप ए पद सेवी, आतम अरि-
हंत पद बतियाँरे ॥ थि० ॥ ७ ॥

काव्यं ॥

अतिशयादिगुणाद्विवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-
पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्नशिलोच्चयसूद-
नं, कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥ मंत्रः ॥
ॐ हैं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा-
मृत्युनिवारणाय श्रीमते स्थविराय जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ पाठकपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

स्यादवादं नय पंथमें, पंचानन बल पूर ॥
दुर्नयवादी बृंदको, करे छिनकमें दूर ॥ १ ॥
पठन करावे शिष्यको, स्व पर सत्ता नूर ॥
मिथ्यातिमिर विनाशने, जय जय पाठक सूर ॥ २ ॥

॥ खमाच पंजाबी टेको ॥

(बीत रागको देख दरस दुविधा मांरी मिठगइरे देशी)

पाठक पद सुख चेन देन, वच अमी
रस भीनोरे ॥ पाठक० ॥ अंचली ॥ स्व पर

रूप विकासी चंद, अनुभव सुर तरु केरो कंद ॥
 स्यादवाद मुख उचरे छंद, जिन वचरस पीनो
 रे ॥ पा० ॥ १ ॥ कुमति पंथ तम नाशक सूर,
 सुमति कंद वर्धन घन पूर ॥ दे उपदेश संत
 रसभूर, अघ सब क्षय कीनो रे ॥ पा० ॥ २ ॥
 त्रीजे भव शिवरमणी चंग, चरण करण उपदे-
 शक रंग ॥ कर्म निकंदन करण भंग, सुर अ-
 सुर पूजीनो रे ॥ पा० ॥ ३ ॥ हय गय बृषभ
 सिंह सम कीन, इंद्र उपेंद्र चक्री दिन ईन ॥
 चंद्र भंडारी उपमा दीन, नग मेरु करीनो रे ॥
 ॥ पा० ॥ ४ ॥ जंबू सीता सरिता वखान, च-
 रम जलधि तिम गुण मणि खान ॥ षोडश उ-
 पमा करी विधान, बहुश्रुत जस लीनो रे ॥
 पा० ॥ ५ ॥ अवगुण चौदें दूर करीन, पन्नर
 गुणकारी शिष्य पीन ॥ सरस वचन जिम तंत्री
 कीन, निजगुण सब चीनो रे ॥ पा० ॥ ६ ॥ म-
 हेंदपाल पद सेवी सार, तर्थिकर पद लीनो धार

मदन भरमको जार जार, आत्मरस भीनो रे
॥ पा० ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाब्धिवदान्यकं, जिनवरेन्द्रप-
दस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विश्वितिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते पाठकाय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

—
॥ सप्तमी साधुपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

तजी विभाव स्वभावता, रमता समता संग ॥
विशदानंद स्वरूपता, लाघ्यो अविहड रंग ॥ १ ॥
माने जग त्रिहुं कालमें, मुनि कहियें तस नाम ॥
साधे शुद्धानंदता, साधु नाम अभिराम ॥ २ ॥

(जंगलो—तालदादरा—अंग्रेजी बाजाकी चाल)

मुनींद चंद ईश मेरे, तार तार तार ॥

ज्ञानके तरंग भंग, सात जान कार ॥ मु० १ ॥
 संतके महंत मुनि, साध ऋषि धार ॥
 यति ब्रती संजमी है, जगत्को आधार ॥ मु० २ ॥
 नव विध भाव लोच, केश दश कार ॥
 अनंग रंग भंग संग, सुमाति चंग नार ॥ मु० ३ ॥
 सप्त चाली दोष टाली, लेत है आहार ॥
 सात वीस गुण धार, आतमा उजार ॥ मु० ४ ॥
 पंच ही प्रमादके, कछोल लोल भार ॥
 संसार नीरनिधि पोत, ज्योति ज्ञान सार ॥ मु० ५ ॥
 पार करे संत अंत, कर्मका निहार ॥
 ब्रह्मचर्य धार वाड, नव रंग लार ॥ मु० ६ ॥
 वीरभद्र साधु सेवे, जिन पद सार ॥
 आतमा उमंग रंग, कुगुरु संग छार ॥ मु० ७ ॥

॥ काव्यं ।

आतिशयादिगुणाद्विवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूद-
 नं, कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-

॥ नवमी दर्शनपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

तत्त्व पदारथ नव कहे, महावीर भगवान् ॥
जो सरधे सदभावसे, सम्यग्गुदर्शी जान ॥ १ ॥
अद्वा विन नहीं ज्ञान है, तदविन चरण न होय ॥
चरण विना मुक्ति नहीं, उत्तरज्ञयणे जोय ॥ २ ॥
॥ परज्ज मारू-ताल दीपचंदी ॥

(निशादिन जोखु वाटडी, घेर आके मेरे ढोला-देशी)

दर्शन पद मनमें वस्यो, तब सब रंग रोला ॥
जगमें करणी लाख हैं, एक दर्श अमोला ॥द०॥१॥
दर्शन विन करणी करी, एक कौड़ी न मोला ॥
देव गुरु धर्म सार है, इनका क्या मोला ॥द०॥२॥
दर्शन मोहनी नाससे, अनुभव रस घोला ॥
जिन दर्शन पूजन करें, एही दर्श कल्पोला ॥द०॥३॥
सम संवेग निर्वेदता, अस्ति करुणा तंबोला ॥
इन लक्षणसे मानीयें, समकित रस चोला ॥द०॥४॥
अंतमुर्हरत फरसीयें, दर्शन सुख डोला ॥
निश्चय मुक्ति पामीयें, जिनवर एम बोला ॥द०॥५॥

इग दुग ती चउ सर दसे, सतसठ भेद तोला ॥
 दर्शन पायो सिज्जंभवं, देखी प्रतिमा अमोलाद ॥६॥
 हरि विक्रम नृप सेवना, अंतर दृग खोला ॥
 आत्म अनुभव रंगमें, मिटे मनका झोला ॥द०॥७॥

॥ काव्य ॥

आतिशयांदिगुणाभिवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोचयसुदनं,
 कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । अँ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
 राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते दर्शनपदाय-
 जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥



॥ दशमी विनयपदपूजा ॥

गुण अनंतको कंद है, विनय भुवन सिंगार ॥
 विनयमूल जिनधर्म है, विनयिक धन अवत्तार ॥१॥
 पांच भेद दस तेरसा, बावन छासठ मान ॥
 आगममें विनय तणा, भेद कह्या भगवान् ॥२॥

श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते साधवे
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ अष्टमी ज्ञानपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

निज सरूपके ज्ञानसे, पर संगत सब छार ॥
ज्ञान आराधक प्राणिया, ते उतरे भवपार ॥ १ ॥

॥ भेरवी पंजाबी ठेको ॥

(लागी लगन कहो कैसे छूटे, प्राणजीवन प्रभु प्यारेसें-देशी)

ज्ञान सुहंकर चिदघन संगी, रंगी जिन मत
सारेमें ॥ रंगी० ॥ ज्ञान० ॥ १ ॥ पांच एकावन भेद
ज्ञानके, जडता जग जन टारेमें ॥ जड ॥ ज्ञान०
॥ २ ॥ भक्ष अभक्ष विवेचन कीनो, कुमति रंग
सब छारेमें ॥ कुम० ॥ ज्ञान० ॥ ३ ॥ प्रथम ज्ञा-
नने पीछे अहिंसा, करम कलंक निवारेमें ॥ कर०
॥ ज्ञान० ॥ ४ ॥ सदसद भाव विकाशी ज्ञानी,
दुर्ज्य पंथ विसारेमें ॥ दुर्ज० ॥ ज्ञान० ॥ ५ ॥ अज्ञा-
नीकी करणी ऐसी, अंक विना शून्य सारेमें ॥

॥ अंक० ॥ ज्ञान० ॥ ६ ॥ मति श्रुत अवधि मनः
पर्यव है, केवल सर्व उजारेमें ॥ केव० ॥ ज्ञान० ॥ ७ ॥
अज्ञानी वर्ष एक कोटिमें, करम निकंदन भा-
रेमें ॥ कर० ॥ ज्ञान० ॥ ८ ॥ ज्ञानी श्वासोश्वास
एकमें, इतने करम विदारेमें ॥ इत० ॥ ज्ञान०
॥ ९ ॥ भरतेश्वर मरुदेवी माता, सिद्धि वरे दुःख
जारेमें ॥ सिद्धि० ॥ ज्ञान० ॥ १० ॥ देश विराधक
सर्वाधक, भगवती वीर उचारेमें ॥ भग० ज्ञान०
॥ ११ ॥ जयंत नरेश्वर यह पद साधी, आत्म
जिनपद धारेमें ॥ आ० ॥ ज्ञा० ॥ १२ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाद्विवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-
पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विश्वातिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते ज्ञान-
पदाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥



श्रराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते साधवे
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ अष्टमी ज्ञानपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

निज सरूपके ज्ञानसे, पर संगत सब छार ॥
ज्ञान आराधक प्राणिया, ते उतरे भवपार ॥ १ ॥

॥ भेरवी पंजावी ठेको ॥

(लागी लगन कहो कैसे छुटे, प्राणजीवन प्रभु प्यारेसें-देशी)

ज्ञान सुहंकर चिदघन संगी, रंगी जिन मत
सारेमें ॥ रंगी० ॥ ज्ञान० ॥ १ ॥ पांच एकावन भेद
ज्ञानके, जडता जग जन टारेमें ॥ जड ॥ ज्ञान०
॥ २ ॥ भक्ष अभक्ष विवेचन कीनो, कुमति रंग
सब छारेमें ॥ कुम० ॥ ज्ञान० ॥ ३ ॥ प्रथम ज्ञा-
नने पीछे अहिंसा, करम कलंक निवारेमें ॥ कर०
॥ ज्ञान० ॥ ४ ॥ सद्सद् भाव विकाशी ज्ञानी,
दुर्नीय पंथ विसारेमें ॥ दुर्न० ॥ ज्ञान० ॥ ५ ॥ अज्ञा-
नीकी करणी ऐसी, अंक विना शून्य सारेमें ॥

श्रीमद् विजयानंदसूरिकृत वीसथानक पूजा। २०१

पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलैच्चयसूदर्णं,
कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हैरी श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते विनयप-
दाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १० ॥

॥ एकादशी चारित्रिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चरण शरण भवजल तरण, चरण शरण सुख सार ॥

रंक महंत करे सही, सुर नर सेवाकार ॥१॥

तीन जगतपति पद दिये, इंद्रादिक शुण गाय ॥

कलिमलः २०१५, जय जय संयम राय ॥२॥

(८) शिक्षक, लगीलो नाभी के ददनशु, देशी)

मनरंग रे जीया ॥ च० ॥ अंक-

लि ॥ संचयको जे, रिक्त करे भय

भंग निरुक्ते मान्यो, शिव रमणी

को या ॥ च० ॥ १ ॥ षट् खंडकेरो

मणी भोग उत्तरं ॥ चक्री संज्ञम् ॥

(देशी वारी जाउरे केशरिया सामरा गुण गाउरे)

श्री जिनवर गुण गावोरे, भव दुःख निवारी ॥ श्री० अंचलि ॥ प्रभु शिवरसिया दिलमें वासिया, मनमोहन उपकारी रे । भव० ? ॥ विधि विष्णु शंकर जिन अरिहा, नाम अनंते धारी रे । भव० २ ॥ दूषण अड दस दूर निवारी, धार लिए गुण वारी रे । भव० ३ ॥ रत्न तोरण चारो दिशि वापी, झलकें तेज अपारी रे । भव० ४ ॥ पणसय जोयण दूर वावसे, चार दिशि वन चारी रे । भव० ५ ॥ पांचसो जोयण चौड पणे में, लंबे वापी सुमारी रे । भव० ६ ॥ आतम लक्ष्मी जिन श्रद्धा से, वह्यभ हर्ष अपारी रे । भव० ७ ॥

॥ दोहा ॥

जल वापीमें एक एक, दधि मुख पर्वत जान ।
इम सोलाँ दधिमुखको, स्फाटिक रत्न के मान ॥
ऊंचा मोटा मानिए, चउसठ दश हजार ।
तिम कंदे अवधारिए, जोयण एक हजार ॥२॥

(दुमरी, देशी महावीर चरणमे जाय)

मेरो मन मान रह्यो जिन पूजनमें सुख-
कार ॥ अंचालि ॥ सोलाँ चैत्य सोलाँ ऊपर, अं-
जन गिरि सम धार । मेरो० १ ॥ एकसो चउ-
वीस चैत्य चैत्यमें, जिन पडिमा विस्तार । मे०
२ ॥ लोकपाल सब मिलके करते, जिन अभि-
षेक उदार । मे० ३ ॥ श्रावक तिम शुभ मनसे
कीजे, जिन पूजा मनोहार । मे० ४ ॥ आतंम
लक्ष्मी शिव सुख पामे, वल्लभ हर्ष अपार ॥ मे० ५

काव्य-मंत्र-पूर्ववत्

॥ अथ पृष्ठी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जिन पडिमा जिन चैत्यमें, धनुष पांचसो मान ।
राति कर क्षिति-धर मानिए, बत्तीस एक समान ॥२॥
भवनपाति व्यंतर तथा, ज्योतिषी जाति देव ।
वैमानिक सुरवर मिलि, जिनवरकी करे सेव ॥२॥

(देशी ॥ सिद्ध अचल आनन्दीरे ।)

जिन पूजा सुहावेरे, भवि भव ताप दली । अंचलि ॥
 शिवसुख अभिलाषी रे, करे मनरंगरली । जिन०१
 जिनराजको पूजीरे, लीजे लाहो मली । जिन०२
 जिन आणा धरीजेरे, निज शिर पाप टली ॥जि०३॥
 वापी अंतर मानोरे, रतिकर दो दो भली ॥जि०४॥
 ज्योयण दश हजारे, लांबा चौडा वली ॥जि०५॥
 एक सहस ऊंचारे, आगम पाठ चली ॥ जि०६॥
 आतम लक्ष्मी हर्षेरे, वल्लभ आशा फली ॥जि०७॥

॥ दोहा ॥

रतिकर मिरिवर दीपते, पद्म राग मणिठाठ ।
 संठाणे झल्लरी समा, सुनिए आगम पाठ ॥१॥

(काफी । होरी । दीपचंदी ॥ देशी—अपने रंगमें रंगदे)

जिन पूजन शिव संगदे, हेरी हेरी जीया ॥
 जिन० अंचलि ॥ बत्तीस रतिकरे बत्तीस चैत्ये ॥
 जिन पूजी दुःख भंग दे । हेरी० १ ॥ तीर्थोदक
 कलशे भरी कीजे । जिन अभिषेक सुरंग दे ।
 हे० २ ॥ केसर चंदनसे प्रभु पूजी । जिन गलं

हार उमंग दे । हे० ३ ॥ कनक पत्र शुभ को-
रणी कीजे । विच विच रत्नको रंग दे । हे० ४ ॥
सुर सम भविजन पूजा रचावे । भावे शिवसुख
मंग दे । दे० ५ ॥ आतम लक्ष्मीफल पूजाका
बल्लभ हर्ष अभंग दे । हेरी० ६ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥



॥ अथ सप्तमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सोहम ईशानेंद्रकी, इंद्राणि अड आठ ।
शुभ भावे प्रभु पूजती, करती नव नव ठाठ ॥१६
॥ सोरठी । तालदीपचंदी । देशी । स्याम ब्रह्म सुहंकर लखरी ।

द्वीप नन्दीश्वर जिन अखरी । द्वीप० अंच-
लि । चार विदिशिमें चार रत्निकर । सर्व रत्न-
मयी दखरी ॥ द्वीप० १ ॥ ऊँचा लांचा पिहूला
हजारे । इक दस दस जिन सख री ॥ द्वीप० २ ॥
कंद अढीसो जोयणका तस । ज्ञानी ज्ञान परत-
खरी ॥ द्वीप० ३ ॥ सहस एक तीस छसो

त्तेवीस । परिधि अज्ञानको नख री ॥ द्वीप० ४॥
राजधानी चारों रतिकरसे । चउ दिशि जोयण
लख री ॥ द्वीप० ५ ॥ आतम लक्ष्मी निजगुण
अगटे । वल्लभ हर्ष समख री द्वीप० ६ ॥

॥ दोहा ॥

चार गिरिकी मिलायके, राजधानियां सोल ।
अग्नि नैऋत कोणकी, धुर हरि ललना बोला ॥१॥
चायव्य ईशानकी, राजधानियां आठ ।
ईशानेंद्र इंद्राणीकी, जानो आगम पाठ ॥२॥
(जंगलो । ताल दीपचंद्री देशी। अकेली जानसे मैंतो दुःख सहोरा।)

भवि एतो रचना पिछानी रे, अनंते ज्ञा-
नीकी एतो रचना पिछानी रे ॥ अं० ज्ञानी विना
बर्णन नवि होवे । मानी श्रद्धा आनीरे ॥ अनंते०
४ ॥ १ ॥ लाख लाखकी सोलां नगरियां । जोयण
ए जिन वानीरे ॥ अनंते० ॥ २ ॥ जिनको मन
जिन धर्म रंगायो । सद्है ते भवि प्रानीरे ॥
अनंते० ॥ ३ ॥ सोल चैत्य एक चैत्ये प्राडिमा ।
चीश अधिक शत मानी रे ॥ अनंते० ॥ ४ ॥

विविध पूजासंग्रहे श्री नंदीश्वरदीप पूजा. ३८६

स्त्रात्र महोत्सव अग्रमहिषीं । आय करे सुख
खानीरे ॥ अनंतेऽ ॥ ५ ॥ तिम भविजन पूजो
मन हर्षे । आतम वल्लभ जानीरे ॥ अनंतेऽ ॥ ६ ॥
। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ अष्टमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सिद्धायतन वखानिए, तिरछे लोकमें पाठ ॥ १ ॥
तीन सहस दोसो सही, ऊपर ओगणसाठ ॥ २ ॥
तिग लख एकाणु सहस, तीनसो ऊपर वीस ।
इतनी पडिमा शाश्वती, प्रणमो भवि निसदीस ॥ ३ ॥

॥ पहाड़ी ताल टेका ॥

(देशी । भजनियोकी ॥ बनगण हजारा मजनु)

जिन आणा मनमें धारके, सासय जिनवर
को ध्यावो ॥ अं० ॥ कुँडल दीपमें चार सुहावे,
जिनमांदिर भवि मनको भावे । जिनपडिमा
संख्या जिन गावे, छन्नु के ऊपर चारके, शत
जिनको सीस नमावो, सासय जिनवरको ध्यावो

॥ जि० ॥ १ ॥ चार चैत्य रुचक द्वीप जानो,
चारसो छन्नु पडिमा मानो । अससी मेरु बनमें
वखानो, जिन मंदिर मनो हारके । छन्नुंसो प-
र्डिमा गावो, सासय जिनवरको ध्यावो ॥ जि०
श२ ॥ पांच मेरु चूलिका विराजे, जिन घर षट्
शत पडिमा साजे । वीश चैत्य गजदंते छाजे,
पूजो पाप निवारके । चउबीसो बिंब मनावो,
सासय जिनवरको ध्यावो ॥ जि० ॥ ३ ॥ देव
कुरु उत्तर कुरु सोहे, जिनघर दश भविजन मन
मोहे । वारसो जिन पडिमा अघ खोहे, अससी
गिरि वखारके । प्रासाद अससी मन लावो,
सासय जिनवरको ध्यावो ॥ जि० ॥ ४ ॥ नव
हजार छन्नुं जिन चंदा, वंदो पूजो आनंद कंदा ।
आतम लक्ष्मी मान अमंदा, करम भरम सब
जारके, वल्लभ अति हर्षको पावो, सासय जिन-
वरको ध्यावो ॥ जि० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

तीस जिनालय कुलगिरि, छत्तीससो जिनराय ।

दिग्गज चालीस चैत्यबिंब, अठ चालीस सौ भायै
 चैत्य दीर्घ वैताढ्यपर, एकसो सत्तरि मान ।
 बीस सहस और चारसौ, जिनवर बिंब प्रमान २
 चैत्य जंबूआदितरु, एक दश शत सित्तरे ।
 एक लाख चालीसहजार, चारसो बिंबकी लहेर ३
 चैत्य सहस कंचनगिरि, इक लख बीस हजार ।
 चैत्य अस्सी अस्सी द्रहे, बिंब छन्नुसौ धार॥४॥
 तीनसौ अस्सी चैत्यकुँड, बिंब पणयाली हजार ।
 ऊपर छसौ जिनवरा, सिमरो उठी सवार ॥५॥

(देशी ॥ चुंदर चामलिया ॥)

भविजन शांत धिया, सासय जिनवर ध्यावो॥
 सुखकर नाम लिया, निशादिन जिन गुण गावो
 भविजन शांत धिया ॥ अंचालि ॥ सित्तरे चैत्य
 महा नदी जानो, चोरासीसौ बिंब वखानो ।
 निरखी आनंद थावो । भविजन शांत धिया ॥६॥
 बीस प्रासाद यमक गिरि मानो, चउबीससौ
 जिन बिंब प्रभानो । नमन करी सुख पावो—

विजन० ॥ २ ॥ बृत्त वैताळ्ये वीस जिनालय,
उत्तरीससौ जिन पडिमा मानय । करिए पूजन
मेल आवो—भविजन० ॥ ३ ॥ चैत्य चार इखु-
कार सुहावे, चारसौ अस्सी जिन विंब भावे ।
नमिए पाप पलावो—भविजन० ॥ ४ ॥ चार चैत्य
मानुषोत्तर सोहें, चारसौ अस्सी जिन विंब मोहे ।
च्युंतर दोय मनावो—भविजन० ॥ ५ ॥ तिर्म
जोतिषिमें दोय असंख्या, आतम लक्ष्मी हर्ष
न संख्या । वल्लभ सीस नमावो—भविजन० ॥ ६ ॥
काढ्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ नवमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सात कोडि उपर सही, बहुतेर लाख सुजाण ।
अधो लोक जिन चैत्य हैं, ए जिनवरकी वाण ॥ १ ॥
कोडि तेरसौ जानिए, और नव्याशी कोड़ ।
साठ लाख जिन विंबको, वंदो दो कर जोड़ ॥ २ ॥

छहत्तर लाख वखानिए, सिद्धायतन विचार ।
 विंव कोडि इकसौ छतीस, अस्सी लाख सुमार २
 इतने एक निकायमें, पांच निकाये जोय ।
 जिनघर जिनविंव मानिए, उतने उतने होय ३ ॥

॥ दुमरी । पंजावी टेको देशी । माधुवनमें मेरा सामरिया ॥

सासय जिनवर पूजी नरभव, लाहो भवि-
 जन मन माने ॥ सासय । अं० । जिनघर छन्नु-
 लाख सुहावे, वायु कुमार अमर थाने ॥ सासय०
 ॥ १ ॥ विंव एकसौ बहत्तर कोडी, अस्सी लाख
 आगममें वखाने ॥ सा० ॥ २ ॥ अधो लोकके
 जिनघर गाए, जिनवर पडिमासह जाने ॥ सा०
 ॥ ३ ॥ पूजन वंदन शुभ भावोंसे, समकित
 गुण निज प्रगटाने ॥ सा० ॥४॥ आतम लक्ष्मी
 हर्ष धरीने, वल्लभ मन जिन गुण गाने ॥ सा०५

॥ काढ्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ अथ दशमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

उर्ध्व लोक सिद्धायतन, लाख चउरासी जाण ।
 उपर सत्ताणु सहस, तेवीसं जिनवर वाण ॥१॥
 इकसौ वावनकोडि जिन, लाख चौरानु पाठ ।
 सहस चुतालिस बाँदिए, सातसौ उपर साठ ॥२॥
 लाख बत्तीस जिनालया, सौधमें देवलोक ।
 सत्तावन कोडी सही, साठ लाख जिन धोक ॥३॥
 लाख अठावीस जानिए, सिद्धायतन इसान ।
 जिनपडिमा कोडि पञ्चास, चालिस लाख वखान ४
 बार लाख सिद्धायतन, सनखुमारे जाण ।
 इकवीसकोडि साठलाख, जिनपडिमा जिनवाण ५

॥ जंगला ॥ देशी-महावीर तोरे समवसरणकीरे ॥

शाश्वता जिन चरणकमलकी रे । हुं चाहुं
 सेवा प्यारी, भवभ्रांति दूर निवारी, पंचम गति
 सुख दातारी। शाश्वता ०। अं०॥ माहेंदरे राजेरे, जिन-
 घर साजेरे अडलख जिन पडिमा माली। चउदस-

॥ अथ दशमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

उधर्व लोक सिद्धायतन, लाख चउरासी जाण ।
 उपर सत्ताणु सहस, तेवीसं जिनवर वाण ॥१॥
 इकसौ बावनकोडि जिन, लाख चौरानु पाठ ।
 सहस चुतालिस वंदिए, सातसौ उपर साठ॥२॥
 लाख वत्तीस जिनालया, सौधर्मे देवलोक ।
 सत्तावन कोडी सही, साठ लाख जिन धोक॥३॥
 लाख अठावीस जानिए, सिद्धायतन इसान ।
 जिनपडिमा कोडि पंचास, चालिस लाख वखाने४
 बार लाख सिद्धायतन, सनकुमारे जाण ।
 इकवीसकोडि साठलाख, जिनपडिमा जिनवाण ५
 ॥ जंगला ॥ देशी-महावीर तोरे समवसरणकीरे ॥

शाश्वता जिन चरणकमलकी रे । हुं चाहुं
 सेवा प्यारी, भवभ्रांति दूर निवारी, पंचम गति
 सुख दातारी॥शाश्वता॥०॥अं०॥माहेंद्रे राजेरे, जिन-
 घर साजेरे अडलख जिन पडिमा साली॥चउदस्त

कोडी लख चाली, प्रभु नामे नित्य दीवाली ।
 शा० १ ॥ स्वर्ग ब्रह्म नामारे, शुभ जिन धा-
 मारे, चार लाख विंव सत कोडी । वीस लाख
 उपर ले जोडी, कर नमन मान मन मोडी ।
 शा० २ ॥ पचास सहस्र जानोरे, लांतके चैत्य
 मानोरे, लाख नवति जिन विंव सारा । शुक्रे
 चालीस हजारा, लाख बहत्तर पडिमा धारा ॥
 शा० ३ ॥ आठमे चैत्य कहिएरे, सहस्र
 षट लहिएरे, दश लाख ते अस्सी
 हजारा, जिनपडिमा दर्श उदारा, पामे भव
 जलधि पारा ॥ शा० ४ ॥ नवमा स्वर्ग आ-
 नतरे, दशमा स्वर्ग प्रानतरे, चउसय जिनघर
 मनोहारा । पडिमा बहत्तर हजारा, प्रभु अर्चन
 पातक टारा ॥ शा० ५ ॥ आरण एकादशमारे,
 अच्युत द्वादशमारे । चैत्य दिग सय पडिमा
 वंदो । चउप्पण सहस्र आनंदो, बलभ मन
 हर्ष अमंदो ॥ शा० ६ ॥

॥ दोहा ॥

त्रैवेयक नव स्वर्गमें, अनुक्तर पांच विमान ।
जिन पडिमा इक चैत्यमें, इकसौ वीस प्रमान॑॥
॥ भैरवी दादरा ॥ (देशी । जागो जागो भारतके भाईयो)

सेवो सासय जिनवर प्रानी । मिटे जनम
मरण दुःख दानी ॥अं०॥ इकसौ एकादश त्रिक
आदि । धारो जिनघर सुंदर अनादि । इकसौ
तेतीससौ वीस जानी ॥ सेवो० १ ॥ दूजी त्रिक
चैत्य इकसौ सात । बिंब बारां हजार विख्यात ।
नमो अडसय चालीस मानी ॥ सेवो० २ ॥
त्रीजी त्रिक चैत्य इकसौ सार । जिन प्रणमो
बारां हजार । अनुक्तर चैत्य पांच मन आनी ॥
सेवो० ३ ॥ द्रव्य भावसे जिन छसौ सेवा । करे
कल्प कल्पातीत देवा । आतम लक्ष्मी वल्लभ
हर्षानी ॥ से० ४ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥




॥ भ० ॥ १ ॥ जंघा विद्या चारण मुनिवर, सु-
रवर संघ विचरणीने ॥ भ० ॥ २ ॥ स्नात्र करी
पूजी सुर नाचे, गावे मोह विदरणीने ॥ भ० ॥
३ ॥ तपगच्छपति विजयानंद सूरि, लमीवि-
जय अघ हरणीने ॥ भ० ॥ ४ ॥ हर्षविजय तस
किंकर वल्लभ, रचना मीयागाम करणीने ॥ भ०
॥ ५ ॥ संवत् वीर चउवीसौ सेती, आतम सोल
सिमरणीने ॥ भ० ॥ ६ ॥ विक्रम उन्नीसौ अ-
डसठमे, आश्विनमास सुवरणीने ॥ भ० ॥ ७ ॥
एकादशी बुधवार सुग्रोगे, नवपद ध्यान सुधर-
णीने ॥ भ० ॥ ८ ॥ विजयकमलसूरि उवझाया,
वीर विजय अनुसरणीने ॥ भ० ॥ ९ ॥ कांति-
विजय प्रवर्त्तक सोहे, धर्मपसाय सुखभरणीने
॥ भ० ॥ १० ॥ वल्लभसूत्र विरुद्ध जो भासे,
मिथ्या दुष्कृत वरणीने ॥ भ० ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीनंदीश्वरद्वीपपूजा ॥

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवे प्रकारकी पूजा. ३९३

॥ निन्यानवे प्रकारकी पूजा ॥



॥ अथ प्रथमा पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री शंखेश्वर पासजी, प्रणभी शुभ गुरु पाय ।
विमलाचल गुण गाइसुं, सिमरी सारद माय॥१
अकसर यह गिरि शाश्वता, महिमाका नहि पार ।
प्रथम जिनंद समोसरे, पूर्व निन्यानवे बार ॥२
अढाइ द्वीपमें इण समा, तीरथ नही फलदाय ।
कलयुग कल्पतरु मिला, मुक्ताफलसे वधाय॥३॥
यात्रा निन्यानवे जो करे, उत्कृष्टे परिणाम ।
पूजा निन्यानवे भेद से, करते अविचल धाम॥४॥
नव कलशे अभिषेक नव, इम एकादश बार ।
पूजा पूजा फूल फल, आदि निन्यानवे सार॥५॥

(तलंग, कइरवा, चाल-दहींवालीका तौर दिखाना.)

करिए यात्रा निन्यानवे वारी, नमिए प्रभु
प्रभु सुखकारी ॥ करिए यात्रा० अंचली ॥ लख

॥ अथ एकादशी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जिन पडिमा कर्म भूमिमें, अशाश्वती जग जेह।
पद पंकज नमु तेहना, होवे पापका छेह ॥१॥

(चाल नाटक आशकतो हो चुका हू)

पूजा प्रभुकी करता, जग पुण्यवंत प्रानी
॥ पू० अं० ॥ प्रभु पूजा फल सुक्ति, आगम
जिन युक्ति । भविजीव मन मानी, जग पुण्य-
वंत प्रानी ॥ पू० १ ॥ सुर पूजे चउ प्रकारी,
तिम पूजे नर नारी । वसु द्रव्य शुभ आनी,
जग पुण्यवंत प्रानी ॥ पू० २ ॥ सिद्धिगिरि तीर्थ
सेवो, चउद क्षेत्रमें न एहवो । सीमंधर जिन
वानी, जग पुण्यवंत प्रानी । पू० ३ ॥ गिर-
नार स्वामी नेमि, पूजो जिनद प्रेमी । जस
ध्यान पाप हानि, जग पुण्यवंत प्रानी ॥ पू० ४ ॥
आतम लक्ष्मी स्वामी, पूजक शिव धामी ।
चल्लभ हर्ष जानी, जग षुण्यवंत प्रानी ॥ पू० ५ ॥

॥ देहा ॥

आबू ऋषभ जिनंदजी, नेमिनाथ भगवान् ।
पूजो भवि शुभ भावसे, अजर अमर सुख खाना॥१

(इमन, कल्याण, कहरवा, चाल-होड़ आनंद बहाररे.)

तीरथ तारन हाररे, भवि पूजो आनंदे ।
समेत शिखर मोक्षे गएरे, वीस जिनंद सुख
काररे ॥ भ० प० ॥ १ ॥ आदीश्वर अष्टापदेरे,
वरिया शिव वधू साररे ॥ भ० ॥ २ ॥ इत्यादि
तीरथ मन रंगे, पूजो मंगल काररे ॥ भ० ॥ ३ ॥
ध्याता भविजन निश दिन ध्यावो, ध्येय प्रभु
हितकाररे ॥ भ० ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी निज
घट प्रगटे, वल्लम हर्ष अपाररे ॥ भ० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।



॥ कलश ॥

(दुमरी-चाल-मन मौहा जणलकी हस्तीने.)


भवि वंदो प्रभु जग तरणिने ॥ अंचली ॥
नंदीश्वर तीरथ मैं गायो, तीरथ पार उतरणिने

॥ भ० ॥ १ ॥ जंघा विद्या चारण मुनिवर, सु-
रवर संघ विचरणीने ॥ भ० ॥ २ ॥ स्नात्र करी
पूजी सुर नाचे, गावे मोह विदरणीने ॥ भ० ॥
३ ॥ तपगच्छपति विजयानंद सूरि, लमीवि-
जय अघ हरणीने ॥ भ० ॥ ४ ॥ हर्षविजय तस
किंकर वल्लभ, रचना मीयागाम करणीने ॥ भ०
॥ ५ ॥ संवत् वीर चउवीसौ सेंती, आतम सोल
सिमरणीने ॥ भ० ॥ ६ ॥ विक्रम उन्नीसौ अ-
डसठमे, आश्विनमास सुवरणीने ॥ भ० ॥ ७ ॥
एकादशी बुधवार सुग्रोगे, नवपद ध्यान सुधर-
णीने ॥ भ० ॥ ८ ॥ विजयकमलसूरि उवज्ञाया,
वीर विजय अनुसरणीने ॥ भ० ॥ ९ ॥ कांति-
विजय प्रवर्त्तक सोहे, धर्मपसाय सुखभरणीने
॥ भ० ॥ १० ॥ वल्लभसूत्र विरुद्ध जो भासे,
मिथ्या दुष्कृत वरणीने ॥ भ० ॥ ११ ॥



विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा. ३९३

॥ निन्यानवें प्रकारकी पूजा ॥



॥ अथ प्रथमा पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री शंखेश्वर पासजी, प्रणमी शुभ गुरु पाय ।
विमलाचल गुण गाइसुं, सिमरी सारद माय॥१
अकसर यह गिरि शाश्वता, महिमाका नहि पार ।
प्रथम जिनंद समोसरे, पूर्व निन्यानवे वार ॥ २
अढाइ द्वीपमें इण समा, तीरथ नही फलदाय ।
कलयुग कल्पतरु मिला, मुक्ताफलसे वधाय॥३॥
यात्रा निन्यानवे जो करे, उत्कृष्टे परिणाम ।
पूजा निन्यानवे भेद से, करते अविचल धाम॥४॥
नव कलशे अभिषेक नव, इम एकादश वार ।
पूजा पूजा फूल फल, आदि निन्यानवे सारा
(तलंग, कहरवा, चाल-दर्हीवालीका तौर दिखाना.)

करिए यात्रा निन्यानवे वारी, नामिए
प्रभु सुखकारी ॥ करिए यात्रा० अंचली ॥

नवकारका जाप जपी जे, दो तेले सत बेले ।
रथयात्राकी शोभा सारी, नमिए प्रभु प्रभु सु-
खकारी ॥ १ ॥ परिकरमा पूजा करनेसे, शुभ
भावे सुख पावे । जपे वार प्रभुको हजारी, न-
मिए प्रभु प्रभु सुखकारी ॥ २ ॥ नवण विले-
पन धूप दीप फल, फूल खरे भूल टरे । अक्षत
नैवेद्यकी विधि सारी, नमिए प्रभु प्रभु सुखका-
री ॥ ३ ॥ आठ अधिक शत दुंक मनोहर,
मोटी आति देवे रति । मिल सत दश ऊपर
चारी, नमिए प्रभु प्रभु सुखकारी ॥ ४ ॥ शत्रुं-
जयगिरि नाम पहेली, दुंक भली रंग रली ।
सेवे निशादिन मिल नर नारी, नमिए प्रभु
प्रभु सुखकारी ॥ ५ ॥ सहस अधिक अठ मु-
निवर साथे, बाहुबली कर्म दली । शुभ वीर
विजय बलिहारी, नमिए प्रभु प्रभु सुखकारी ॥ ६ ॥

(ताल, कवाली, चाल-मुजरा नितकरना नितकरना.)

यात्रा नित करिए नित करिए । प्रभु आदि
जिनद अनुसारिए ॥ यात्रा० ॥ १ ॥ बाहुबली

दुंक नाम है दूजा । मरु देवी नाम सिमरिए ॥
 यात्रा० ॥२॥ पुंडरिक गिरि पांच कोडि मुनिवर
 सिञ्चि वधु जिहां वरिए ॥ यात्रा० ॥३॥ पांचमी
 दुंक रैवतगिरि नामे । विमलाचल दिल धारिए
 ॥ यात्रा० ॥ ४ ॥ सिञ्चराज भगीरथ प्रणमी ।
 सिञ्च क्षेत्र पग परिए ॥ यात्रा० ॥ ५ ॥ छः री
 पाली इण गिरि आकर । जनम पवित्र करिए
 ॥ यात्रा० ॥ ६ पूजा करी निज कारज साधी ।
 वीर विजय पद वरिए ॥ यात्रा० ॥ ७ ॥

। काव्य तथा मंत्र

गिरिवरं विमलाचल नामकं, ऋषभ मुख्य
 जिनांशि पवित्रितम् । हृदि निवेश्य जलैर्जिन
 पूजनं, विमल भाष्य करोमि निजात्मकम् ॥१॥
 ॐ हीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा
 मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय जलादिकं
 यजामहे स्वाहा ॥

३९६ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा.

॥ अथ द्वितीया पूजा ॥

॥ दोहा ॥

कदम कदम शुभ भावसे, गिरि सन्मुख उजमाल
कोडी सहस भवके किए, पाप कर्टे ततकाल ॥१॥

(कवाली, गजल. चाल-आशकतोहोचुकाहूँ.)

गिरिराज दर्श पावे, जग पुण्यवंत प्रानी ।
अं० ॥ ऋषभदेव पूजा करिए, संचित कर्म हरिए
गिरि नाम गुणखानी ॥ जग पुण्य० ॥ १ ॥
सहस्र कमल सोहे, मुक्ति निलय मोहे । सिद्धा-
चल सिद्धठानी ॥ जग पुण्य० ॥ २ ॥ शतकूट
ढंक कहिए, कदंब छाह रहिए, कोडी निवास
मानी ॥ जग पुण्य० ॥ ३ ॥ लोहित तालध्वज
ले, ढंकादि पांच भज ले । सुर नर मुनि कहानी
॥ जग पुण्य० ॥ ४ ॥ रतन खान बूटी, रस
कूंपिका अखूटी । गुरुराज मुख वखानी ॥ जग
पुण्य० ॥ ५ ॥ पुण्यवंत प्रानी पावे, पूजे प्रभुको
भावे । शुभ वीर विजय वानी ॥ जग पुण्य० ६

३९८ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानन्दे प्रकारकी पूजा.

॥ अथ तृतीया पूजा ॥

॥ दोहा ॥

नेमि विना तेइस प्रभु,आए विमल गिरिंदि ।
भावि चौवीसी आवसी, पद्मनाभादि जिनंद॥१॥

(खमाच ॥ चाल-मानमदनमनसे परिहरता.)

सिद्धागिरि दर्शन भवि करता, करी करम
चकचूर सिद्धागिरि दर्शन भावि करता॥अंचली ॥
काम क्रोधकी तपत मिटावे, अमृत घनझरता ।
नरक वैतरणी कुमाति नासे, दुर्गति नहीं गिरता ॥
करी० १ ॥ पुण्यराशि महाबल गिरिधारी,
हृषकशक्ति भरता । शतपत्तर विजयानंद सेवी, भव
समुद्र तरता ॥ करी० २ ॥ भद्रंकर महापीठ
कहावे, सुरगिरि मन हरता । महागिरि महापु-
ण्य जोर, नजेरे मुझको परता करी० ३ ॥
अस्सी योजन मान पहिले, आरे में धरता ।
सित्तर साठ पचास योजन अब बार योजन
फिरता ॥ करी० ४ ॥ छडे आरे सात हाथका,
मान धारण करता । पांचमें आरे पाय के दुर्लभ

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानन्दे प्रकारकी पूजा. ३९९

निज आतम ठरता ॥ करी० ॥ ५ ॥ रख चिं-
तामणि नरभव पाकर, जनम सफल भविजन
करता । पुण्य उदय मन सुमति आके, वीरको
अनुसरता ॥ करी० ॥ ६ ॥

(सींधडा—कहरवा-चाल-तेरी भक्तिछोड सदगुरु.)

सिद्धगिरे, तीरथ जैसा और नहीं धाम है ।
और नहीं धाम है, और नहीं धाम है । सिद्ध० अं०
अनादि अनंत वीता, काल नहीं काम जीता ।
अब तो तूं चेत् प्राणी, यहीं तेरा काम है ॥ सि० १
तनिक तमीज करना, क्रोध लोभ दूर हरना ।
मान माया त्याग तेरा, मुक्तिमें मुकाम है॥सि० २
रातने दिवस पूरे, किए रहे काम अधूरे ।
मनले अब कहना तारक, देवगुरु नाम है॥सि० ३
जीवाजून लाख चार, अस्सी फिरियो वारधार ।
महापुण्य उदय पायो, नर भव नहीं दाम है॥४॥
हार नहीं जीतीबाजी, चाहता है रहना राजी ।
राग द्विष काट प्यारे, तुंहि आतमराम है॥सि० ५

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानमें प्रकारकी पूजा. ३९९

निज आत्म ठरता ॥ करी० ॥ ५ ॥ रत्न चिं-
तामणि नरभव पाकर, जनम सफल भविजन
करता । पुण्य उदय मन सुमति आके, वीरको
अनुसरता ॥ करी० ॥ ६ ॥

(संधिं—कहरवा-चाल-तेरी भक्तिछोड सदगुरु.)

सिद्धगिरे, तीरथ जैसा और नहीं धाम है ।
और नहीं धाम है, और नहीं धाम है । सिद्ध० अं०
अनादि अनेत वीता, काल नहीं काम जीता ।
अब तो तूं चैत्र प्राणी, यहीं तेरा काम है ॥ सि० १
तनिक तमीज करना, क्रोध लोभ दूर हरना ।
मान माया त्याग तेरा, मुक्तिमें मुकाम है॥ सि० २
रातने दिवस दूर, किए रहे काम अधूरे ।
मनले अब कहना तारक, देवगुरु नाम है॥ सि० ३
जीवाजून लाख चार, अस्सी फिरियो वारवार ॥
महापुण्य उदय पायो, नर भव नहीं दाम है॥ ४॥
हार नहीं जीतीबाजी, चाहता है रहना राजी ।
राग/द्वष काट प्यारे, तुंहि आत्मराम है॥ सि० ५

४०० विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानन्दे प्रकारकी पूजा.

जब मिले कारण निमित्त, शुद्ध होवे कारज त्रित्त ।
जीव मान तीरथ शुभ, वीर पद ठाम है सि० ६
। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ चतुर्थी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

शत्रुंजी नदी न्हायके, मुख बांधी मुख स्तुकास ।
देव युगादि पूजिये, लाकर मन संतो मृगस ॥ १ ॥

(चाल नाटक-तेरिगमका तराना दादि त्वि-)

विमलाचल धारा, मल हरि भृष्म
देव भगवान् । प्रभु सुख करनारा गिरितारा, कृष्म
सब जग प्यारा कृष्म० ॥ अंचल सेवी, हरनारा,
संपिणी काल में रे, किया प्रथम उर महार्पा अवस-
चक्री दूजा कियारे, दंडवीर्य सुखकार रि महापुर भरत
कृरनारा, दुःख हरनारा, सब जग प्य० ॥ ३ ॥ सुख
देवभगवान् ॥ १ ॥ सीमिंधर वचने सुनीर परता कृष्म
किया उछार । ईशान इंद्रने सुख लियारे गोजे, तीजा
भवजल पार । प्रभु सुख करनारा, दुःख हरन का पाया
म-रा,

सब जग प्यारा कृषभदेव भगवान् ॥ २ ॥ को-
डि सागरके अंतरे रे, उच्चार चौथा करंत ।
माहिंदर देव लोक का रे स्वामी पुण्य भरंत ।
प्रभु सुख करनारा, दुःख हरनारा, सब जग
प्यारा कृषभदेवभगवान् ॥ ३ ॥ पंचम पंचम
शब्दीपति रे, किया उच्चार आनंद । सागर दस
कोडि पीछे रे, पामिया आनंद कंद । प्रभु सुख
करनारा, दुःख हरनारा, सब जग प्यारा कृष-
भदेवभगवान् ॥ ४ ॥ एक लाख कोडि गण रे,
सागर छट्ठा उच्चार । चमरेंद्रने किया भावसे रे,
निज आत्म लिया तार । प्रभु सुख करनारा,
दुःख हरनारा, सब जग प्यारा कृषभदेवभगवा-
न ॥ ५ ॥ उच्चार किया सातमा रे, चक्री सगर
नरेंद्र । तीर्थ अपूरव सेविए रे, श्रीशुभ वीर-
जिनेंद्र । प्रभु सुख करनारा, दुःख हरनारा, सब
जग प्यारा कृषभदेवभगवान् ॥ ६ ॥

(जंगला, ठेका पंजावी, चाल-आज वधाई प्यारे)

विमल गिरि ध्यावो प्यारे, विमलगिरि

ध्यावो प्यारे, ध्यानसे शिव सुखफल पावो वि-
मल० । अंचली । आठमा व्यंतरेद्वने कीना, शि-
वरमणी वधूमें चित्त दीना । धर्म में भीना,
प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ १ ॥ किया श्रीचंद्र प्र-
भुके वारे, चंद्रजसा नृपने दुःख टारे । चैत्य स-
मारे, प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ २ ॥ पुत्र श्रीशां-
ति जिनंदका जानो, दशमा उद्धार किया तस
मानो । हर्ष दिल आनो, प्यारे ध्यानसे शिव०
॥ ३ ॥ ग्यारमा रामचंद्रने कीना, बारमा पांड-
वने चित दीना । शिव सुख लीना, प्यारे ध्या-
नसे शिव० ॥ ४ ॥ महानंद कर्मसूदन कैलासा,
पुष्पदंत जयंत आनंदवासा, पूरे मन आसा,
प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ ५ ॥ श्रीपद हस्तगिरि
मन लावो, शाश्वतसुख परमपद पावो, वीर गुण
गावो, प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ ६ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ पंचमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

चौथे आरे ए हुए, सब मोहटे उछार । छोटे
द्वितीय बिचमें हुए, जिनका नहीं है पार ॥ १ ॥

(इमनकल्याण,—कहरवा, चाल—होई आनंद बहार.)

तीरथ जग जयकार रे, भवि भेटो प्रभुको
३। ती० अंचली ॥ प्रभु दर्शनसे पाप पणासे,
फिरना मिटे संसार रे ॥ भवि ॥ १ ॥ संवत इ-
कसौ आठमें कीना, जावड शाहने उछार रे ॥
भवि ॥ २ ॥ बारसौ तेरां विक्रम संवत, वंश
श्रीमाली सार रे ॥ भवि ॥ ३ ॥ चौदमा बाहड
मंत्रिने कीना, लीना नरभव सार रे ॥ भवि ॥ ४ ॥
इंदु ऋषि शिखि चंद्रके वर्षे, समराशाह ओस-
वार रे ॥ भवि ॥ ५ ॥ पंदरमा उछार करीने,
निज आतम लिया तार रे ॥ भवि ॥ ६ ॥ ऋ-
षि वसु बाण इंदु शुभवर्षे, कर्माशाह उछार रे ॥
भवि ॥ ७ ॥ वर्तमान शासन जयवंता, वीर वचन
जयकार रे ॥ भवि ॥ ८ ॥

४०४ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा।

(असाउरी-कहरवा, चाल-करुं मै क्या तुझविन बागवाहार)

ऋषभ प्रभु भव जल पार उतार ॥ क्र० ॐ
चली ॥ आप प्रतापे गिरीवर दीपे, झगमग ज्यो-
ति सार । क्र० १ ॥ श्रीजिन वीर शासन जय-
वंतुं, वर्ष इक्कीस हजार ॥ क्र० २ ॥ उदय तेझ-
समें होंगे सूरीसर, श्रीदुप्पसह अनगार क्र० ॥
३ ॥ उनका उपदेशामृत पीके, विमलवाहन भू-
पार ॥ क्र० ४ ॥ करावेगा शुभ भावसे गिरिका,
आखिरका उछार ॥ क्र० ५ ॥ भव्यगिरि सि-
द्धशेखर महाजस, मालवंत सिरिकार ॥ क्र० ६ ॥
षुर्थरीषीठ दुखहर गिरि मुक्ति, राज मणिकंत
मनोहार ॥ क्र० ७ ॥ मेरु महीधर नाम सिम-
रिए, वीर वचन सुखकार ॥ क्र० ८ ॥

काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानर्वे प्रकारकी पूजा. ४०५

॥ अथ षष्ठी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सिद्धाचल सिद्धि वरे, गृही मुनि भेष अनंत ।
आगे अनंता सीझसी, पूजो भवि भगवंत ॥ १ ॥

(सोहनी, कवाली, चाल-रांजा मेरा किथेनी गया)

दुँड़ फिर जग सारा जग सारा सिद्धगिरि
सानी ना मिला । अंचली । दिल दर्शनको चाह
रहा है । देख देख मन मोह रहा है ॥ किए
दर्शन सुखकारा सुखकारा ॥ सिद्ध० ॥ १ ॥
ऋषभ जिनंदकी पडिमा सोहनी । भरत बनाइ
मानो मंतर मोहनी । रतन मान चमकारा च-
मकारा ॥ सिद्ध० ॥ २ ॥ चक्री सगर सुर दिलमें
धारी । दुष्म कालमे भावी विचारी । विंब गुफामें
जा पधारा जा पधारा ॥ सिद्ध० ॥ ३ ॥ देव देवी
पूजनको आते । ठाठ बना साँइ गुण गाते ।
जय जय शह उच्चारा उच्चारा ॥ सिद्ध० ॥ ४ ॥
देव देवी मिल नाटक करते । गीत गाने कर-

४०६ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा,
पापको हरते । वीर वचन हितकारा हितकारा
॥ सिद्ध० ॥ ५ ॥

(जंगला-कहरवा, चाल, मनमोहा जंगलकी हरणीने ।)

भवि पूजो प्रभु जग तरणीने, भ० ॥ अं-
चली ॥ जिन गुण-अमृत पानको करके, जन्म
सफल निज करणीने ॥ भवि० ॥ १ ॥ या रीति
भक्ति मग्न सुरसंघा, जन्म जन्म दुःख हर-
णीने ॥ भवि० ॥ २ ॥ देव मदद नर दरस करे
जो, भव तीजे शिव वरणीने ॥ भवि० ॥ ३ ॥
पश्चिम दिशि सुवर्ण गुफामें, कंचनगिरि नाम
धरणीने ॥ भवि० ॥ ४ ॥ आनंदघर पुण्यकंद
जयानंद, पातालमूल विहरणीने ॥ भवि० ॥ ५ ॥
विभास विशाल जगतारण अकलंक, तीरथ पार
उतरणीने ॥ भवि० ॥ ६ ॥ ज्ञान विवेकसे प्रभुको
पिछानी, वीर वचन अनुसरणीने ॥ भवि० ॥ ७ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ अथ सप्तमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

नमि विनमी विद्याधरा, दोय कोडि मुनिराय ॥
साथ हि सिद्धिवधू वरे, शत्रुंजय सुपसाय ॥ १ ॥
॥ लावणी, कहरवा, चाल-पार्वतीका पति ॥

सर्व तीरथमें मोहटा तीरथ, श्रीशत्रुंजय
प्यारा रे ॥ शुद्ध मन वच कायासे सेवे, सो पावे
निस्तारा रे ॥ सर्व० १ ॥ आशा धरि आवे भवि
प्राणी, सो पावे सुख भारा रे ॥ दूरभवी अभवी
नही आवे, शुभ भावे धिक्कारा रे ॥ सर्व० २ ॥
चौसठ नमि खेचर पुत्री मिल, कङ्गभ चरण
चित्त धारारे ॥ हाथ जोड विनवे प्रभु आगे,
सुंदर वचन उचारा रे ॥ सर्व० ३ ॥ नमि वि-
नमि जे पुत्र तुमारे, जिन जाने जग सारारे ॥
दीन दयाल दया कर दीना, राज्य भाग हित-
कारा ॥ सर्व० ४ ॥ बाह्य राज्य भोगी प्रभु पासे,
आकर काज सुधारा रे ॥ हम भी तातजी सा-
धसुं कारज, लेकर आप सहारा रे ॥ सर्व० ५ ॥

३०८ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा.

इम कहती सिद्धगिरि पर चढती, त्यागा सब
ही आहारा रे ॥ वीर विजय मिल ज्योति में
ज्योति, आवागमन निवारारे ॥ सर्व० ॥ ६ ॥

(भैरवी, कहरवा, शा कवाली, चाल-अवतो प्रभुजीकालेलो सरन)

ए हैं तीरथ जग तारन तरन ॥ अंचली ॥
ऋषभ जिने श्वर जग परमे श्वर, पूजा करो मिटे
जनम मरन ॥ ए० ॥ १ ॥ एक अवगाहने सिद्ध
अनंता, ज्ञान दरस दो क्षायक धरन ॥ ए० ॥ २ ॥
अकर्मक महातीरथ हिमगिरि, अनंतशक्ति प्रभु
पूजक वरन ॥ ए० ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम और पर्वत
राजा, ज्योतीरूप भवि जीवि करन ॥ ए० ॥ ४ ॥
विलासभद्र और समुद्र नामा, सुन सुन मन भवि
जीव ठरन ॥ ए० ॥ ५ ॥ श्री शुभ वीर प्रभु
अभिषेके, पाप पुंज सब दूर हरन ए० ॥ ६ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ अष्टमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

द्राविड वारिखिल्लजी, दसकोडि अणगार ।
साथ हि सिद्धि वधू वरे, वंदो वारं वार ॥ १ ॥

(मैरवी-चाल नाटक-हेजी तेरे दरदे हिजरने रुताया.)

सिद्धगिरि दर्शनको जिया ललचाया, प्यारा तुहीं,
सुखकारा तुहीं, जगतारा तुहीं, जिनराया ॥ अं० ॥
भरत के पाटे भूपति, सिद्धि वरे इस ठाम ।
असंख्याता इस कारणे, सिद्धक्षेत्र जग नाम ।
हेजी हुए अजित जिने श्वर राया प्यारा ० १ ॥
जिम जिम ए गिरि सेविए, तिम तिम पाप पलाया।
अजित जिने श्वर साहिबा, रहे चौमासा आय ।
हेजी सिद्धगिरि तीरथ सुखदाया ॥ प्यारा ० २ ॥
सागर मुनि इक कोडिसुं, तोडी कर्म के पास ।
पांच कोडि मुनिराजसुं, भरत लिया शिव वास ।
हेजी धन्य धन्य ऐसे मुनिराया ॥ प्यारा ० ३ ॥
आदी श्वर उपगार से, दस सत कोडि साथ ।

४१० विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा.

अजितसेन विमलाचले, पकडा शिव बधु हाथा
हेजी प्रभु चरण कमल मन लाया ॥ प्यारा ० ४ ॥
अजितनाथ मुनि चैत्रकी, पूनम दश हजार ।
आदित्ययशा मुक्ति गए, एक लाख अणगार ।
हेजी शुभ वीरविजय गुण गाया ॥ प्यारा ० ५ ॥

(चाल अग्रेजी वाजाकी ताल दाढ़रा—रागणी पीलो)

तीरथ सिद्धगिरि जग सार सार सार ।
निमित्त शुद्ध भाव का पियार सुखकार ॥ १ ॥
आदि जिनंद चंद पद धार धार धार । सेवत
सूर चंद इंद बृंद नर नार ॥ २ ॥ अजरामर
नाम जप वार वार वार । क्षेमंकर अमरकेत
गुणकंद भवतार ॥ ३ ॥ सहस्र पत्र डाल गले
हार हार हार । शिवंकरु जनम मरण दुःखको
निवार ॥ ४ ॥ कर्मक्षय तमोकंद यार यार यार ।
राजराज ईश्वर है नाम मंगलकार ॥ ५ ॥ गि-
रिवर धूर शिर चार चार चार । चक्रवर्ती भूप
वार वार वलिहार ॥ ६ ॥ आदि देव पूज कर्म

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा। ४१६

जार जार जार। शुभवीर साहिबा तुं हि आ-
नंदके दातार ॥ ७ ॥

मंत्र-काव्य-पूर्ववत् ।

—
॥ अथ नवमी पूजा ॥
॥ दोहा ॥

राम भरत त्रय कोडिसुं, कोडि मुनि श्रीसार।
कोडि साढे आठ शिववरे, शांबप्रद्युम्नकुमार ॥ १४

(वरवा, ताल कहरवा-चाल-मजा देते है क्या....)

धनधन वो जगमें नरनार, विमलाचलके
जानेवाले ॥ धनधन० अंचलि ॥ सिद्धाचल शि-
खर निहार, आर्दीश्वर प्रभुको जुहार, ॥ मानो
दर्शन अमृत धार, भवि मुक्तिके जानेवाले ॥ ध०
३ ॥ शिव सोम जसाके लार, तेराँ कोटि मुनि
परिवार ॥ हुए शिव सुंदरी भरतार, प्रभुके ध्यान-
लगानेवाले ॥ ध० २ ॥ लाख एकानवे साथ,
भए नारदजी शिर नाथ ॥ लंघे झटपट भवज-

३१२ विविध पूजासग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा.

लपाथ, सदा प्रभुगुणके गानेवाले ॥ ध० ३ ॥
बसुदेव भूपकी नार, हुइ सिद्ध पैतीस हजार॥ दिया
आवागमन निवार, सदा शिवफलके पानेवाले
॥ ध० ४ ॥ एक कोडी बावन लाख, सहस च-
चावन उपर आख ॥ सातसौ सतत्तर ले दाख,
नहीं धोखाके खानेवाले ॥ ध० ५ ॥ किया शां-
तिनाथ चौमास, हूए तब ए सब शिव वास ॥
शुभ वीरविजय कहे खास, प्रभु हैं पार लगा-
नेवाले ॥ ध० ६ ॥

(सोरठ-चाल-कुवजाने जादू डारा)

सिद्धगिरिने जादू डारा । मेरा मोह लिया
तनमन सारा ॥ सि० अं० ॥ आदिजिनेसर आ-
दिनरेसर, आदिमुनिसर प्यारा ॥ नाभिनंदन
भवदुख भंजन, रंजन भवि सुखकारा ॥ सि० १
चउदां सहस दमितारि संगे, शिवरमणी भर-
तारा ॥ प्रद्युम्न प्रिया अचंभी राणी, पहुंची
मोक्ष मझारा ॥ सि० २ ॥ चौतालीससौ साथ

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवें प्रकारकी पूजा. ४१३

वैदरभी, थावच्चापुत्र हजारा ॥ शुक परिवाजक
सेलंग पणसय, सुभद्र सतसौ धारा ॥ सि० ३ ॥
भवतारण तिस कारण नाम है, भवतारण उ-
चारा ॥ गजचंद्र महोदय सूरकांत अरु, अचल
अभिनंद तारा ॥ सि० ४ ॥ सुमति श्रेष्ठ अभ-
यकंद मानो, सरधा विन नहीं चारा ॥ वीरवि-
जय प्रभु हुकमसे होवे, भवोदधि पार उतारा
॥ सि० ५ ॥

काव्य-मंत्र-पूर्ववर्त

॥ अथ दशमी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

कदंब गणधर कोडीसु, और संप्रति जिनराज ॥
थावच्चा तस गणधरु, सहस्र सुं संधे काज ॥१॥
(जोग ठेका चाल-अरे नर तरने को तेरे धर्मवेदा बनाया है)

तीरथ सिद्धगिरिके दर्शन, नसीबां वर भवि-
पावे । तीरथ० ॥ शरत जो दर्श को जावे, नरक

४१४ विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवे प्रकारकी पूजा.

तिरयंच नहीं थावे ॥ भवी वो जानो निश्चयसे,
धनेसर सूरि फरमावे ॥ ती० १ ॥ गए मुक्ति
केइ साधु, जिनों के नाम जग गावे ॥ मयालि
जाली उपजाली, परमपद मोक्षको पावे ॥ ती०
२ ॥ नंदन है देवकी माइ, निजातम शुद्ध मन
ध्यावे ॥ करी क्षय कर्म उजियारा, हुआ ब्रह्म-
ज्ञान शिव जावे ॥ ती० ३ ॥ उज्जलिगिरि महा
पदम जानो, विश्व आनंद जग पावे । विजयभद्र
इंद्र परकासो, कपर्दि मान गढ ढावे ॥ ती० ४ ॥
निकेतन मुक्ति केवलदा, वर्च गिरि तीर्थ गुण
गावे ॥ अटल अज रूपको साधे, कहे शुभ वीर
शुद्ध भावे ॥ ती० ५ ॥

(रागर्णी—कलिंगडा—ताल—कहरघा)

क्यों रुलता संसार तीर्थ है तेरे तरनेको ॥
क्यों० अंचली ॥ तन मन धनसे कर प्रभु पूजा,
क्रिया एक कर ज्ञान है दूजा ॥ रात दिवस ले
यकड चरन प्रभु पार उतरनेको ॥ क्यों० १ ॥

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यातव्र प्रकारकी पूजा. ४१५

शुकराजा निज राज विलासी, ध्यान धरे जाकर छै मासी ॥ द्रव्य सेवनसे चंद्राज मिट गयो भय मरनेको ॥ क्यों० २ ॥ ध्याता ध्यान ध्येय पद होवे, भावसे त्रिपदी शिवफल ढोवे ॥ डाल छोड लग बह्म जाण नर शिवपुर चरनेको ॥ क्यों० ३ ॥ मूल उरध अध शाखा चारो, छंद पूरणको मनमें विचारो ॥ इंद्रिय डाल पात विषयोंके उद्यम छरनेको ॥ क्यों० ४ ॥ अनुभव अमृत ध्यान की धारा, जिनशासन जग में जयकारा ॥ चार दोष किरियाको त्यागो योगके करनेको ॥ क्यों० ५ ॥ निर्जरतो गुण श्रेणि चढकर, ध्यानांतर पावे तब जाकर ॥ श्रीशुभ वीर वचन सिद्धगिरि शिवसुंदरी वरनेको क्यों० ६

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ अथ एकादशी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

शत्रुंजय गिरि मंडनो, मरुदेवाको नंद ।
युगलाधर्म निवारको, नमो नमो आदिजिनंद ॥१

(रागणी—जंगला—ताल—ठेका)

सिद्धगिरि तीरथ प्यारा । तुंहि जग हित करतारा ॥
चरणोंमे मस्तक धारा । सहस आठ वारजी॥सि०१
तीरथ वे अद्वी वारी । भक्ति कर सूत्रानुसारी॥
झटपट होवे पारी । छुटदा संसारजी ॥सि०२॥
तेरी जो वे अद्वी करता । नरक निगोद परता॥
दुःखका भंडार भरता । छुटना दुश्वारजी॥सि०३
आशातना से धन हानि मूखा न मिले अन्नपानी ॥
देह सारी रोग भरानी । जावे जनम हारजी ॥सि०४
परभव परमाधामी । हाथ सेती दुःख पामी ॥
नहीं कोइ रहती खामी । को न मद्दगारजी॥सि०५
आशातना त्यागो प्यारे । चरणकमल सुखकारे ॥
जिन आज्ञा सीस धारे । होवे भव पारजी॥सि०६

विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानवे प्रकारकी पूजा। ४१७

सिद्धगिरि तीरथ जावे । शुद्ध मन गुण गावे ॥
आतम आनंद थावे । कहे वीर सारजी ॥ सि० ७

(इमन कल्याण-चाल—दिल किंसुसे लगा चुके हैं)

उक्तम तीरथ सिद्धगिरि जावो । छिनमें क-
ठिन करम खपावो ॥ उ० ॥ इस तीरथकी म-
हीमा भारी । कथन करत नहिं आवे पारी ।
सुर नर मुनि पति सब गए हारी । मान तजी
भवि सीस नमावो ॥ उ० १ ॥ पूर्व निन्यानवे
नाथजी आए । साधु बहुत यहाँ मोक्ष सिधाए
श्रावक भी शुभ भावसे पाए । मोक्ष भजी गि-
रि नाम सभावो ॥ उ० २ ॥ अष्टोक्तर शत कूट
सुधामा । सौंदर्य यशोधर नामा । प्रीति मंडन
शुभ कामुक कामा । सहजानंद सहज गुण गा-
वो ॥ उ० ३ ॥ महेंद्रध्वजा सर्वारथ सिद्धा ।
प्रियंकर जग नाम प्रसिद्धा । गिरि शीतल छांह
कारज कीधा । ध्यान धरी शिवपुर को धावो ॥
उ० ४ ॥ पूजा निन्यानवे भेदसे कीजे । मनुष्य

जन्मका लाहा लीजे । दान सुपात्तर मे नित
दीजे । आतम शुभ परिणाम चढावो ॥ उ०-५
तीर्थ सेवासे शिव सुख थावे । आतम लक्ष्मी
हर्ष धारि पावे । कमल कांति वल्लभ मन भावे ।
वीर शरण अपने मन लावो ॥ उ०-६ ॥

॥ कलश ॥

(रागणी पहाड़ ताल अढाइ)

आज वधाइयाँ गावोजी श्री श्री सिद्धाच-
ल दरबार—आज वधाइयाँ ॥ अ० ॥ विमलाच-
ल बडा—गावोजी तीरथ मेरु शैल मझार । आ-
ज वधाइयाँ ॥ १ ॥ जिनवर मानीये, गावोजी
मुनिगण संघमें सरकार । आज वधाइयाँ ॥ २ ॥
निन्यानवे जे करे, गावोजी यात्रा पावे भवद्-
धि पार । आज वधाइयाँ ॥ ३ ॥ अठाराँ चो-
रासिए, गावोजी कीना वीर विजय विस्तार ।
आज वधाइयाँ ॥ ४ ॥ जन हित कारणे, गा-
वोजी हिंदी भाषा मांही प्रचार । आज वधाइयाँ

त्रिविधि पूजासंग्रहे श्री निन्योन्त्रे प्रकारकी पूजा। ४१९

का ५ ॥ तपगच्छ दिनमणि, गावोजी विजयानंद
सूरि उपकार । आज वधाइयाँ ॥ ६ ॥ तिनके
पाटपर, गावोजी सूरि कमलविजय सरदार ॥
आज वधाइयाँ ॥ ७ ॥ उपाध्याय दीपते, गा-
वोजी श्रीमुनि विरविजय उदार । आज वधा-
इयाँ ॥ ८ ॥ प्रवर्तक पद धरे, गावोजी श्रीमु-
नि कांति विजय श्रीकार । आज वधाइयाँ ॥ ९ ॥
इनके राज्यमें, गावोजी रचना बनी मंगलकारा
आज वधाइयाँ ॥ १० ॥ इंदु शिखि युग युगल,
गावोजी संवत् वीरजिन जयकार । आज वधा-
इयाँ ॥ ११ ॥ आतम मानिए, गावोजी संवत्
दश विक्रम धारे । आज वधाइयाँ ॥ १२ ॥ उ-
च्चीसौ बासठा, गावोजी आश्विनमास सुदि शु-
भेकार । आज वधाइयाँ ॥ १३ ॥ तिथि शुभ
पूर्णिमा, गावोजी रचना पूर्ण हुई कविवार ।
आज वधाइयाँ ॥ १४ ॥ श्रीविजयानंदसूरि, गा-
वोजी श्रीलक्ष्मीविजय अणगार । आज वधा-

४२० विविध पूजासंग्रहे श्री निन्यानन्दे प्रकारकी पूजा।

इयां ॥ १५ ॥ तस शिष्य जानिए, गावोजी हर्ष-
विजय हर्ष दातार । आज वधाइयां ॥ १६ ॥
तस लघु शिष्यने, गावोजी वल्लभविजय किया
उच्चार । आज वधाइयां ॥ १७ ॥ जीरा नगरमें,
गावोजी साधु नव रहे मास चार । आज वधा-
इयां ॥ १८ ॥ चिंतामणि पासजी, गावोजी मु-
खसे बोलो जयजयकार । आज वधाइयां॥१९॥

इति श्रीसिद्धाचलमहिमागर्भित नवनवति-
भेदभिन्नापूजा समाप्ता ॥

॥ अथ द्वादश व्रतपूजा ॥ .



॥ दोहा ॥

सामलापार्श्वनाथजी, चंदु आदिजिनंद ।
 श्रीलोढनपारसप्रभु, शीतल शीतल चंद ॥ १ ॥
 शांतिनाथ शांतिधर्णी, चंदधर्मसुखदाय ।
 मुनिसुब्रतमंदिरविषे, विजयानंदसूरिराय ॥ २ ॥
 पुरी दर्भावती शोभती, जिम अमरावती धाम ।
 जिनमंदिर सुंदर आति, मोक्षपुरीको ठाम ॥ ३ ॥
 अष्टकर्मकोचूरवा, अष्ट जिनालय सार ।
 अष्टयुणे करि शोभता, अष्टम गति दातार ॥ ४ ॥
 प्रणमुं श्रीअरिहंतको, सिद्ध सदा भगवान ।
 सुरि पाठक साधुजी, पांचों मंगलखान ॥ ५ ॥
 पांचों पदको नमीकरी, सिमरी सारदमाय ।
 द्वादशव्रत पूजा रचू, वीरवचन सुपसाय ॥ ६ ॥
 शासननायक वीरजी, त्रिशलानंदन धीर ।
 कर्मधूर समीर ही, मदन दहनको नीर ॥ ७ ॥

समवसरण सुरवर रचें, वन महसेन मझार ।
 संघ चतुर्विध थापके, भूतल करत विहार ॥८॥
 श्रावक इगलख ब्रतधरा, ओगणसाठ हजार ।
 सूत्र उपासक दाखिया, श्रावक दश सरदार ॥९॥
 जिनपासे ब्रत उच्चरे, द्वादश तजि अतिचार ।
 गुरुवंदन करके करे, पूजन विविध प्रकार ॥१०॥
 चिंतामणि मुनिमार्ग है, श्रावक सुरतरुसाज ।
 दो बांधव गुणठाणमें, राजा अरु युवराज ॥ ११ ॥
 मोक्षमार्ग ब्रतका विधि, सप्तम अंग मझार ।
 पंचम आरे प्राणिको, सुणतां हो उपकार ॥१२॥
 तिस कारण पूजा रची, अनुपम तेर प्रकार ।
 भवजल निधि तरने लिए, ये हैं पत्तन बार ॥१३॥
 चांदीका सुरतरु करी, नील वर्ण शुभ पान ।
 रक्त वरण फल दीपते, वाम दिशा तस थान ॥१४॥
 तेर तेर मेली करी, शुचि वस्तु नव रंग ।
 नर नारी कलशे भरी, तेर ठवे जिन अंग ॥१५॥
 स्त्राव्र विलेपन वासकी, माल दीप धुव फूल ।

भंगल अक्षत दर्पणे, नैवेद्य धज फल मूल ॥ १६॥

—
॥ सम्यक्त्वारोपणे प्रथमा पूजा ॥

॥ दोहा ॥

चउतिस अतिशय शोभता, वाणी गुण पणतीस।
समकित पामी पूजिए, तीर्थकर जगदीस ॥ १ ॥

॥ चाल-नारो तारो जिनंदजी ॥

धारो धारो जिनंदजी, धारो जिनंद । हिए
धारो जिनंद, भवि पाया है युण्य प्रचूर ॥ अं०॥
द्वादश भारी गुणके धारी । देव जिनंश्वर, तारन
तरन, किये दोष अठारांको दूर ॥ धा० ॥ १ ॥
संयम धारी युरु उपकारी । हिंसा सृषा, नहीं
स्तेय मैदुन, नहीं ममता है जिनके हजूर धा०
विधिसे देव पूजन युरु वंदन । दान शील, तप
भाव धर्म, हरे मिथ्यात्व जिम तम सूरा॥धा०३॥
आत्म लक्ष्मी समकित आवे । वीर वचन, जावे
कर्म कलंक, पावे वल्लभ हर्ष जरूर ॥ धा० ४ ॥

॥ चाल-मे आया प्रभु नेमजी ॥

भवि पूजो जिनचंदजी, दर्शन धार। दर्शन
धारी पाप निवारी, दर्शन शिवसुख कंदजी, दर्शन
धार॥ भविं अंचली॥ रागी द्वेषी देव विकारी,
त्यागो तमकित धर नरनारी। त्यागो कुणुरु
अब्रह्मचारी, हिंसक धर्मको फंदजी—दर्शन धार
॥ भ० १॥ सार्थवाह जगनाथ शिवंकर, जगवां-
धव जगदेव सुहंकर। वीतराग प्रभु जगगुरु
शंकर, नमिए ज्ञानानंदजी—दर्शन धार॥ भ० २॥
योग्य आचार सुगुरु आराधो, यत्नासे भवि
धर्मको साधो। लाधो समकित पुण्य अगाधो,
नमो नितपडिमावृद्धजी—दर्शन धार॥ भ० ३॥
श्रेणिक नृप क्षायक गुण धारी, जिन अभिषेक
करे नित्य वारी। कल्पतरु जिनवर बलिहारी,
पद जिनवर सुलहंदजी—दर्शन धार॥ भ० ४॥
आत्म लक्ष्मी समकित प्रानी, ज्ञान चरण गुण
गणकी खानी। श्रीशुभ वीर विजयकी वानी,

बलभ हर्ष अमंदजी—दर्शन धार ॥ भ० ५ ॥

काव्यम्—

सम्यग् दर्शन संयुता व्रतधराः श्राद्धा
जिना राधकास्ते सर्वेषि च देवलोकमगमन्
यान्त व्रजिष्यन्त्येषि। च्युत्वा स्वच्छ कुले ततोषि
चरणं संसेव्य मोक्षयतः, कुर्मस्तत्फलवाञ्छया
जिनवरस्यार्चामिमामुक्तमाम् ॥१॥

संत्रः—ॐ हौं श्रीं परम बुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय श्रीमते जिने-
न्द्राय जलं यजामहे स्वाहा. ॥१॥

॥ प्रथमव्रते द्वितीया चंद्रनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

दंसण नाण अरु चरणके, आठ आठ अतिचार ।
अनशन वीर्याचारके, पण तिग तपके बार ॥ १ ॥
सुंदर समकित ऊचरी, लड्ढ चौथा गुण ठाण ।
पंचम गुण ठाणे चढी, थूल थकी पचखाण ॥ २ ॥

(देशी, गरबेकी ॥ चाल-आवो आवो अलबेलडाजीर ॥)

गावो गावो श्री महावीरजी रे । भावो
 भावो दया धीर प्रभु प्यारिया ॥ गावो० अंचली०
 चंदनबाला वोलसेजी रे, भक्त वत्सल भगवान
 प्रभु प्यारिया । वाकुल लेह संचर्याजी रे, क्षमा
 निधि गुणवान प्रभु प्यारिया ॥ गा० ॥१॥ क्षय
 किये चार घातियाँजी रे, प्रगटथो केवल ज्ञान
 प्रभु प्यारिया । चंदनबाला वक्षियोजी, संकेत
 कियो मनमान प्रभु प्यारिया ॥ गा० ॥२॥ के-
 सरसे जिन पूजिएजी रे, स्थूलप्रथम ब्रत जाण
 प्रभु प्यारिया । दुविध त्रिविधके पाठसेजी रे,
 जीव हिंसा पचखाण प्रभु प्यारिया ॥ गा०॥३॥
 वासी बीदल निशिभक्षकोजी रे, टालो पालो
 जिन आण प्रभु प्यारिया । त्यागो आचार अ-
 भक्ष्यकोजी रे, बांधो चंद्रोया दशठाण प्रभु प्या०
 ॥ गा० ॥ ४ ॥ सवा विश्वा दया जानिएजी रे,
 आत्म लक्ष्मी हेत प्रभु प्यारिया । वल्लभ हर्षको

पामिएजी रे, वीर वचन संकेत प्रभु प्यारिया॥
गा० ॥ ५ ॥

॥ चाल-केसरिया थासुं प्रीत करीरे साचा भावसुं ॥

महावीर जिनदंकी पूजा करोरे भवि भावसे
॥ अंचली ॥ जीव किसीका जावे ऐसी, बात-
कभी न करीजे । वध बंधन छविछ्डे न करिए,
भार आति न भरीजेरे ॥ म० १ ॥ भक्त पाणी
विच्छेद न कीजे, पण अति चार तजीजे । लौ-
किक देव गुरुगत मिथ्या, त्यासी भेद गमजिरे
॥ म० २ ॥ प्रभु आगम सुन चौमासामें, जयणा
काम करीजे । पाद पादमें निर्मल ब्रतसे, निज
अघ दल बल छीजेरे ॥ म० ३ ॥ श्वास श्वासमें
सौ सौ वारी, नाम प्रभुका लीजे । चंदनबाला
सम प्रभु भविको, सार धर्म फल दीजेरे ॥ म०
॥४॥ हरिबल राजा यह ब्रत पाली, मन वंछित-
सब सीजे । आतम लक्ष्मी वल्लभ हर्षे, वीरवचन-
रस पीजेरे—महा० ॥ ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ द्वितीयव्रते तृतीया वासपूजा ॥

॥ दोहा ॥

सरस कुसुम चूरण करी, केसर और वरास ।
पूजो जगत दयालको, बहुल सुगंधी वास ॥ १ ॥

(चाल—राम नाम रस पीजे प्याला)

नाम वीर प्रभु लीजे, भवियां लीजेरे लीजे
रे लीजे अघ छीजे ॥ अं० ॥ मोक्षपुरीमें मोहन
मेलो । डर मोहसे नवि कीजेरे कीजेरे कीजे
अघ छीजे ॥ ना० १ ॥ नाम कर्म के निर्जरणेको॥
भाव भगत मन रीजेरे रीजे रीजे अघ छीजे
॥ ना० २ ॥ उपदेशी शिव मंदिर पहुंचे । तोसुं
चनाव ठवीजेरे ठवीजेरे ठवीजे अघ छीजे॥ना०
३॥आनंदादिक दश यूं कहते । व्रत प्रभु पास
धरीजेरे धरीजेरे धरीजे अघ छीजे ॥ ना० ४ ॥
पांच झूठ मोटे नवि बोले । मनमें आश भरी-
जेरे भरीजेरे भरीजे अघ छीजे ॥ ना० ॥ ५ ॥
गातमलद्सी वीर वचन रस । वल्लभ हर्षसे पीजे

रे पीजेरे पीजे अघ छीजे ॥ ना० ६ ॥

॥ चाल-हेजी तोरे दर्दे हिजरने सताया ॥

वीर जिन अर्चन शिवसुख दाया । गाया
शचिपति, ध्याया यतिपति । पाया भवि महा-
राया ॥ वीर० अंचलि ॥ झूठ न बोलो दूसरा,
ब्रतधरी पण अतिचार । टालो मन शुभ भा-
वसे, पासो भवजलपार । हेजी धरो ध्यान वयण
गुरु पाया ॥ गाया० १ ॥ आसन आकाशे धरे,
सत्य प्रभावे देव । झूठ बोलनेसे गिरा, भूमिपर
ततखेव । हेजी गयो घोर नरक वसु राया ॥
गाया० २ ॥ मातंगी मांसादनी, भानु प्रश्न ज-
वाब । झूठे नर पग भूमिको, शोधन जल छट-
काव । हेजी ऐसी लौकिकमेंभी वाया ॥ गाया०
३ ॥ मंत्रभेद रह नारीको, न किए न दिए
आल । कूटलेख लिखिए नहीं, मिथ्या उपदेश
टाल । हेजी न तो मारी जावेगी ब्रतछाया ॥
गाया० ४ कमल सत्यसे सुखी हुवा, झूठसे

४३० विविध पूजासंग्रहे श्री द्वादश व्रतपूजा.

हुँखिया नंद । आतम लक्ष्मी सत्यसे, होवे हर्ष
अमंद । हेजी शुभवीर वल्लभ मन भाया ॥
गाया० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ तृतीयव्रते चतुर्थी पुष्पमालापूजा ॥
॥ दोहा ॥

चंपा जाई सुरतरु, मोगरा मालती सार ।
प्रभु कंठे ठवि पूजिए, सुंदर फूलका हार ॥१॥

(चाल-गुलबनमे आरही बहार)

बहार मेरे प्रभुके पूजनमें हो रही बहार ॥
अंचलि । श्रावक तीजे व्रत करजि । थूल चौरी
परिहार । बहार० १ ॥ स्वामी अदत्त कदापि
न लीजे । त्यागिए भेद अठार । बहार० २ ॥
सात प्रकारे चौर कहावे । धारिए चित्त विचार ।
बहार० ३ ॥ राजदंड होवे वो चौरी । गिरे गण
को विसार । बहार० ४ ॥ तोल माप कूड़ी नवि

करिए । पंचातिचार निवार । बहार० ५ ॥ चौरीसे इस भव परभवमें । वध वंधन निहार बहार० ६ ॥ आत्म लक्ष्मी वीर वचनसे । वल्लभ हर्ष अपार । बहार० ७ ॥

(चाल तोरे गमका तराना)

श्रावकजनप्यारा, ब्रत धरनारा, पूजो श्री भगवान् । प्रभु सुखकरनारा दुःखहरनारा, भव-जलतारा, पूजो श्रीभगवान् । अं० । चौरीका धन न रहेरे, भूखे मरे सदा चौर । क्योइ धणी नवि चौरका होवे, पास न बैठे और । प्रभु० १ ॥ प्राण लिए परधन लेनेसे, हत्या पंचेंद्रि जान । जग जस उज्जल ब्रत धरनेसे, पावे अमर विमान । प्रभु० २ ॥ पुण्य प्रभावे वहांभी सासय, पडिमा पूजा प्रचार । जिन अभिषेक करे कलशोंसे, फलियो सुरतरु सार । प्रभु० ३ ॥ वीरगया स्वर्गे धनदत्त सौ, ब्रत शाखा विस्तार । आत्म लक्ष्मी फल सासयसुख, वल्लभ हर्ष अपार ॥ प्रभु० ॥
॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ चतुर्थव्रते पंचमी दीपकपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चौथा व्रत वर्णन करुं, जस दीपक सम जोत ।
केवल दीपक कारणे, दीपकका उद्योत ॥ १ ॥

॥ लावणी ॥

सर्व व्रतोमें व्रत है मोटा, ब्रह्मचर्य सुख
कारारे । जिस विन खोटा धर्म कर्म सब, मानो
मन नर नारारे ॥ स० १ ॥ प्रभु पूजी विधिसे
गुरु पासे, ब्रह्मचर्य व्रत धारारे । पण अति चा-
र्को दूर करीने, दूर करे परदारारे ॥ स० २ ॥ निज
नारी संतोषी श्रावक, चौथा अणुव्रत सारारे । देव
तिरी नर नारी नजरें, रूप रंगको छारारे ॥ स०
३ ॥ विधवा नारी बाल कुमारी, वेद्या परमें
विचारारे । नर मारण काती अतिराती, त्यागे
धन्य अवतारारे ॥ स० ४ ॥ व्रत पीडा स्मर
कीडा चाला, दुर्गंधा परिहारारे । निर्नासा भी
नारी प्रीति, पंचाशकमें टारारे ॥ स० ५ ॥ पर-

नारी कारण श्रावकको, वाडी नव निरधारारे ।
 नारायण चेडा महाराया, कन्यादान निवारारे ॥
 स० ६ ॥ सोंपी राज्य भरथ राजाको, राम रहे
 वन चारारे । फंद फसे नहीं खर खेचरकी, देखी
 नारी विकारारे ॥ स० ७ ॥ सीता सती मोटीमें
 खोटी, हष्टि रावण मारारे । कोटि हेमका दान
 बराबर, नावे ब्रह्म ब्रत पारारे ॥ स० ८ ॥ ब्रत
 तोडे ते नरनारी दुःख, पावे नरकमें भारारे ।
 इंद्र नमन करी बैठे सभामें, धन्य विराति मनो-
 हारारे ॥ स० ९ ॥ इमजानी वानी जिन प्रानी,
 खानी गुण अवधारारे । आतम लक्ष्मी वीरचच-
 नसे, वल्लभ हर्ष अपारारे ॥ स० १० ॥

॥ पीछु ॥ चाल-मेरे सज्जनसे यूं जा कहना ॥

वीर जिनंदकी दीपसे पूजा, ब्रह्मचर्य ब्रत
 दीप धरीरे । वी० अं० ॥ ब्रतमें मुगट समान
 विचारो । ब्रह्मचर्य आतम गुण धारो । सुरतरु
 नवनिधि पुण्य भंडारो । नमो नमो ब्रत धारी,

सदा ब्रह्मचारी, अनंगको मूर जरीरे ॥ वी० १ ॥
 परदारा सेवन अघ मानो । मदिरा मांससे अ-
 धिका जानो । लौकिक वेद पुराण वखानो । विष
 कन्या अवतार, के रंडा नार, होवे व्रत भंग
 करीरे । वी० २ ॥ मन वंछित तस सुरवर साधे ।
 जगमें जस कीर्ति अति वाधे । फल पारिजातक
 व्रत लाधे । पाप तापको टार, के व्रत संभार,
 धार जिन आण खरीरे ॥ वी० ३ ॥ वत्रीस
 उपमा दशमे अंगे । शीलवती पाली व्रत रंगे ।
 नाथ चरण तुम आयो उम्मंगे । नेक नजर करो
 नाथ, मुक्तिके साथ, के जग तुम आस भरीरे
 । वी० ४ ॥ गज मुखसे एक दाना निकसे ।
 कीड़ी कुटुंब सहु खाके विकसे । श्री शुभवीर
 जिने श्वर हिकसे । आतम लक्ष्मी सोहके, हर्ष
 अमोहके, वल्लभ पास परीरे, ॥ वी० ५ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥



॥ पंचमव्रते षष्ठी धूपपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पंचम ब्रतको आदरि, पांच तजी अतिचार ।
धूपसे जिनवर पूजिए, भवजल तारन हारा ॥१॥

(चाल-धन धन वो जगमें नरनार.)

धन धन वीर जिनंद भगवान । भवोदधि
यार लगानेवाले ॥ ध० अं० ॥ सुनो मनमोहन
जगनाथ, मैं गहिया तुमरा हाथ । तुम सम-
नहीं मिलिया साथ, परिग्रह रोग मिटानेवाले
॥ ध० १ ॥ कृष्णागरु धूप दशांग, खेवी करुं
यह प्रभु मांग । टारो तृष्णा तरुणी सांग, नहीं
कोई और हटानेवाले ॥ ध० २ ॥ रुलिया गति
चारमें फूल, तिर्यचमें वृक्षके मूल । रहे धन
ऊपर अति झूल, बनी फणियर भय पानेवाले
॥ ध० ३ ॥ सुर लोभी हैं संसार, संसारी धन
संहार । मुनि समरादित्य विचार, सुने भवी
लोभ घटानेवाले ॥ ध० ४ ॥ नरभव सेवा

काज, करी नीचकी तजके लाज । पयों रणमें
आशाराज, जगदगुरु वचन वचानेवाले ॥८०५॥
आतम लक्ष्मी दातार, संतोषमें हर्ष अपार ।
वल्लभ मन वीर आधार, कनक कामनी विसरा-
नेवाले ॥ ८० ६ ॥

(न छेडो गाली दूरीरे भरने दो जल नीर)

पूजा फल माँगुं दीजो रे, महावीर जिन-
राय । अंच० । कंचन कामनी मन धारी, दीनो
प्रभु नाम विसारी । मानुं गङ्ग अक्कल मारी रे,
महावीर जिनराय । पू० १ ॥ भाग्ये मिलिया
तुम स्वामी, आदरुं व्रत अवसर पामी । नव-
विध परिग्रह परिणामीरे, महावीर जिनराय ।
पू० २ ॥ अथवा इच्छानुसारी, धन धान्यादिक
विचारी । षटभेद परिग्रह धारी रे, महावीर
जिनराय । पू० ३ ॥ उत्तर चउ साठ बताया,
दशवैकालिकमें गाया । युरु भद्रबाहु फरमाया
रे, महावीर जिनराय । पू० ४ ॥ परिमाणसे

आधिका थावे, तीरथपर खरचे भावे । खपे पाप
छाप जिनं गावे रे, महावीर जिनराय । पू० ५ ॥
आतम लक्ष्मी धन पावे, संतोषे वीर जनावे ।
बलभ मन हर्ष मनावेरे, महावीर जिनराय
॥ पू० ६ ॥ काव्य-मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ षष्ठ्वते सप्तमी पुष्पपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पांच वर्णके पुष्पकी, वर्षा करे जिन अंग ।
शुण ब्रत तिग प्रथमे कह्यो, दिशि परिमाणको रंग ।
(चाल-होइ आनंद बहार)

वीर जिनंद जयकाररे, भवी पूजा बनावे ।
पूजा बनावे आंगी रचावे, वीर जिनंद० ॥
अंचली ॥ समवसरण सुरवर रचेरे, पूजा फूल
अपाररे ॥ भ० १ ॥ राय पसेणी सूत्रमेरे, सुरि-
याभ देव विचाररे ॥ भ० २ ॥ दिक परिमाण
करे करीरे, प्रभु पूजा विस्ताररे ॥ भ० ३ ॥
चार दिशा विमला तमारे, हिंसाका परिहाररे ॥
भ० ४ ॥ आशा करे अरिहंतकीरे, पांच तजी

अतिचाररे ॥ भ० ५ ॥ आत्म लक्ष्मी हर्षसेरे,
बल्भ वीर आधाररे ॥ भ० ६ ॥

(चाल पनिहारी)

तुम सरिखे जगमें नहीं मारा वालाजी ।
देखे देव दयाल वालाजी । वरसी दानको वर-
सियो मारा वालाजी । विप्र प्रवासी ते काल
वालाजी ॥ १ ॥ वस्त्र देइ सुखियो कियो मारा
वालाजी, लेइ संयम दया धार वालाजी ॥ के-
वली जब जिनराजजी मारा वालाजी, मैं कोइ
गति तिण बार वालाजी ॥ २ ॥ शासन देखी
आइयो मारा वालाजी, तुम शिर सेवक लाज
वालाजी ॥ इस व्रतसे महानंद, लिया मारा
वालाजी, शिवसुख आत्मराज वालाजी ॥ ३ ॥
श्री शुभ वीर जिनेसरु मारा वालाजी, हमको
तुम आधार वालाजी ॥ आत्म लक्ष्मी पामिये
मारा वालाजी, बल्भ हर्ष अपार वालाजी ॥ ४ ॥

काव्य मंत्र पूर्ववत् ॥

। सप्तमव्रते अष्टमी अष्टमंगलपूजा ।

॥ दोहा ॥

नमन करी शुभ भावसे, अष्टमंगल पुर-
धार । भाव मंगल जिन पूजिए, पूजा आठमी
सार ॥ १ ॥ दूजा गुण व्रत जानिए, सातमा व्रत
उच्चार । उपभोगे परिभोगसे, वीस तजी अति-
चार ॥ २ ॥

(चाल—वाला वेगे आवोरे)

भक्तिभाव धारीरे, जग जयकारीरे, वीर
जिन पूजिए होजी । प्रभुजीको पूजताँ भवदुःख
जाय, साहिबाको सेवताँ शिवसुख थाय । अं० ।

॥ साखी ॥

आदरो विरति सातमे, होवे प्रभुकी महेर ।
आगम दर्पण देखिए, दूर है शिवपुर शहेर ।
वाला मारा वीसरो गली संसार ।
वाला मारा चरट पडोसी बार ।
वाला मारा रहना नित्य नित्य खार
वाला मारा नहीं सज्जन आचार ॥ भ० १ ॥

॥ साखी ॥

फलजल अन्न तंबोल आदि, जानोसब उपभोग,
घर भूषण नारी वसन, आदि सब परिभोग ।
वाला सारा नाथ नमी करो माप ।
वाला सारा जाए भवो भव पाप ।
वाला सारा आवे न रोग संताप ।
वाला सारा निर्मल थावो आप ॥ भ० २ ॥

॥ साखी ॥

प्रभु पूजा मंगल करी, कीजे मंगल पोष ।
पर हाँसी तजी त्यागिए, मान अति अति रोष ।
वाला सारा उद्भट वेश न धार ।
वाला सारा मैला वेश निवार ।
वाला सारा महा विग्रह तजो चार ।
वाला सारा त्यागो अभक्ष्य दश बार ॥ भ० ३ ॥

॥ साखी ॥

रात्रि भोजन त्यागिए, जस दूषण नहीं पार ।
सज्जन जन मनमें वसे, करे निष्पक्ष विचार ।

वाला मारा घूक बिल्ही अवतार ।

वाला मारा राक्षसादिक छलनार ।

वाला मारा केश कंटक जु विकार ।

वाला मारा गुण नहीं दीसे लगार ॥ भ० ४ ॥

॥ साखी ॥

वर्णन केशव हंसका, तिग मित्रादि अन्य ।

सुन रात्रि भोजन तजे, धन्य ते प्राणी धन्य ।

वाला मारा रात्रि भोजन परिहार ।

वाला मारा आतम लक्ष्मी दातार ।

वाला मारा वीर वचन अनुसार ।

वाला मारा वल्लभ हर्ष अपार ॥ भ० ५ ॥

(चाल—प्रेमे आयो प्रेमे आयोरे)

भावे पूजे भावे पूजेरे प्रभुजी भावे पूजेरे ।

भव मानुष्य लेखे थाय प्रभुजी भावे पूजेरे । अं०

शकट गंत्री वेचे खाय भाडा, अंगार और
वन कर्म । सर उपल और कूप खणावे, श्राव-
कका नहीं धर्म ॥ प्र० १ ॥ दाँत लाख रस

केश निवारे, विष व्यापार हटाय । शुक मेना
पंजरे नवि पाले, आग न दे वन माय ॥प्र० २॥
यंत्र पीलण नवि शोषिये सरको, कर्म निलंछन
वार । खोट खजाने नहीं शिव दीजे, सेवक
सेवा विचार ॥ प्र० ३ ॥ राजमंत्री पुत्री फल
पामी, साधक बाधक टार । आत्म लक्ष्मी वीर
वचनसे, बलभ हर्ष अपार ॥ प्र० ४ ॥

काव्य—मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ अष्टमव्रते नवमी अक्षतपूजा ॥

॥ दोहा ॥

अष्टम ब्रतको धारिए, नामे अनरथदंड ।
मतलब विन करी पापको, बाँधे कर्म प्रचंड ॥१॥
खजन शरीरके कारणे, पापसे पेट भराय ।
सो नहि अनरथदंडहै, इम भाषे जिनराय ॥२॥
पूजा नवमी मानिए, अक्षत तंदुल श्वेत ।
अष्टमब्रत प्रभु पूजना, अष्ट कर्म क्षयहेत ॥३॥

(चाल—वलिहारी वलिहारी)

सुखकारी सुखकारी सुखकारी जगनाथ हो
यह मांगु विरतिफल सेवा सेवक दीजिएजी ॥
॥ अंचलि ॥

नेक नजर होवे, नाथ दालिद्र खोवे । अ-
क्षत उज्जवल पूजा सारी जगनाथ ॥ १ ॥ वीर
हजूर कहुं, विनती चरण पहुं । काल पंचम दुःख
भारी जगनाथ ॥ २ ॥ ध्योनार्त्त रौद्र करी, अ-
नर्थ दंडभरी । दियो उपदेश पापकारी जगनाथ
॥ ३ ॥ कूडी वातमें साखी, हुओ न स्वामी
राखी । आरंभ युद्ध जस नहीं पारी जगनाथ
॥ ४ ॥ रथ मूशल दे दे, मार्ग तरुको छेदे ।
वादे भगाए बैल सारी जगनाथ ॥ ५ ॥ लोक
लडाए वाते, स्वामी मैं आते जाते । सरणा
लिया तुम धारी हारी जगनाथ ॥ ६ ॥ आतम
लक्ष्मी थापो, वल्लभ हर्ष आपो । वीर वचन जाऊं
वारी जगनाथ ॥ ७ ॥

(चाल—हृष्ण फिरा)

वीर जिनंद जयकारा सुखकारा व्रतधर
भावे पूजिए ॥ अंचली ॥ अक्षतपूजा करे नर-
नारी, विकथा चार को दूर निवारी । जावे न
पुण्य धन हारा सुखकारा व्रतधर भावे पूजिए
॥ १ ॥ नगर अनीति चार धुतारे, पाप करे
भरे पेट लुटारे । रक्ष चूड लुट डारा सुखकारा
व्रतधर भावे पूजिए ॥ २ ॥ रण घंटाके वचन
को पाली, सुखी हुवा गया निज धन वाली ।
रक्ष चूड हुशियारा सुखकारा व्रत धर भावे पू-
जिए ॥ ३ ॥ तिम आज्ञा अरिहंतकी धारी,
व्रत अर्ही गुरुसे पाप पखारी । पण अतिचार
निवारा सुखकारा व्रत धर भावे पूजिए ॥ ४ ॥
वीरसेन कुसुम श्री नामे, आतम लक्ष्मी व्रत
फल पामे । वल्लभ वीर आधारा सुखकारा व्रत
धर भावे पूजिए ॥ ५ ॥

काव्य—मंत्र पूर्ववत् ॥

—***—

॥ नवमव्रते दशमी दर्पणपूजा ॥

॥ दोहा ॥

शिक्षाव्रत कहे चार जिन, प्रथम सामायिक सार ।
आतम दर्शन कारणे, दर्पण पूजा धार ॥ १ ॥

॥ कब्बाली ॥

सुनो प्रभु विनती एती, हमें संसारसे तारो । कबीभी नहीं भूलाएंगे, कियो तुमने जो उपकारो ॥ १ ॥ सामायिक नवमे उच्चरके, मुकुरसे पूजा प्रभु करिए । निजातमरूप अनुसरके, सामायिक समता संवरिए ॥ २ ॥ पौषध शाला घरे चैत्ये, सामायिक लेवे शुद्धभावे । टाली आति चार दो घटिका, दयालु साधु समथावे ॥ ३ ॥ विधि सामान्य ए जानो, राजा और मंत्री व्यवहारी । प्रशंसे सर्व दर्शनके, आवे सब साथ सिंगारी ॥ ४ ॥ इस विधि पास गुरु आकर, आतम लक्ष्मी हर्ष धारी । घडी दो करके सामायिक, वल्लभ दे दोषको टारी ॥ ५ ॥

(चाल—नाचत सुरवृद्ध छंद)

पूजन प्रभु वीर धीर आतम सुखकारी । पू० अ०

आवक सामायिक करंत, करत कठिन कर्म
अंत । खंत दंत संत होवे, सूत्रके अनुसारी ॥
पूजन ॥ १ ॥ भाव पूजा एही जान, द्रव्य पूजा
कारण मान । कहा एक फल प्रमान, सामा-
यिक व्यवहारी ॥ पूजन० ॥ २ ॥ बाणुं कोडी
ओगणसाठ, सहस पचीस उपर पाठ । नवसय
यचीस पल्य ठाठ, सुर आयु धारी ॥ पूजन०
॥ ३ ॥ मौक्ष गयो धन मित्र निहाल, व्रत सा-
मायिक विधिसे पाल । पंचम गुणठाणुं अजुवा-
ल, मांगु भव पारी ॥ पूजन० ॥ ४ ॥ आवे
भ्येय ध्यान रूप, आतम लक्ष्मी हर्ष अनूप ।
अचल सुख वीर भूप, वल्लभ नहीं वारी ॥ पू-
जन० ॥ ५ ॥

काव्य—मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ दशमव्रते एकादशी नैवेद्यपूजा ॥

॥ दोहा ॥

द्वार करी विग्रह गति, दीजे पद् अनाहार ।
इम कही जिनवर पूजिए, भर नैवेद्यका थार ॥१॥

(चाल—तुम चिदघनचंद)

प्रभु वीर जिनंद् आनंद् कंद्, तुम अर्चन
जग जयकारी । नाथ तुम अर्चन जगजयकारी,
॥ प्र० अं० ॥ भक्ति सुधारस घोल करी ने, रंग
चोल मन धारी ॥ प्रभु० ॥१॥ प्रभु पूजा विस्ता-
रसे कर के, कर्म कलंक निवारी ॥ प्रभु० ॥२॥
देशावकाशिक दशमे व्रतमें, नियम संक्षेप दश
चारी ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ पक्ष मास दिन रात मु-
हुरत, वर्ष इच्छानुसारी ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ प्रत्या-
ख्यान करे इस विधिसे, शुभ भावे नर नारी
॥ प्रभु० ॥ ५ ॥ आतम लक्ष्मी हर्ष वरे वो,
बहुभ वीर विचारी ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥

(श्याम कल्याण)

वीरजिन पूजन आनंद कारा ॥ वी० अंचलि ॥

मंत्र बले विष डंकमें जिम तिम, संक्षेप होय ब्रत बारा ॥ वी० ॥ १ ॥ गंठसी घरसी दीपसी आदि, मावे अभियह सारा ॥ वी० ॥ २ ॥ चंड विडंसग दीपक ज्योति, देशावकाशिक धारा ॥ वी० ॥ ३ ॥ धनद् लिया इस ब्रतसे शिव-सुख, पण आतिचार निवारा ॥ वी० ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी वीर वचनसे, वल्लभ हर्ष अपारा ॥ वी० ॥ ५ ॥

काव्य-मंत्र पूर्ववत् ॥

—३५८—

॥ एकादशब्रते द्वादशी ध्वजपूजा ॥

॥ दोहा ॥

यह बजाय अमारिका, ध्वज बाँधो शुभ ध्यान ।

पौषध ब्रत इग्यारमे, ध्वज पूजा सुविधान ॥ १ ॥

(चाल संग नर परनारी हरना ।)

वीर प्रभु जगजन हितकारी, करे सुरासुर सेव निरंतर श्रावक ब्रत धारी ॥ वीर प्रभु० अ० ॥

पूजके प्रभु पडिमा भावे,
विकथा चार विसार पर्व साधे शुभ गति जावे ।

धर्मकी महिमा अति भारी,
जैसी शीतल छाया जगतमें तरुवर सहकारी,
होवे जस फल रस सुखकारी ।

माया खोटी जगतकी, सार नहीं संसार ।
जानो काया अंतमें, होवेगी बल छार ।

प्रेम धरो श्री जिन अणगारी ॥ करेसुरासुर०॥१॥

पडिलेहण और पडिकमणा,
देव वंदन तिगवार विधिसे स्थिर चित्त हो करणा ।

अर्थ पौषधका मन लाना,
करे धर्म को पुष्ट यथारथ पौषध तस माना,
करे नहीं पौषधमें स्नाना ।

ब्रह्मचर्य व्रतको धरे, जो जिनशासन सार ।

तप करी कर्म को निर्जरे, त्यागे पाप व्यापार ।

कहा पौषध भेदे चारी ॥ करे सुरासुर० ॥ २ ॥

देशसे पौषध जो करते ।

अस्सी भेद विचार करे एकासण भी नर ते ।

कहा सिद्धांतमें अधिकारा,

जयणा मंगल बोल घरे निज जाय करे आहारा,

वदन भाजन पूंजी सारा ।

विनाशब्द भोजन करे, रस यद्धिको त्याग ।

आवे ईर्या शोधता, थानकमें महा भाग ।

विधि करे पौषधकी सारी ॥ करेसुरासुर० ॥३॥

सर्व से आठ पहर जानो ।

चउविहार संथार निशि कंबल आदि मानो ।

पर्व पौषध गणधर बोले ।

लाभ तीस पूर्वांक गुणा माने सब निज तोले,

नहीं आवे जग जस मोले ।

श्रावक दश स्वर्गे गए, कार्त्तिक हरि अवतार ।

प्रेत कुमार विराधको, आराधक देव कुमार ।

तजी भावे पण अतिचारी ॥ करेसुरासुर० ॥४॥

पालिए पौषध तिम प्रानी ।

निज शक्ति अनुसार कहे आतम ज्ञानी ध्यानी ।

अनुभव होवे मुनिपनका ।
 जोर घटे मद मोह लोभ स्मर राग द्वेष गनका ।
 सुधारा होवे तन मनका ।
 आतम लक्ष्मी पासिए, आनी हर्ष अपार ।
 वीर वचन मन मानिए, होवे भवजल पार ।
 बहुभ जिन शासन बलिहारी ॥ करेसुरासु०॥५॥

(वढंश) नाथ कैसे गजके फंद छुड़ाये ॥ देशी ॥

पूजो भवि वीर जिनद उपकारी, धारी पौषध व्रत सुखकारी ॥ पू० अं० ॥ पौषधमें यति तुल्य कहावे, श्रावक जन सागारी ॥ आठ पहर या चार पहर तक, सावधके परिहारी ॥पूजो०॥ ॥ १ ॥ दोय सहस सय सात सतत्तर, कोटि पोसह फल धारी ॥ लाख सतत्तर सहस सतत्तर, ऊपर आयु विचारी ॥ पूजो० ॥ २ ॥ सातसो सतत्तर पल्योपम, किंचिदधिक देव धारी ॥ व्रत आराधी एक भवंतर, हुए केइ अणगारी॥पूजो०॥ ॥ ३ ॥ धन्य वो सुलसा धन्य वो आनंद, का-

मदेव बलिहारी ॥ पौषध ब्रत जस दृढ़ पर्यंपे,
वीर जिनंद जयकारी ॥ पूजो० ॥ ४ ॥ आतम
लक्ष्मी पौषध चिदघन, वीर वचन अनुसारी ॥
पौषध स्वामी आतमरामी, वल्लभ हर्ष अपारी ॥
॥ पूजो० ॥ ५ ॥

काव्य मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ द्वादशब्रते त्रयोदशी फलपूजा ॥
॥ दोहा ॥

द्वादशमा ब्रत जानिए, अतिथि संविभाग ।
मानी अतिथि साधुको, देवे दान सुभाग ।१।
पूजा तेरमी जिनतणी, फलपूजा फल आस ।
करिए वरिए शिवसिरी, सादि अनंता वास ॥२॥

दूसरी—(महावीर तोरे समवसरणकीरे)

महावीर जिन चरण कमलकीरे, करे अर्चा
मिल नरनारी, शुभ फलसे भरके थारी । श्रा-
वक शुद्ध ब्रत के धारी ॥ महावीर० अंचलि ॥
अतिथि मुनि जानोरे, संविभाग मानोरे । बार-

मे ब्रत लाहा र्जीजे, शुद्ध दान सदा मुनि र्जीजे,
 मानव भव सफला कीजे ॥ महावीर जिन० १ ॥
 सुरतरुव्रत फलियोरे, मनमोहन मेलो मलियोरे ।
 विनती कर मुनिको लावे, गुरु विनये आसन
 ठावे, आपे पडिलाभे भावे ॥ महावीर जिन० २
 देशकाल अनुसरिएरे, पारणे दान करिएरे ।
 उसमेंभी नहीं अतिचरिए, निर्दोष विधि मन
 धरिए, पद दोष रहितको वरिए ॥ महावीर
 जिन० ३ ॥ लेइ दान मुनि जावेरे, पीछे जावे
 कुछ भावेरे । मुनि दानमें जो नहीं आवे, ब्रत-
 धारी वो नहीं खावे । मनमें अति हर्ष मनावे
 ॥ महावीर जिन० ४ ॥ नहीं मुनि जब होवेरे,
 दिशि तब जोवेरे । जिमे भाव मुनि मन राखी,
 पौषधपारण विधि दाखी । हैं धर्मदास गणि साखी
 । महावीर जिन० ५ ॥ धन्नादिक तरियारे, मु-
 ण्कर सेठ वरियारे । आतम लक्ष्मी बलिहारी,
 शुभवीर वचन अनुसारी, वल्लभ मन हर्ष अपारी
 । महावीर जिन० ६ ॥

(चाल-मान मायाना करनारारे)

सुखकारी पूजन सुखकारीरे, महावीर पूजन
 सुखकारी । करे सम्यक्त्व ब्रतके धारीरे म०
 अंचलि ॥ विनती करुं मैं घर मुझ आवो, विराति
 पणो अवधारी । सेवक स्वामी भावसे विनुं,
 दावा न और विचारीरे ॥ म० १ ॥ लील वि-
 लासी मुक्तिके वासी, करुणा निधि उपकारी ।
 सेवक चाहे मेल करी प्रभु, सुंदर तुमरा दिदा-
 रीरे । म० २ ॥ रंग रसीले प्रभु जो आवो, होवे
 जगत् जयकारी । सेवकका मन वंछित् होवे,
 आनंद मंगल कारीरे । म० ३ ॥ अर्द्ध मार्गमें
 मिले प्रभुजी, अर्ध बाकी हितकारी । निर्भय
 निजपुर जानेको साचा, साथी प्रभु बलिहारीरे
 ॥ म० ४ ॥ वदन कमल प्रभु वीरकी कांति,
 हँस समा उजियारी । आतम लक्ष्मी वीर वच-
 नसे, वल्लभ हर्ष अपारीरे । म० ५ ॥

काव्य-मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ कलश ॥ (रेखता)

प्रभु महावीर जिनचंदा, गाया गुण आत्म
सुखकंदा । पूजन विधि सूत्र अनुसारी, करे
ब्रतधारी नरनारी ॥ १ ॥ अनुब्रत पांच फरमावे,
प्रभु ब्रत तीन गुण गावे । कहे शिक्षाके ब्रत
चारो, भवि मन शुद्ध अवधारो ॥ २ ॥ वेद कर
चंद्र अतिचारा, निवारी पाले ब्रत सारा । अमर
अपगर्व सुख पावे, करे प्रभु धर्म शुभ भावे ॥
३ ॥ तप गच्छ गगन रवि रूपा, श्रीविजयानंद
सूरिभूपा । विजयलक्ष्मी गुरुदादा, विजयश्री
हर्ष गुरुपादा ॥ ४ ॥ विजय वृल्लभ करी क्रीडा,
यथाशक्ति प्रभु ईडा । पुरी दर्भावती स्वामी,
सामलिया पास सिर नामी ॥ ५ ॥ वसु शिखी
वेद कर साले, वीर निर्वाणके काले । आत्म
विक्रम रसेंदुमें, वसु रस अंक इंदुमें ॥ ६ ॥ ति-
थि मधु सप्तमी जानो, रवि दिन पूर्णता मानो
। साधु पंचदशके संगे, बनी रचना आतिरंगे ॥

४५६ विविध पूजारंग्रहे श्री द्वादश व्रतपूजा.

७ ॥ विवेक ललित लावण्य चंगा, सोहन वि-
मल उमंगा । विज्ञान विवुध जिन तीनो, कुम-
तिमत त्याग जिन कीनो ॥ ८ ॥ तिलक विद्या
विचाराजी, विचक्षण मित्र प्याराजी । विजय
समुद्र अवधारो, विजयपद साथ सब धारो ॥ ९ ।
विजय कमल सूरियजे, उपाध्याय वीर विजय
गाजे । प्रवर्तक श्रीविजयकांति, जिनोंके राज्य
नहीं छांति ॥ १० ॥ विजय शुभवीर अनुसारी,
करी रचना मनोहारी । मिथ्या दुष्कृत वल्लभ
देवे, सुधारी भूल सुजन लेवे ॥ ११ ॥

॥ इति द्वादश व्रतपूजा ॥

अथ चउद राजलोक पूजा ।

॥ दोहा ॥

धर्म जिनंद नमीकरी, सदगुरु सीस नमाय ।
 चउद लोक पूजा रचूँ, सिमरी सारद माय ॥ १ ॥
 तीर्थकरके उपदिसे, गणधर रचना सार ।
 आगम धर्म बताइया, भेद ज्ञाणके चार ॥ २ ॥
 ध्याता जास पसायसे, केवल नाण उपाय ।
 सिद्ध बुद्ध परमातमा, जन्म मरन मिट जाय ॥ ३ ॥
 अप्रमत्त मुनिरायका, वर्तन मंगलकार ।
 ध्यान धर्ममें नित रमे, न भमे गति संसार ॥ ४ ॥
 आज्ञा कष्ट विपाकका, चउथा पुन संस्थान ।
 चिंतन मन एकाग्रता, भेद कहें भगवान ॥ ५ ॥
 आस वचन आज्ञा सही, राग दोस अरु भोह ।
 कष्ट सहे बहु जीव वस, विचय अपाय सुबोह ॥ ६ ॥
 कर्म शुभाशुभ भोगना, फल नाना परकार ।
 चिंतन कर्म सभेदका, विचय विपाक विचार ॥ ७ ॥

स्थिति उत्पत्ति व्ययमयी, अंत आदि नहि जास ।
 आकृति चिंतन लोककी, पूजन विषय हि खास ॥८॥
 अस्तिकाय पण हैं जहां, लोक नाम है तास ।
 चउद राज जस मान है, अभिधा लोकाकास ॥९॥
 मास्तर माणिक लालकी, विज्ञाति स्वीकार ।
 रचना करि संक्षेपसे, पूर्व सूरि अनुसार ॥ १० ॥
 पूजा पूजा जानिये, सामग्री विस्तार ।
 अथवा आठों द्रव्यसे, निज शक्ति अधिकार ॥११॥



प्रथमा पूजा.

॥ दोहा ॥

कर कमरे धरि नर खडो, होवे पांव पसार ।
 द्रव्य पूर्ण सब लोकका, जानो यह आकार ॥ १ ॥
 उर्ध्व अधो तिरछा कहा, लोक मृदंग समान ।
 वेत्रासन अरु झल्लरी, क्रम आकार पिछान ॥ २ ॥
 गोथण सम बिच मेरुके, चार चार परदेश ।
 आठ पएसी रुचकसे, उर्ध्वादि व्यपदेश ॥ ३ ॥

अष्टादश शत योजनो, तिरछा लोक कहाय ।
 सात राज नव ऊन शत, योजन अधो मनाय ॥१॥
 घनजल घनतन वातसे, वेष्टित भूमी सात ।
 रयण पहा पहली कही, जिन शासन विख्यात ॥५॥

(मालकोश-न्हवण करो जिनचंद-चाल)

जिन शासन जग सार आनंद भर जिन०
 अंचली । तीर्थकर गणधर फरमाया, लोक स्वरूप
 उदार आ० ॥ १ ॥ पृथ्वी पिंड एक लाखके
 ऊपर, योजन अस्सी हजार आ० ॥२॥ उर्ध्व अधो
 एक सहस्रको टारी, भवन पति मध्य धार आ०
 ॥ ३ ॥ दक्षिण उत्तर दो श्रोणिमें, संख्या क्रम
 अवधार आ० ॥४॥ आतम लक्ष्मी धर्म जिनेश्वर,
 बलुभ हर्ष अपार आ० ॥ ५ ॥

— ॥ दोहा ॥

दक्षिण चउतिस लाख है, उत्तर तीस मिलाय ।
 संख्या असुरकुमारके, भवनोंकी मन भाय ॥ १ ॥
 चउताली अरु चालिसा, संख्या नागकुमार ।

३६० विविध पूजासंग्रहे चउद राजलोक पूजा.

आठतीस चउतीसकी, अय सुपर्ण कुमार ॥२॥

विद्युत चाली तीस छै, अन्नि द्वीप कुमार ।

उदाधि दिशा चउ मानिये, विद्युतके अनुसार ॥३॥

यंचाशत चालीस षट, वायु कुमार विचार ।

चत्वारिंशत तीस छै, संख्या स्तनितकुमार ॥४॥

सात कोडि बी सत्तरी, लाख भवन आवास ।

प्रति भवने जिन चैत्यको, नमन करो शुभ आस ५

(देश-निताल-लावणी । कर पकर प्रीत युत-चाल)

तीर्थकर गणधर देव नमो भवी प्रानी,

नहीं ज्ञानी जगमें और कोइ इन सानी । ती० अ० ॥

चर्णन द्रव्यादि पदार्थ सार्थ कियो भारी,

उत्पाद स्थिति अरु नाश त्रिभंगी सारी ।

तेरसो नव्यासी कोडि भवनमें जानो,

जिन प्रतिमा ऊपर साठ लाख भी मानो ।

बंदन पूजन शुद्ध भाव करो हितमानी—नहीं० ॥१॥

दश दक्षिणके दश उत्तर इङ्ग्रको मानो,

ऋषि परिवार आदि शास्त्रोंसे जानो ।

ऊपर नीचे एक एक शत योजन टारी,

अडसय योजनमें व्यंतर वास विचारी ।

व्यंतर दोय भेद वदे तीर्थकर ज्ञानी—नहीं० ॥२॥

पिशाच भूत जख राक्षस किन्नर कहिए,

किं पुरुष महोरंग गंधर्व आठमा लहिए ।

अण पण पन्नी कङ्गि भूत वादी अरु कंदी,

महाकंदी कोहंड पचक आठ ए छंदी ।

दो दो जस कुल बत्तीस इंद्र फरमानी—नहीं० ॥३॥

है संख्यातीता वाण वंतर आवासा,

उत्कृष्टा जंबू द्वीप समा है खासा ।

मध्यम परिमाण विदेह समा तस धारा,

छोटेमें छोटा क्षेत्र भरत सम सारा ।

संख्यातीते जिन चैत्य वदे जिन वानी—नहीं०॥४॥

अधो लोकमें भवनपति नारकका वासा,

तिरछा लोके वंतर नर ज्योति प्रकासा ।

वैमानिक सुरगण और सिद्ध भगवंता,

सब ऊर्ध्व लोकमें सिद्ध किया भव अंता ।

आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ इम जानी—नहीं०॥५॥

काव्यम् ।

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां,
चरभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् ।
इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां,
जिनवरभवनानां भावतोहं नमामि ॥ १ ॥

मंत्रः—३० हीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय अनन्तानन्तज्ञानशक्तये
श्रीमदेवाधिदेवाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥१॥

अथ द्वितीया पूजा ।

॥ दोहा ॥

अधोलोक लोकांतसे, एक राज परमान ।
तल ऊपरका सातमी, नरक कहे जिन भान ॥१॥
इम सातों ही नरकके, ऊपरके तल सात ।
अष्टम अंत विमानके, स्वर्ग सुधर्मा जात ॥२ ॥
नवमी अंत चतुर्थके, लांतक दशमी जान ।
अष्टमांत एकादशी, बार बारमी मान ॥ ३ ॥
श्रैवेयके अंतमें, तेरां राज कहंत ।

राज चउद लोकांतमें, भाषे भी भगवंत ॥४॥
 एक राजकी पृथु कही, चउद राज आयाम ।
 त्रस जीवोके वाससे, त्रस नाडी तस नाम ॥५॥

पीलू-वर्णा । (अथवा-गिरिवर दर्शन विरला पावे-देशी)

जय जिन वचन जगत हितकारी,
 बोध करं भविजन दे उगारी—जय—अंचली ॥
 रत्न शर्करा और वालुका,
 पंक धूम तम महा तमकारी ।
 नरक सात अधिकाधिक होवे,
 दुःख किये जो अघ महा भारी । जय० ॥ १ ॥
 विविध वेदना वर्णन करते,
 सुयगड भगवतीमें गणधारी ।
 धारी दया दोय भेदे भवि जन,
 यारी शुद्ध होवे भव पारी । जय० ॥ २ ॥
 तीस पचीस पंचदश अरु दश,
 तीन एक कमी पांच विचारी ।
 लाख वास क्रमसे छट्ठीमें,

सप्तमी पांच वास उर धारी । जय० ॥ ३ ॥
 जीव असंख्य अतुल दुःख वेदी,
 परमाधार्मिक तीन न चारी ।
 वरण गंध रस फरस अनीठा,
 क्षेत्र वेदना महा अंधकारी । जय० ॥ ४ ॥
 आतम लक्ष्मी प्रभु दर्शनसे,
 पामे न जीव नरक अवतारी ।
 हर्ष अनुपम श्रेणि चढते,
 होवे जीव वह्यभ शिव नारी । जय० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

तेर एकदशा नव कहे, सात पांच तिग एक ।
 सात लरकके पाथडे, क्रमसे एह विवेक ॥ १ ॥
 एक तीन सत सागरा, दश सत्तर बावीस ।
 तेतीस उदधि सप्तमी, आयु कहे जगदीस ॥ २ ॥
 हाथ सवा इकतीसका, उत्कृष्टा तनुमान ।
 पहली नरके जानिये, ऊपर दुगुणा ठान ॥ ३ ॥
 चार कोश जिनवर कहे, धर्मा अवधि ज्ञान ।

अथ तृतीया पूजा ।

॥ दोहा ॥

तिरछा द्वीप समुद्र है, संख्यातीत उधार ।
 समय अढी सागर समा, ज्ञानी ज्ञान विचार ॥३॥
 मध्ये जंबू द्वीप है, जोजन लाख विथार ।
 लवणोदधि दो लाखका, वलयाकृति तस लार ॥२॥
 चार लाखका धातकी, कालोदधि अड लाख ।
 पुष्कर सोलां लाखका, दुगुणा पुष्कर भाख ॥३॥
 द्वीप उदधि इम सारिखा, नाम दुगुण परमान ।
 वरुण खीर घृत इक्षुवर, नंदीश्वर आभिधान ॥४॥
 अंतिम द्वीप समुद्र है, रमण स्वयंभु नाम ।
 एक राजका पृथु कहा, एक राज आयाम ॥५॥

(श्रीराग-वीर जिन दर्शन नयनानंद-देशी)

जिनवर पूजा सुरतरु केद । अंचली ।
 जंबूद्वीप धातकी खंड सोहे,
 पुष्करवरका अर्ध गहंद ।
 द्वीप अढी नर क्षेत्र कहावे,

लाख पैतालीस मान लहंद—जिन० ॥ १ ॥
 देव उत्तर कुरु हैम हैरण्ये,
 हरि वर्ष रम्यक निज छंद ।
 दो दो धातकी पुष्कर युगलिक,
 तीस अकर्म भूमि हुलसंद—जिन० ॥ २ ॥
 यांच भरत अरु पांच ऐरावत,
 पांच विदेह क्षेत्र सुखकंद ।
 जगनायक जगवत्सल जिनवर,
 जगजीवन उपकार करंद—जिन० ॥ ३ ॥
 भरतैरावतकी दश विजयां,
 शकसो साठ विदेह मिळंद ।
 उत्कृष्टा विचरंता लाभे,
 एकसो सत्तरि श्रीजिनचंद—जिन० ॥ ४ ॥
 आतम लक्ष्मी प्रगट करी सब,
 तारन तरनको विरुद धर्सद ।
 प्रभु उपदेश लहे भवी आतम,
 लक्ष्मी वल्लभ हर्ष अमंद—जिन० ॥ ५ ॥

४६८ विविध पूजासंग्रहे चउद राजलोक पूजा,

॥ दोहा ॥

ऊंचा योजन लाखका, एक सहस्र भू माह ।
ऊपर एक हजारका, नीचे दस अवगाह ॥१॥
भद्रसाल नंदन तथा, सुमनस पंडक नाम ।
चारों वनमें चैत्य हैं, कीजे तास पणाम ॥२॥
पांडु शिला पूरब दिशा, पांडु कंबल याम ।
रक्त रक्त कंबल शिला, पश्चिम उत्तर धाम ॥३॥
दो दो पूरब पश्चिमे, दक्षिण उत्तर एक ।
सिंहासन ते ते दिशा, होवे जिन आभिषेक ॥४॥
मंदर दो दो धातकी, पुष्कर वरमें ज्ञान ।
योजन पंचासी सहस्र, ऊंचा है जस मान ॥५॥

(वसंत-होई आनंद वहार-देशी)

जन्मोत्सव जिन रायरे,
होवे मेरु शिखरपे । अंचली ।
भरतैरावत एक समय जिन,
जन्मे दश सुखदायरे होवे मेरु० ॥ १ ॥
एक समय उत्कृष्टा विदेहे,

वीस जिनागम गायरे होवे मेरु० ॥ २ ॥
 एक एक दक्षिण उत्तरमें,
 पूर्व पश्चिम दो ठायरे होवे मेरु० ॥ ३ ॥
 ओछव करि हरि बहु परिवारिया,
 दीप नंदीसर जायरे होवे मेरु० ॥ ४ ॥
 आतम लक्ष्मी वल्लभ प्रभुकी,
 पूजा हर्ष मनायरे होवे मेरु० ॥ ५ ॥

(काव्य मंत्र पूर्ववत्)

अथ चतुर्थी पूजा ।

॥ दोहा ॥

जंबू दीपसु आठमा, नंदीसर अति सार ।
 इंद्रादिक उत्सव करे, जिन शासन जयकार ।१।
 पर्वत दधिमुख सोल हैं, अंजन पर्वत चार ।
 द्वात्रिंशत रातिकर भिली, बावन चैत्य विचार ।२।
 आठ रुचक कुँडलयुता, साठ जिनालय चार ।
 द्वार और सब जिनधरा, तीन तीन निरधार ।३।

४७० विविध पूजासंग्रहे चउद राजलोक पूजा.

अष्टोत्तर शत मध्यमें, चार दारकी सोले ।
इम इगसय चउवीस हैं, जिन पडिमा नहि मोल ।४७
जिन घर तीन दुआरकी, जानो पडिमा बार ।
इम इगसय अरु वीसका, सिद्धांते अधिकार ।५१

(खमाच-मानमदमनसे परिहरता-देशी)

सुरासुर महा उत्सव करता, दीप नंदीसर आय
सुरासुर महा उत्सव करता । अंचली ।
जिन कल्याणक तीन चौमासे, पर्युषणाचरता ।
करी अठाइ महोत्सव भावे, पुण्यरमा वरता ।१
पूर्व अंजन गिरि शक उक्तरमें, ईशानेंद्र करता ।
दक्षिण पश्चिम चमर बल्दिर, उत्सव चित धरता ।२
लोकपाल दधिमुख गिरि उत्सव, करता अघ जरता ।
व्यंतर ज्योतिषि आदि सुरासुर, रातिकर अनुसरता ।३
राज्यधानी सोलां सोलां चैत्य, उत्सव दुःख हरता ।
शक्रेशान इंद्राणि परिकर, आतम ऊधरता ।४
जंघा विद्याचारण मुनिवर, यात्रानंद भरता ।
आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ, भव सागर तरता ।५।

॥ दोहा ॥

होवे नहि नरखेतके, बाहिर वस्तु सुभाव ।
 मेघ नदी द्रह मेघके, गर्जारवका भाव ॥१॥
 जन्म मरण नरमात्रका, तीर्थकर बलदेव ।
 चक्री गति शशि सूरकी, गणधर वासुदेव ॥२॥
 समय स्थिति दिनरातकी, बादर आग निधान ।
 खाण अहण होवे नहि, विजली गर्भाधान ॥३॥
 कर्म भूमि पंदर सही, तीस अकर्म भिलाय ।
 छप्पन अंतर दीप ए, इगसय एक कहाय ॥४॥
 दोय भेद गर्भज कहे, एक छमोछम जान ।
 नर क्षेत्रे उपदेश ए, भाषे श्री भगवान ॥५॥

(वरवा-कहेरवा । धन धन वो जगमें नरनार)

धन धन उपदेशक भगवान
 भवोदधि पार लगानेवाले । अंचली ।
 नरक्षेत्रे श्री भगवान, नरक्षेत्रे केवल ज्ञान ।
 नरक्षेत्रे पद निरवान, सुनो प्रभुके गुण गानेवाले ॥१॥
 एकसो सिस्तेर जगनाथ, विचरे उत्कृष्टे साथ ।

दश वीस जघन्य सनाथ, प्रभु भवपार लगानेवाले
 सीमंधर आदि ईश, वर्तमान विदेहे वीश ।
 उपदेश करे जगदीश, भवि संसार मिटानेवाले
 दो कोटी केवल धार, दो कोटी साधु हजार ।
 जघन्य विदेह मझार, प्रभुके ध्यान लगानेवाले
 निज आत्म लक्ष्मी काज, सेवे हर्षे जिनराज ।
 मुक्ति वल्लभ शिरताज, प्रभु आत्म पद पानेवाले
 काव्य—मंत्र पूर्वकत् ॥



अथ पंचमी पूजा ।

॥ दोहा ॥

सातसो नवति ऊपरे, तारा हृंद विमान ।
 सम भूतलसे आठसो, योजन सूर्य विमान ॥१॥
 अस्सी योजन चंद्रमा, कृक्ष है योजन चार ।
 चार तीन बुध शुक्र है, तीन गुरु मन धार ॥२॥
 मंगल शनि तिग तिग कहा, इग सयदस सरवार ।
 क्षेत्रे सब चर कहे, बाहिर कहे अचार ॥३॥
 तो एक विंशति, ग्यारासो अरु ग्यार ।

योजन मेरु अलोकसे, चरथिरका परचार ॥४॥
शशिसे रवि जलदी चले, रविसे ग्रहकी चाल ।
ग्रहसे रिख रिखसे कही, शीघ्रहि तारा चाल॥५॥

(माढ-विमलाचल धारा देशी)

उपदेश उदारा जग हितकारा करते श्री भगवान् ।
भविजन भन धारा पाप पखारा शिव सुखकारा
करते श्री भगवान्-अंचली ॥

नवसो ऊपर नवसो नीचे, तिरछा लोक विचार ।
ज्योतिष व्यंतर देव असंखा, आगम बहु विस्तारा ॥१॥
रवि शशि दो दो जंबू दीपे, लवण समुद्रे चार ।
धातकी वार कालोदधि कहिये, बेतालीस परिवारा ॥२॥
पुष्कर अर्ध बहुत्तर सब मिल, इकसो वत्तीस होय ।
चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा, ज्योतिष पण विध जोया ॥३॥
ग्रह अद्वासी नक्षत्र अडवीस, कोडाकोडी तार ।
सहस छासठ नवसो पंचोतेर, एक चंद्र परिवार ॥४॥
संख्यातीत जिनालय सोहे, संख्यातीत जिनंद ।
आतम लक्ष्मी वल्लभ हर्षे, पूजे सब सुरवृद्ध ॥५॥

॥ दोहा ॥

पांच मेरु जिम चैत्य हैं, पंचासी परमान ।
 प्रतिमा दो सय सहस दस, वंदो धरि सनमान ॥१
 कांचन मिरि सिमि जानिए, सिद्धायतन हजार ।
 एक लाख नमिए विभू, ऊपर बीस हजार ॥२॥
 गजदंता गिरि बीस है, सिद्धायतन जिनंद ।
 दोय सहस अरु चारसो, नमन कंरो जिनचंद ॥३
 यमकाचल दश जिन घरा, जिन पडिमा शतबार ।
 पांच जिनालय चित्र गिरि, पडिमा शत दो चार ॥४
 तीस वर्षधर मानिए, तीस जिनालय सार ।
 छत्तीससो मन शुद्धसु, जिनवर बिंब जुहारा ॥५॥

(लावणी-संग नर पर नारी हरना-हेशी)

नमन भवि शाश्वत जिन करना
 प्रात समय नित्य ऊठ अपूरव पुण्य कोश भरना
 नमन भवि शाश्वत जिन करना । अंचली ॥
 पांच प्रासाद भवि जानो,
 पर्वत नाम विचित्र बिंब घट शत जिनवर मानो ॥

गिरि इषुकार चार कहिए,
 चारसो अस्सी बिंब नमन कर यात्रा फल लहिए ॥
 वखारा पर्वत पुन गहिए,
 अस्सी जिन घर दीपते, छन्नुसो जिन देव ।
 नमन करे भवि अघ हरे, देव करे जस सेव ।
 जिनागममें है यह वरना—प्रातः ॥ १ ॥
 वृत्त वैताढय बीस देहरा,
 चौबीससो जिन बिंब दीर्घ वैताढय शिखर सेहरा ॥
 एकसो सत्तरि दिल लाना,
 जिन घर जिनवर बिंब चारसो बीस सहस्राना ॥
 कूट दिग्गज नामे गाना,
 चालीस जिन घर चालीसा, प्रतिमाका परमान ।
 चार सहस्र अरु आठसो, धरिए नित्य नित्य ध्यान ॥
 ध्यान शुभ जिनवरका धरना—प्रातः ॥ २ ॥
 कुरु दश जिन घर दश सोहे,
 प्रतिमा एक हजार दोय शत ऊपर मन मोहे
 जंबू आदि तरु दश धारी,

४७६ विविध पूजासंग्रहे चउद राजलोक पूजा.

मुख्य वृक्षमें एक एकसो आठ हैं परिवारी ।
आठ दिशि आठ मंदिर भारी,
इम इकतरु प्रति जानिए, जिन घर इकसो सतारा
एकादश शत सत्तरि, जिन घर दश तरु धार ।
धरो जिन प्रतिमाका सरना—प्रात० ॥ ३ ॥

लाख इकचाली सहस वंदो,
चारसो ऊपर और जिनेसर शिवसुख तरुकंदो ।
तीनसो अस्सी कुँड सारा,
पणतालीस हजार छसो जिन बिंब मनोहारा ।
महानदी कुँड सयरि धारा,
चउरासी शत बिंब है, अस्सी द्रह जिनगेह ।
छन्दुसो जिन बिंबको, वंदो नामी देह ।
मिटे संसार जन्म मरना—प्रात० ॥ ४ ॥

चैत्य नरक्षेत्र कहे सारे,
मानुषोत्तर चार चारसो अस्सी बिंब धारे ।

५ अठ नंदीसर नंदे,
प्रतिमा आठ हजार तीनसो अडसठ सुखवंदे ।

रुचक कुँडल चउ चउ छंदे,
 चारसो छन्नु जिनवरा, दोनों स्थान विचार ।
 शाश्वत तिरछा लोकमें, आतम लक्ष्मी उदार ।
 हर्ष वल्लभ जिन पग परना—प्रात० ॥ ५ ॥

(काव्य—मंत्र पूर्ववत्)

अथ षष्ठी पूजा ।

॥ दोहा ॥

तीरछा आदि लोकसे, ऊर्ध्व लोक आति चंग ।
 देव अनेक प्रकारके, सुख भोगे मन रंग ॥ १ ॥
 राज देह सौधर्म है, अढि माहेद्र विचार ।
 चउ पण सहस्सारचुआ, सग लोकांते धार ॥ २ ॥
 लोक मध्य मृत लोक है, ऊर्ध्व मध्य ब्रह्म लोक ।
 चउथी पांचमी नारकी, मध्य मध्य अधो लोक ॥ ३ ॥
 अधो लोकके मूलमें, सात राज विस्तार ।
 पांच ऊर्ध्वके मध्यमें, एक अंत मृत धार ॥ ४ ॥
 प्रमाणांयुलसु नीपना, योजन कोडाकोड ।
 संख्यातीता राजमें, जिनवर वचने जोड ॥ ५ ॥

(सोरष-कुवजाने जादु डारा-हंशी)

कहा केवल ज्ञानी विचारा
 सुख भोगत सुर मनोहारा । अंचली ॥
 कल्प बार कल्पातीत चौदाँ, सुर षडविंश प्रकारा ।
 इंद्रादि मर्यादा कल्पे, अन्यत्र नहीं अधिकारा ॥३॥
 सौधर्मा ईशान दूसरा, तीसरा सनत कुमारा ।
 माहेंद्र ब्रह्म लांतक छटा, शुक्र सातमा धारा ॥२॥
 सहस्रार आनत अरु प्राणत, आरण अच्युत बारा ।
 नव गैवेयक त्रिक त्रिक भेदे, अनुत्तर पांच उदारा ॥४॥
 दो सागर दो सागर अधिका, सात सागर अब धारा ।
 सात सागर अधिका माहेंद्रे, ब्रह्म लोक दश साराधा
 छडे चउद सातमे सत्तर, अष्टादश सहसारा ।
 आतम लक्ष्मी पुण्य प्रभावे, वल्लभ हर्ष अपारा ॥५॥

॥ दोहा ॥

एक एक सागर वधे, गैवेयक परजंत ।
 तेतिस पाँच अनुत्तरे, भाषे श्री आरहिंत ॥१॥
 इंद्र सामानिक देवता, गुरु स्थानीया देव ।

बाह्य अभ्यंतर मध्य ए, पर्षद तीनके देव ॥२॥
 इंद्र देह रक्षक तथा, लोकपाल हैं चार ।
 सात कटकके देवता, देव प्रजा विस्तार ॥३॥
 किंकर किल्विष भेदसे, देव भेद दश जोय ।
 ऊर्योत्तिष व्यंतरमें गुरु, लोकपाल नवि होय ॥४॥
 आयु सागर मानसे, पखवाडे ऊसास ।
 वर्ष सहस उतने गये, भोजनका आयास ॥५॥

(देशी-जिनराजाताजा मल्ली विराजे भोयणी गाममे)

ज्ञानी महाराजा वर्णन कियारे देव लोकका
 । अंचली ॥ लेश्या स्थिति दीसि सुख ज्ञाने, ए-
 कसे एक सवाया । मान ममत्वे हीना हीना,
 अमसे सर्व मनायारे ज्ञानी ॥१॥ सिद्धायतन विमाने
 पूजे, सुर सुरप्रति जिनराया । पूजन विधि विस्तार
 अतिशय, रायपसेणी गायारे ज्ञानी ॥२॥ बत्तीस लाख
 अठावीस बाराँ, लाख आठ लख चारा । छडे स्वर्गे
 सहस पचासा, सप्तम चाली हजारे ज्ञानी ॥३॥
 छ हजार अष्टम देव लोके, नव दशमे शत चारा ।

ज्यारवारमेतीनसो कहिए, मान विमान आधारारे
ज्ञानी०॥४॥ देव ग्राय सुख साता भोगी, नहीं रोगी
नहीं सोगी । आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम, पासे
बलभ जोगीरे ज्ञानी०॥ ५ ॥

(काव्य-मंत्र-पूर्ववत्)

अथ सतमी पूजा ।

॥ दोहा ॥

दीप अरुणवर वेदीसु, उदधि अरुणवर जाय ।
सहस बयाली योजने, प्रगटे तम अपकाय ॥१॥
ज्यारांसो योजन गये, तिरछा हो विस्तार ।
ब्रह्मलोक जावें सही, स्वर्ग आवरी चार ॥२॥
प्रतर तीसरा ब्रह्मका, नाम अरिष्ट विमान ।
कृष्ण राजी दो दो कही, चार दिशा परमान ॥३॥
कृष्णराजीके अंतरे, आठ विमान समाय ।
नवमा मध्ये जानिए, लोकांतिक समुदाय ॥४॥
जिन दीक्षाके समयमें, आते ए नव देव ।

जय जय नंदा ऊचरी, करते प्रभुकी सेव ॥५॥

(सोहनी-सिद्ध गिरि तीरथपर जानाजी)

जिनराज पूजन फल पानाजी ।

पानाजी निरवानाजी जिनराज० अंचली ॥

सारस्वत आदित्यरु बही ।

वरुण गर्द तोय मानाजी—जिन० ॥ १ ॥

तुषित अव्याघाध कहावे ।

आग्नेय रिष्ट मिलानाजी—जिन० ॥ २ ॥

ब्रह्मलोक समीपे वासा ।

तिण लोकांतिक गानाजी—जिन० ॥ ३ ॥

अथवा लोक संसारके अंते ।

एकावतारी कहानाजी—जिन० ॥ ४ ॥

हित सुख जोग मोक्ष परलोके ।

साहायक बन आनाजी—जिन० ॥ ५ ॥

आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ ।

जिन आगम फरमानाजी—जिन० ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

सुदर्शन सुप्रबुद्ध है, नाम मनोरम जान ।

सर्वभद्र सु विशाल है, और सुमन अभिधान॥१॥

सुमनस प्रीतिकर तथा, नवमा आदित्य नाम ।
 पांच अनुक्तर मानिए, नाम ठाम अभिराम॥२॥
 विजय और विजयंत है, जयंत अपराजीत ।
 सरवारथ सिध पांच ए, सम्यग हृषि पुनीत॥३॥
 धर्म ध्यान ध्याता मुनि, तद भव मौक्ष न जाय ।
 तो इन स्वर्गे ऊपजी, नर भव उत्तम आय ॥४॥
 आराधन चारित्रिका, करके कर्म खपाय ।
 होवे निर्मल आतमा, जन्म मरण मिट जाय ॥५॥

कवाली ।

अपूरव स्वर्गका वर्णन, जिनेश्वर देव फरमावे ।
 अनुक्तर देव द्विचरमा, एक चरमा पंचम थावे ॥६॥
 प्रथम त्रिक एकसो ग्यारां, द्वितीय एक सय सत गावे।
 तृतीय एकसो अनुक्तरमें, जिनालय पांच बतलावे॥७॥
 चउरासी लाख सत्ताणु, सहस तेवीस कुल थावे ।
 ऊर्ध्व लोके जिनालयमें, नमो जिन बिंब शुभ भावे॥८॥
 कोटि एकसो बाबन लक्षा, चौरानु सहस गिनवावे ।
 चउताली सातसो साठे, सुनी भवि चित्त हुलसावे॥९॥
 ब्रह्म पर्यंत संन्यासी, ज्योतिषि तापसो जावे ।

तिरी पंचेद्री सहसरे, श्रावक अच्युत सुर थावे॥५॥
 स्वलिंगी मिथ्या दष्टि जे, सामाचारीमें मन लावे।
 अंत्य ग्रैवेयके जावे, धर्म साधुके परभावे ॥ ६ ॥
 पूर्वधर पूर्ण ब्रह्मादि, सिद्ध सर्वार्थ गति पावे।
 आत्म लक्ष्मी भवांतरमें, प्रगट वल्लभ हर्षावे॥७॥

(काव्य-मंत्र-पूर्ववत्)

अथ अष्टमी पूजा ।

॥ दोहा ॥

सरवारथ सिध ऊपरे, ऊंचे योजन बार ।
 सिद्ध शिला पृथिवी कही, नाम इष्टत् प्राग्भार॥१॥
 अर्जुन सोना सारखी, अमल फटक सम जोय ।
 पैताली लख योजनी, लंबी पिहुली होय ॥ २ ॥
 मोटी योजन आठ है, मध्य अंत पर माख ।
 उलटे छत्राकारसे, गणधर आगम साख ॥ ३ ॥
 सिद्ध शिलाको लंघके, तीन कोश उपरंत ।
 भाग छठे इक कोशके, रहते सिद्ध भगवंत ॥४॥

सुमनस प्रीतिकर तथा, नवमा आदित्य नाम ।
 पांच अनुक्तर मानिए, नाम ठाम अभिराम॥२॥
 विजय और विजयंत है, जयंत अपराजीत ।
 सखारथ सिध पांच ए, सम्यग हृषि पुनीत॥३॥
 धर्म ध्यान ध्याता मुनि, तद भव मौक्ष न जाय ।
 तो इन स्वर्गे ऊपर्जी, नर भव उत्तम आय ॥४॥
 आराधन चारित्रिका, करके कर्म खपाय ।
 होवे निर्मल आतमा, जन्म मरण मिट जाय ॥५॥

कब्बाली ।

अपूरव स्वर्गका वर्णन, जिने श्वर देव फरमावे ।
 अनुक्तर देव द्विचरमा, एक चरमा पंचम थावे ॥१॥
 प्रथम त्रिक एकसो ग्यारां, द्वितीय एक सय सत गावे ।
 तृतीय एकसो अनुक्तरमें, जिनालय पांच बतलावे ॥२॥
 चउरासी लाख सत्ताणु, सहस्र तेवीस कुल थावे ।
 ऊर्ध लोके जिनालयमें, नमो जिन बिंब शुभ ॥
 कोटि एकसो बाबन लक्षा, चौरानु सहस्र ॥
 चउत्ताली सातसो साठे, मुनी भवि चिर ॥
 ब्रह्म पर्यंत संन्यासी, ज्योतिषि ॥

(जंगले-ताल दीपचंदी, एकेली जानसें मैं तो दुःख सह्यारी, देशी)

सखी मैं तो विनय पिण्डाना री, अनंते
 कालमेरे मैं तो विनय०॥ अंचली॥ तर्थिकर सिद्ध
 कुल गण संघा, किरिया धर्म सुज्ञाना री॥ स०
 ॥ अ० ॥ २॥ ज्ञानी सूरि थिविर पाठक गणि, पद
 लैरां विधाना री ॥ स० ॥ अ० ॥ ३॥ अना-
 श्वातना भक्ति सुहंकर, अतिमान गुण गानारी
 ॥ स० ॥ अ० ॥ ४॥ दोय सहसने चिहुत्तर
 अधिके, वंदन देव विधाना री ॥ स० ॥ अ० ॥ ५॥
 खारसो बानवे गुरुवंदन विधि, विनयी जन चित्त
 आजा री ॥ स० ॥ अ० ॥ ६॥ जिनवंदन हि
 तप अति भारी, दुर्गति नाश कराना री ॥ स०
 ॥ अ० ॥ ७॥ श्रद्धा भासन तत्त्व रमणता,
 विनयी कारज गाना री ॥ स० ॥ अ० ॥ ८॥
 धन्ना एह पद विधिसुं सेवी, आत्मरंग भराना
 री ॥ स० ॥ अ० ॥ ९॥

॥ काव्य ।

आदिश्वादिगुणाभिवदान्यकं, जिनवरेन्द्र-

श्रीमद् विजयानंदसूरक्षित वीसथानक पृष्ठा । १०१

पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विश्वतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते विनयप-
दाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १० ॥

॥ एकादशी चारित्रपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चरण शरण भव जल तरण, चरण शरण सुख सार ॥
रंक महंत करे सही, सुर नर सेवाकार ॥ १ ॥
तीन जगतपति पद दिये, इंद्रादिक गुण गाय ॥
कलिमल पंक पखारना, जय जय संयम राय ॥ २ ॥

(सोरठ-ताल रूपक, लगीलो नाभी बंदनशु, देशी)

चरण पद मनरंग रे जीया ॥ च० ॥ अंच-
लि ॥ आठ कर्मको संचयको जे, रिक्त करे भयो
भंग । चारित्र नाम निरुक्ते मान्यो, शिव रमणी
को संग रे जीया ॥ च० ॥ १ ॥ षट् खण्डकेरो
लाज्य जेहने, रमणी भोग उतंग ॥ चक्री संज्ञमा-

रसमें लीनो, चिदधनराज अभंग रे जीया ॥
 च० ॥ २ ॥ बारे कषाय जरे जब नीके, प्रगटे सं-
 यम चंग ॥ आठ कषाय गये अणुविरती, चा-
 रित्र मोह विरंग रे जीया ॥ च० ॥ ३ ॥ वर्ष
 संयमके सुखकी श्रेणि, अनुत्तर सुर सुख चंग ॥
 तत्क रमणता संयम विन नहीं, समर अमर
 अनंग रे जीया ॥ च० ॥ ४ ॥ वरुण देव
 संयम पद साधी, अरिहंत रूप असंग ॥ आत-
 मानंदी सुरनर वंदी, प्रगटयो ज्ञान तरंग रे
 जीया ॥ च० ॥ ५ ॥

॥ काव्यं ॥

आतिशयादिगुणाभिवदान्यकं; जिनवरेन्द्र-
 यदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूद-
 नं, कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमे-
 श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते चारि-
 अपदाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ११ ॥

॥ द्वादशी ब्रह्मचर्यपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

कामकुंभ सुरतरु माणि, सब व्रत जीवन सार ॥
 कामित फलदायक सदा, भव दुःख भंजनहार॥१॥
 तारागणमें उडुपति, सुरगणमें जिम इंद ॥
 विराति सकल मुख मंडना, जय जय ब्रह्म गिरिंद् २
 (सोरठी-तालदीपचंदी-इथाम नेक दया मोंसे न करो, देशी)

इथाम ब्रह्म सुहंकर लखरी ॥ इथाम० ॥
 अंचलि ॥ कुमति संग सब शुध बुध भूली, अ-
 नुभव रस अब खचरी ॥ इथाम० ॥ १ ॥ नव
 वाडे शुद्ध ब्रह्म आराधे, अजर अमर तुं अल-
 खरी ॥ इथाम० ॥ २ ॥ औदारिक सुर कामजा-
 लसे, अपने आपको रखरी ॥ इथाम० ॥ ३ ॥
 सिंहादिक पशु भय सब नाशे, ब्रह्मचर्य रस
 चखरी ॥ इथाम० ॥ ४ ॥ विजयशेठ विजया गु-
 णवंती, सुदर्शन काम कखरी ॥ इथाम० ॥ १२ ॥
 दशमे अंगे बत्रीदा उपमा, ब्रह्मचर्यकी दखरी ॥

इयाम० ॥ ६ ॥ आत्म चंद्रवरम् नरवर ज्युं, अ-
रिहंत पद सुख अखरी ॥ इयाम० ॥ ७ ॥
॥ काव्यं ॥

अतिशयादिगुणाद्विधवदान्यकं, जिनवरेद्रप-
दस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते ब्रह्म-
चर्याय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

— • —
॥ त्रयोदशी क्रियापदपूजा ॥

॥ द्वैहा ॥

चिद् विलास रस रंगमें, करे क्रिया भवि चंग ॥
करम निकंदन यश भरे, उछले ज्ञान तरंग ॥१॥
आगम अनुसारी क्रिया, जिनशासन आधार ॥
प्रवर ज्ञान दर्शन लहे, शिवरमणी भरतार ॥२॥
(माठ फलबृद्धि पारश नाथ, प्रभुको पूजो तो सही ॥ देशी)
थारी गड़े अनादि निंद, जरा टूक जोवो

तो सही। जोवो तो सही, मेरा चेतन जोवो तो
सही। था० । अं। ज्ञान संग किरिया दुःखहरणी,
नेवो तो सही, मेरा चेतन नेवो तो सही ॥ एह
धर्म शुक्ल शुद्ध ध्यान हृदयमें, पोवो तो सही।
पोवो० मे० ॥ था० ॥ १ ॥ आर्ति रौद्रकी पण-
वीस किरिया, खोवो तो सही, मेरा चेतन खोवो
तो सही । अनुभव सम रस सार जरा तुम्ह
टोवो तो सही ॥ टोवो० मे० । था० ॥ २ ॥ अड
दिठी सम्मत जोगकी किरिया, ढोवो तो सही,
मेरा चेतन ढोवो तो सही । प्रथम चार
तजी चार ग्रही पर, होवो तो सही, होवो० मे०
था० ॥ ३ ॥ समकितकी करणी दुःख हरणी,
लेवो तो सही, मेरा चेतन लेवो तो सही। दुक्ल
दुर्नय पंथ विडार ज्ञान रस, गोवो तो सही ॥
गोवो० मे० ॥ था० ॥ ४ ॥ अंतर तत्त्व विषय
मन प्रीति, छोवो तो सही, मेरा चेतन छोवो
तो सही । एह ज्ञान क्रिया निज गुण रंग रची,
थोवो तो सही, थोवो० मे० ॥ था० ॥ ५ ॥ अनु-

ध्यानके थानक त्रेशठ, खोवो तो सही, मेरा
 चेतन खोवो तो सही । पुण्यानुवंधी पुण्य बीज
 दुक, बोवो तो सही ॥ बोवो० मे० ॥था० ॥६॥
 क्रोध मान माया जडता संग, धोवो तो सही,
 मेरा चेतन धोवो तो सही । एह हरिवाहन आ-
 तम रस चाखी, मेवो तो सही ॥ मेवो० मे० ॥
 .था० ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाभिवदान्यकं, जिनवरेद्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
 कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ हँ श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
 राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते क्रियाष-
 दाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १३ ॥

॥ चतुर्दशी तपःपदपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

उपशम रस युत तप भलो, काम निकंदन हार ।
 कर्म तपावे चीकणां, जयजय तप सुखकार ॥ १ ॥

(राग विहाग ॥ ताल दीपचंदी)

युं सुधरे रे सुज्ञानी अनघ तप ॥ युं० ॥
 अंचलि ॥ कर्म निकाचित छिनकमें जारे, निर्दभ-
 तप मन आनी ॥ अनघतप युं० ॥ १ ॥ अर्जुन--
 माली हृषि परिहारी, तपसुं धरे शुभ ध्यानी ॥
 अनघतप युं० ॥ २ ॥ लाख अग्न्यारह अस्सी-
 हजारा, पंच सयां गिन ज्ञानी ॥ अनघतप युं०
 ॥ ३ ॥ इतने मास उमंग तप कीनो, नंदन
 जिनपद ठानी ॥ अनघतप युं० ॥ ४ ॥ संवत्सर
 गुणरख जपीनो, अतिमुक्त सुख खानी ॥ अन-
 घतप युं० ॥ ५ ॥ चौदे सहस्र मुनिवरमें अधिको,
 धन धन्नो जिनवानी ॥ अनघतप युं० ॥ ६ ॥
 कनक केतु तप शुद्ध पद सेवी, आत्म जिनपद-
 दानी ॥ अनघतप युं० ॥ ७ ॥

॥ काव्यं ॥

अतिशयादिगुणाद्विवदान्यकं, जिनवरेद्व-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
 कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः अँ ही श्री परमपुरुषाय परमे श्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते तपःपदाय ज-
लादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १४ ॥

॥ पंचदशी दानपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

दानें भव संकट मिटे, दानें आनंद पूर ॥
दानें जिनवर पद लहे, सकल भयंकर चूर ॥१॥
अभय सुपातर दान दें, निस्तरिया संसार ॥
मेघ सुमुख वसुमाति घना, कहत न आवे पार ॥२॥
(जंगलों-ठेको पजावी॥रच्यो लिखिवृद्धावन, रास तो गोविंद-देशी)

दान तो अभंग दीजे मन धरी रंग ॥ दा०
अ० ॥ खान तो अमर अज, सुख तो अभंग॥
गौतम रतन सम, पात्र सुरंग ॥ दा० ॥१॥
कनक समान मुनि, पात्र उतंग ॥ देशविरति
यात्र रौप्य, मध्यम सु भंग ॥ दा०॥२॥ समदर्शी
जीव मानो, जघन तरंग ॥ कांस्य पात्र पात्रसम,
सुख दे निरंग ॥ दा० ॥३॥ शालिभद्र कृतपुन्ना,

धन्ना शुभचंद ॥ दानसे अनंत सुख, कहत जि-
नंद ॥ दा० ॥ ४ ॥ दानसे हरिवाहन लीनो,
जिनपद संग ॥ आतम आनंद कंद, सहज उमंग
॥ दा ॥ ५ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाब्धिवदान्यकं, जिनवरेंद्र-
पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसू-
दनं, कुरुत विंशतिसम्पदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते दान-
पदाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १५ ॥

—३५—

॥ षोडशी वैयावृत्यपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

वैयावच्च पद सोलमें, अखिल विमल गुण खान ॥
अप्रतिपाति पद खरो, आगम कथित निदान ॥ १ ॥
जिन सूरि पाठक मुनि, बालक वृद्ध गिलान ॥
तपी संघ जिनचैत्यका, वैयावच्च विधान ॥ २ ॥

॥ जंगलो श्रीमान्नी-पंजाकी डेको ॥

(गिरनारीकी पहाड़ीपर कैसेगुजरी-देशी)

शुद्ध वेयावच्च कर जिन पद वर री ॥ शुद्ध०
 ॥ अं० ॥ तीर्थकर केवली मनपर्यव, अवाभि च-
 तुर्दश पुव्वधरी ॥ शुद्ध० ॥ १ ॥ दश पूर्वा उ-
 त्कृष्ट चरणधर, लघिमंत ए जिन सगरी ॥
 ॥ शुद्ध ॥ २ ॥ जिनमंदिर जिन चैत्य करावें,
 पूजा हरें मन तनु सुधरी ॥ शुद्ध० ॥ ३ ॥ द-
 द्वामे अंगे जिनवर भाखे, कुमति कुसंग सब
 हुर भगरी ॥ शुद्ध० ॥ ४ ॥ नव पद शेष सूरी
 श्वर आदि, वैयावृत्य कर उठ जगरी ॥ शुद्ध०
 ॥ ५ ॥ शत पंच मुनिकी वेयावच्च करके, भरत
 बाहुबल शिव मंगरी ॥ शुद्ध० ॥ ६ ॥ नृप जि-
 मूतकेतु पद साधि, आत्मजिन पद रस गगरी
 ॥ शुद्ध० ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणादिवदान्यकं, जिनवरेद्-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूद-
 नं, कुरुत विंशतिसंपदपूजनन् ॥ १ ॥

श्रीमद् विजयानन्दसूरिकृत बीसथानक पूजा. १११.

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते वैया-
वृत्याय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १६ ॥

॥ सप्तदशी समाधिपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

निजआत्म गुण रमणता, इंद्रिय तजी विकारा।
थिर समाधि संतोषमें, भयदुःख भंजनहार ॥१॥
(जंगलो झींजोटी-पंजाबी ठेको मानोने चेतनजीं मारी बान-देशा)

राचो रे चेतनजी मन शुद्ध लाग ॥ रा-
चो० धारो धारो समाधि केरो राग ॥ राचो ॥१॥
या संग नाश कह्यो भववनको, अब यों सरक्खो
भाग ॥ राचो ॥०२ ॥ द्रव्य समाधि भाव स-
माधि, सुमति केरो सुहाग ॥ राचो० ॥ ३ ॥
अशन वसनसे भवित संघकी, द्रव्य समाधि
अथाग ॥ राचो० ॥ ४ ॥ सारण वारण चौयण
करनी, दुतीय समाधि जाग ॥ राचो० ॥ ५ ॥
सकल संघको दुविधि समाधि, निपजावे महा-
भाग ॥ राचो० ॥ ६ ॥ पंच समिति तीन गुप्ति

धरे नित, निश्च दिन धरत विराग ॥ राचो० ॥ ७ ॥
 चार निक्षेप नय सतभंगी, कारण पञ्च निराग ॥
 राचो० ॥ ८ ॥ चार प्रमाण द्रव्य षट् माने,
 नव तत्त्व दिलमें चिराग ॥ राचो० ॥ ९ ॥ सा-
 मायिक नव द्वार विचारी, निज सत्ताको विभा-
 ग ॥ राचो० ॥ १० ॥ पुरंदर नृप ए पद् सेवी,
 आत्म जिनपद मांग ॥ राचो० ॥ ११ ॥

अतिशयादिगुणाधिवदान्यकं, जिनवरेऽद्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं-
 कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ उँही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते समाधिपदाय
 जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १७ ॥

॥ अष्टादशी अभिनवज्ञानपदपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

ज्ञाने अपूरव ग्रहण कर, जागे अनुभव रंग ॥
 कुमाति जाल सब जार के, उछले तत्त्वतरंग ॥ १ ॥

पदे अद्वारमे पूजियें, मन धरि अधिक उमंग ॥
ज्ञान अपूरव जिन कहे, तजी कुगुरुको संग॥१॥
(बरबो-ताल दुमरी-मन मोहा जंगलकी हरणी ने-देशी)

भवि वंदो अपूर्व ज्ञानतरणिने ॥ भवि० ॥
अंचलि ॥ कुमति घूक सब अंध हुए हैं, भूलें ज-
डमति करणी ने ॥ भवि० ॥ १ ॥ ज्ञान अपूरव
जबही प्रगटे, शुद्ध करे चित्त धरणी ने ॥ भवि०
॥ २ ॥ निर्युक्ति शुद्ध टीका चूरणी, मूल भाष्य
सुख भरणीने ॥ भवि० ॥ ३ ॥ संप्रदाय अनुभ-
व रस रंगे, कुमति कुपंथ विहरणीने ॥ भवि० ॥
॥ ४ ॥ सदगुरुकी ये तालिका नीकी, रतन संदू-
ख उघरणीने ॥ भवि० ॥ ५ ॥ इन विन अर्थ करे
सो तस्कर, काल अनंता मरणीने ॥ भवि० ॥ ६ ॥
सम्मति कर्म ग्रंथ रक्खाकर, छेद ग्रंथ दुःख हर-
णीने ॥ भवि० ॥ ७ ॥ द्वादशार वर्णी अंग उपांगा,
सत भंग शुद्ध वरणीने ॥ भवि० ॥ ८ ॥ इत्यादि-
क भवि ज्ञान अपूरव, पठन करे धरे चरणीने ॥

भवि० ॥९॥ सागरचंद् जिनंदपद् पायो, आतम
शिववधू परणीने ॥ भवि० ॥ १० ॥

॥ काव्यं ॥

अतिशयादिगुणादिवदान्यकं, जिनवरें-
द्दपदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चय-
सूदनं, कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतेऽभिन-
वज्ञानाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १८ ॥

॥ एकोनविंशी श्रुतपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पाप तापके हरणको, चंदन सम श्रुत ज्ञाने ॥
श्रुत अनुभव रस राचियें, माचियें जिन गुण तान ॥
इंगुण वीस पद पूजियें, जिनवर वचन अभंग ॥
तीर्थकर पद भवि लहे, छार कुमतिको संग ॥२॥
(इयाम कल्याण-श्रीराधा राणी दे डारो ने बांसरी हमारी-देशी
श्री चिदानंद विडारो ने कुमति जो मेरी

॥ श्री० ॥ अंचालि ॥ दुष्म कालमें कुमति अं-
धेरो, प्रगट करे सब चोरी ॥ श्री० ॥ १ ॥ ब-
त्तीस दोष रहित श्रुत वांचे, आठ गुणे करी
जोरी ॥ श्री० ॥ २ ॥ अरिहंत गणधर भाषित
नीको, श्रुत केवली बल फोरी ॥ श्री० ॥ ३ ॥
अत्येक बुद्ध दश पूरवधर, श्रुत हरे भव कोरी
॥ श्री० ॥ ४ ॥ आठ आचार जो कालादिक हैं,
साधे करम निचोरी ॥ ॥ श्री० ॥ ५ ॥ चारोहि
अनुयोग गुरुगम वांचे, दूटे कुपंथकी दोरी ॥
श्री० ॥ ६ ॥ चौद भेद श्रुत वीस भेद हैं, अंग
ययन्ना कोरी ॥ श्री० ॥ ७ ॥ रत्नचूड नृप ए
यद सेवी, आतम जिनपद हो री ॥ श्री ०॥८॥
॥ काव्यं ॥

अतिशयादिगुणाब्धिवदान्यकं, जिनवरेद्र-
पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे श्र-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते श्रुतपदाय

जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १९ ॥

—*—
॥ विशतितपतीर्थपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

जिनमतकी प्रभावना, करे प्रभावक आठ ॥
श्रावक धन खरची करें, रथयात्रादिक ठाठ ॥१॥
प्रावचनी अरु धर्मकथी, वाढ़ी निमित्त सुज्ञाना ॥
तपी सिद्ध विद्या कवि, आठ प्रभावक जान ॥२॥

(राग पीलू-ताल दीपचंदी)

तीर्थ उजारो अब करीये, भविक वृद् ॥
दाख्यो रे जिनंदपद आनंद भरे री ॥ ती०॥अ०
तीर्थ प्रकार दोय, थावर जंगम जोय ॥
सिद्धगिरि आदि जोय, दर्श करे री ॥ ती०॥१॥
शिखर संमेत झंपा, पावापुरी दुःख कंपा ॥
अष्टापद रैवत जिनंद, शिव वरे री ॥ तीर्थ०॥२॥
इत्यादि जिन स्थान, जनम विराति ज्ञान ॥
समज सुज्ञान ठान, भक्ति खरे री ॥ तीर्थ०॥३॥
थावर तीर्थ रंग, मन धरी अति चंग ॥
संघ काढी महानंद, धर्म सुधरेरी ॥ तीर्थ०॥४॥

संघकी भक्ति करी, जयज्जयकार जग करी ॥
 पावना प्रभावनासे, उन्नति करे री ॥ तीर्थ०॥५॥
 भरत सागर लेन, महापद्म हरिषेण ॥
 संप्रति कुमारपाल, वस्तुपाल नरे री ॥ तीर्थ०॥६॥
 रथण पंच रंग करी, कंचनको थाल भरी ॥
 तीर्थ वधावो गुण, गावो चित्त खरेरी । तीर्थ०॥७॥
 आतम आनंद पूर, करम कलंक चूर ॥
 मेरुप्रभ जिन पद, सुखमें वरे री ॥ तीर्थ०॥८॥

॥ काव्य ॥

अतिशयादिगुणाद्विवदान्यकं, जिनवरेद्र-
 पदस्य निदानकम् ॥ निखिलकर्मशिलोच्चयसूदनं,
 कुरुत विंशतिसंपदपूजनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
 श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते तीर्थ-
 पदाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २० ॥

॥ अथ कलश ॥

(राग धनाश्री-पंजाबी ठेको)

शुद्ध मन करो रे आनंदी, विंशति पद शुद्ध
 ॥ अंचलि ॥ विंशति पद पूजन करी विधिसुं,

उजमण करो चित रंगी ॥ विं० ॥ १ ॥ ए सम
अवर न करणी जगमें, जिनवर पद सुख चंगी
॥ विं० ॥ २ ॥ तपगच्छ गगनमें दिनमणि स-
रिसे, विजयसिंह विरंगी ॥ विं० ॥ ३ ॥ सत्य
कपूर क्षमा जिन उत्तम, पद्म रूप गुरु जंगी ॥
॥ विं० ॥ ४ ॥ कीर्ति विजय गुरु समरस भीने,
कस्तूर मणि है निरंगी ॥ विं० ॥ ५ ॥ श्रीगुरु
बुद्धि विजय महाराजा, मुक्तिविजय गणि चंगी
॥ विं० ॥ ६ ॥ तस लघु भ्राता आनंद विजये,
गाई विंशति पद भंगी ॥ विं० ॥ ७ ॥ खं युग
अंक इंदु (१९४०) वत्सरमें, बीकानेर सुरंगी ॥
॥ विं० ॥ ८ ॥ आत्माराम आनंद पद पूजो,
मन तन होय एक रंगी ॥ विं० ॥ ९ ॥

॥ इति विंशतिरथानकपूजा ॥

इति जैनाचार्य श्री १०८ श्रीमद्विजयानन्द सूरि-
(आत्मारामजी) विरचित पूजासंग्रहः

॥ अहंम् ॥

॥ श्रीनेमिनाथस्वामिने नमः ॥

अथ मुनिमहाराज श्रीहंसविजयजी कृत.

गिरनार मंडन श्री नेमिनाथजीकी १०८ प्रकारी पूजा.

॥ दोहा ॥

श्री चंद्रप्रभ जिन नमुं, उपगारी अरिहंत;
 प्रभासको तीरथ किया, समवसरी भगवंत. ॥१॥
 विजयानंद सूरि नमुं, नमु गुरु अति गुणवान;
 श्रीयुत लक्ष्मीविजय को, जिम आवे शुभ शाना॥२॥
 जिनवर वाणी भारती, मनकी पुरे आस;
 अरिहंत मुख कंमले वसे, पेंतीस गुण हैं तास. ॥३॥
 जास परम परतापसे, जिनशासन जयकार;
 वर्त रहा कलिकालमें, कोइ न रोकणहार. ॥४॥
 देव गुरु अरु सरस्वती, त्रिवेणी तुल्य तीन;
 दिल दरियामें धारके, मीन परे हो लीन. ॥५॥
 श्री गिरनार गिरिंदके, मंडन नेमिनाथ;
 पूजा इनोंकी रचुं, तरनेको भवपाथ. ॥६॥

नव कलश अभिषेक नव, करना बारां बार;
 अष्टोत्तर शत इण विधे, पूजन के परकार. ॥७॥
 प्रतिपूजा फल फूलसे, भरके सुंदर थाल;
 वस्तु विविधसे पूजिये, टरे दुःखजंजाल. ॥८॥
 च्यवन जन्म दीक्षा अरु, ज्ञान मोक्ष 'महकार;
 इंद्रादि बहु देवने, किया सफल अवतार. ॥९॥

अथ प्रथमा पूजा.

॥ दोहा ॥

धनेश्वर सूरि राजका, ऐसा है फरमान;
 नेमिनाथ निर्वाणसे, वर्ष सहस दो मान. ॥१॥
 वीत गये ब्रह्मेद्रका, नेमि जिन बिंब सार;
 रत्न शेठ पधरायके, उत्तर गया भव पार. ॥२॥
 मुख्य मंदिरे बिंब सो, दिसत हैं वर्तमान
 पूजो प्रणमो प्रेमसे, करके प्रभु गुण गान. ॥३॥

॥ राग काफी होगी. ॥ नेम निरजन ध्यावोरे ॥ ए चाल ॥

गिरनार गिरिपर पूजोरे, श्री नेमि जिणदा.
 गिर० ॥ ए आंकणी ॥ शिवा देवी सुत जगत

१ महोत्सव. २ दो हजार वर्ष व्यतीत हुए.

सु. म. श्रीहंसवि. कृत श्रीनेमिनाथकी१०८प्रकारी पूजा. १२९

शुभंकर, कल्याण वल्लीका कंदारे ॥ श्री० १ ॥
समुद्र विजय कुल कमल विकासन, कारण जैसा
दिणंदारे ॥ श्री० २ ॥ शंख लंछन शोभे साथ-
लमें; शंख ध्वनि दे आणंदारे ॥ श्री० ३ ॥ शांत
वदन शीतलता अर्पे, जेसे गगनमें चंदारे ॥
श्री०४ ॥ बाल ब्रह्मचारी देव है चंगा, कामी देव
सब गंदारे ॥ श्री० ५ ॥ स्याम वरण छबीला-
गत प्यारी, सेवो तुमे भवि बंदारे ॥ श्री० ६ ॥
आतम लक्ष्मी हंसपरे लहो, टारो भवोभव
फंदारे ॥ श्री० ७ ॥

होइ आनद वहाररे, प्रभु बेठे मगनमे ॥ यह चाल ॥

अरिष्ट नेमि भगवानकी, पूजा विधिसे क-
रनी ॥ ए अंचली ॥ पृथ्वी तथा उपकरणकी
शुद्धि, स्थिति शुद्धि करी साररे ॥ पूजा० १ ॥
मन वच काय वस्त्रकी शुद्धि, सदा हृदयमें धा-
ररे ॥ पूजा० २ ॥ जैन तत्वादर्श ग्रंथमें गावे,
शुद्धि सात प्रकारे ॥ पूजा० ३ ॥ विजयानंद
सूरीश्वर स्वामी, आत्माराम अणगारे ॥ पूजा०

॥ ४ ॥ जेसलमेरके मंदिर बाहिर, चोकीयाँ हैं
सप्रणालरे. ॥ पूजा० ॥ ऐसी पथ्थरकी चोकीपर
करे, स्नान श्रद्धालु उदाररे. ॥ पूजा०६ ॥ प्रणाल
जलको शुष्क जगोमें, छंटकावे सागाररे. ॥
पूजा० ७ ॥ इस विधि पूजासें तरजावे, हंस परे
नर नाररे. ॥ पूजा० ८ ॥

॥ काव्य ॥ तोटक वृत्तं. ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परिव-
र्जित बाहुबलम्; प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं, गि-
रनार विभूषण नेमि जिनम् ॥ ९ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय श्रीनेमिजिनाय जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥ १३ ॥

अथ द्वितीया पूजा.

॥ दोहा ॥

मालती फूल मनोहरु, रैवत परवत जेह;

मु. म. श्रीहंसवि. कृत. श्रीनेमिनाथकी१०८प्रकारी पूजा. १२३

भूमि भासिनी मस्तके; धम्मिल सम है तेह. ॥१॥
मेघ घटा सम शैलको, देख ठौर पर ठोर;
कला करी केकारवे, ठम ठम नाचत मोर. ॥२॥
क्रीडा कंदुक सारीखा, शिव नारीका सार;
नेमि चैत्यके अग्रमें, शोभे कलश अपार. ॥३॥
भीमसेन अति पातकी, मात तात हणनार;
सांवत्थी नगरी धणी, चोर जार घाकार. ॥४॥
चार वर्ष सेवा करी, नेमिनाथकी सार;
श्री गिरनारके उपरे, मोक्ष गया अनगार. ॥५॥
वारी वारी जाबुं, श्री नेमिनाथका मंडप देखी सुशी याबुं ॥यह चाल॥

वारी वारी जाबुं, श्री नेमिनाथकी पूजासे
खुश खुश बनजाबुं. ॥ ए आंकणी० ॥ अमीरस
वाणी बोलते, बुद्धिके भंडार; बालपणेमें मित्रोंके
संग, रमते नेमि कुमार. ॥ वा० १ ॥ एक दिन
आयुध—शालामें जा, कीया धनुष्य टंकार; शंख
चक्र ओर गदा गोविंदकी, निरखे वारंवारा। वा०
॥ २ ॥ आयुध रक्षक कहे नेमजी, कृष्ण तणाँ ए

काम; चक्रादिके चलानेमें कोइ, आरे न घाले हाम. ॥ वा० ३॥ कुलाल चाक परे चक्र फिराया, शंख बजाया जोर, धरा धडधडी लोक चमकीये, करने लागे सोर. ॥ वा. ४॥ मोरारि मन चिंतवे ऐसा, यह क्या हुवा उतपात; हंस कहे धीरज धारणसे, होवे सब सुख सात ॥ वा. ५ ॥

केसरीया थासुं, प्रीत करीरे साचा भावसुं ॥ ए देशी ॥

नेमि जिन केरी, पूजा करोरे साचा भावसे, नेमि० ॥ ए आंकणी ॥ न्हाके श्रावक अंग सफा कर, कंबल पहेरे साफ, ढुंकी फाटी कंबलका है, युना न होगा माफरे ॥ नेमि० ॥ ६॥ गिल्ले पांचमें लगे तो होवे, जलदी जीव विनास, आचार उपदेशका फरमाना, महा पाप है तासरे ॥ नेमि० ॥ ७॥ जिन आणा सम तिलक भालमें, करे शिखरबंध सार; आठ पुडा मुख कोसको बांधे, लागे न थुंक लगारे ॥ नेमि० ३ ॥ अंग अग्र और भाव भेदसे, पूजा करे नरनार; हंस परे

मु. म. श्रीहंसवि. कृत. श्रीनेमिनाथकी १०८प्रकारीपूजा. १२५

वोहं भाग्यशाली झट, उतरेगे भवपाररे ॥
नेमि० ४ ॥

॥ काव्यं ॥ तोटक वृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
वर्जित बाहुबलम्, प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण-नेमि जिनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ हूँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतंगिरनार
गिरिविभूषणाय, श्री नेमिजिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥

अथ तृतीया पूजा.

॥ दोहा ॥

रक्षा कारण राखडी, समं शोभे गिरनार;
स्वर्ण कलश है बीचमें, नील वृक्षकी लार. ॥३॥
आंबा तोरण बछहै, कदली-फलका स्थान
नरनारीके गीतसे, हमेशा उत्सव वान. ॥ २ ॥
रात्रे औषधि दीप है, दिवसमें है दिन ईन

कुसुमांजली चढावे, सबी कलसको मंजावे;
 पंचामृते भरावेरे, प्रभु अंग पूजा कीजे ॥४॥
 अभिषेक स्वच्छ करावे, सुर राज जेम भावे;
 निज हंस उज्ज्वल बनावेरे, प्रभु अंग पूजा कीजे ॥५॥
 ॥ काव्य ॥ तोटक वृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गृणना परि-
 वर्जित बाहुबलम् प्रणमामि जगत्त्रय वोधिकरं,
 गिरनार विभूषण नेमिजिनम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ऊँ ह्यौं श्री परमपुरुषाय परमे-
 श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतेगिरनार
 गिरिविभूषणाय, श्रीनेमिजिनाय, जलादिकं
 यजामहे स्वाहा ॥



अथ चतुर्थी पूजा.

॥ दोहा

रोहण मरु महिधकी, संपतका धरनार;
 विविध पत्र फल फूलसें, शोभतहै गिरनार ॥६॥

म. प. श्रीहंसवि.कृत.श्री नेमिनाथकी १०८प्रकारी पूजा. १२९

निर्वरणों के नीरसे, हमेश है वाचाल;
शेषनाग सम् श्वेत हि, वहते पानी खाल, ॥२॥
ऐसे उत्तम तीर्थको, देख भरत भूपाल;
वास करावे संघका, कर उपवास सकाल. ॥३॥

राग जंगलो.

अब मोये डाँगरीयां हे जिणंदजी अब. ॥ ए चाल ॥

पूजिये नेमिकुमार, भाविक जन पूजी० भ-
वोदधि पार उतार भविक० ए आँकणी. ॥ बाल
ब्रह्मचारी बलवंत ए, परणावुं एक नार, तो बल
हीं होवे कल्पु इनका, कृष्णजी करे विचार ॥
॥ पू० १ ॥ विठ्ठलजीने गोपी गणको, कहा वि-
श्वेषः स्वीकार नेमिकुमरको मनवा दो तुम, कर
वी चरित्र उदार ॥ पू० २ ॥ जलक्रीडा करके
धि राणीयां, खडी हे घेरा डार; परणी देवरीया
रेणीके, दिखावो हमको दिदार ॥ पू० ३ ॥

ज्ञे रथ नही चलता, तैसे यह संसार;

१ कदली दल ध्वज पट्टसे, २ कोटी-ध्वज पद लीन। ३।
 पीडित दारिद्र दुखसें, क्षत्रिय अशोकचंद;
 रैवत पर जा तप करे, काटनको दुख कंद। ४।।
 थारसमणि दे अंबिका, मनमें हो परसन्न;
 अशोकचंद्र अवनीपति, हुवा पायके धन ॥५॥।।
 सद्गुणी संघपति बनी, आया गढ गिरनार;
 दीक्षा शिक्षा ध्यानसे, पाया मोक्ष उंदार। ६।।
 बारी जावुरे सावरीया, तोपे वारणारे ॥ ८ चाल ॥

पूजा नेमिनाथ जिनवरकी दिलमें धारनारे.
 (२)।। आंकणी ॥ सुगुण सोभागी साहसी शूरा,
 सबी वातमें नेमि है पूरा, ३ वनमाली करे म-
 नमें ऐसी विचारनारे (२) ॥ पूजा. ॥१॥।। मुजसें
 यह बलवंत है भारी, बलभद्र आगे बोले ४ मु-
 रारि, राज्य हमारा लेगा कैसे निवारनारे (२)
 ॥ पूजा. ॥ २ ॥।। इतनेमें आये गुण खानी, हाथ
 पसारा सारंग पाणी; बोले परीक्षा करीए कि-

१ केलकेपत्ते, २ क्रोडपति, ३ कृष्ण, ४ विष्णु

निर वहनको नारी विना कहो, देवर कोण प्रकार
 ॥ पू० ४ ॥ नारी रत्नकी खाण समी हे, तीर्थकर
 गणधार; चक्री संत महंत सवीका, इससें है
 अवतार ॥ पू० ५ ॥ इत्यादिक 'भाभी भाषणसें,
 मुह मलकाया लगार; परणेंगे यह हंस गामिनी,
 फेला दिया दरबार ॥ पू० ६ ॥

वलीहारी वलीहारी वलीहारी ॥ यह चाल ॥

हितकारी हितकारी हितकारी, जगनाथ
 पूजा प्यारी रायपसेणी सूत्रे सूर्याभ साखीयोजी
 ॥ हितकारी ३ ॥ ए आंकणी ॥ कोमल अंग लु-
 हणे सारे, मेले न होय लगारे, धूपित करे सुगंध
 कारी, जगनाथ पूजा प्यारी० ॥ १ ॥ चंदन केसर
 केरी, पूजा तो होत भलेरी; पण जो रेलेकी न
 होय धारी, जगनाथ पूजा प्यारी० ॥ २ ॥ हीरा
 माणेककी अंगी, नीलमसें लागे चंगी, पंचवर्णी
 मुगट मनोहारी, जगनाथ पूजा प्यारी० ॥ ३ ॥

१ भोजाइ. २ केसरका रेला उत्तरने न पावे.

शु. म. श्रीहंसवि. कृत. श्रीनेमिनाथकी१०८प्रकारीपूजा. १३१

मोतिके तुर्रे लटके, दर्शनसें मन नहीं भटके;
छटके विषय वासना सारी, जगनाथ पूजा प्यारी०
॥ ४ ॥ कलगीकी हे छब सुंदर, पूजत हे देव
पुरंदर; हंस सम उतरे भवपारी, जगनाथ पूजा
प्यारी० ॥ ५ ॥

॥ काव्यं ॥ तोटक वृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
चर्जित बाहुबलं प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नोमि जिनं. ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ ह्नी श्री परमयुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतेगिरनार-
गिरि विभूषणाय श्रीनेमि जिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥

—३५८—
अथ पंचमी पूजा.

॥ दोहा ॥

भरतराय निज भावसें, शत्रुंजय सम सार;
सर्व संघके साथ में, पूजे श्री गिरनार. ॥ १ ॥

शक्तिसिंह राजा सबल, भरतनाथ के साथ;
 संघ जिमावे^१ गिरि तटे, तरणेको भव पाथ. ॥२॥
 दुर्गम रैवत जाणके, पावाडियाँ चउ पास;
 चक्री यक्ष हजारसें, निपजावे धरि खास. ॥३॥
 थइ प्रेम घस पातलीआ ॥ ए चाल ॥

श्री नेमिनाथ सांवरीया, राजुल परणवा
 चलीयारे श्री० ॥ आंकणी ॥ सोल हजार राजा
 संग स्वारी, चढी अति मनोहारी; हरखे बलभद्र
 मोरारि, राजुल परणवा चलीयारे० ॥ १ ॥ डंका
 निसान रसालाके संग, पायदल धरी रंग; ताल
 बंध पाय धरे चंग, राजुल परणवा चलीयारे०
 ॥ २ ॥ लाख बेयालीस मयगल माता, मलपता
 लहे सुख शाता; रथ वार्जीत्र नाद विख्याता,
 राजुल परणवा चलीयारे० ॥ ३ ॥ पीठि चोलि
 पीतांवर पेहरा, झरकसी जामा धेहरा, शणगार
 सजी धरा शेहरा, राजुल परणवा चलीयारे० ॥४॥

मु. म. श्रीहंसवि. कृत. श्रीनेमिनाथकी १०८प्रकारीपूजा. १३३

वरघोडे चढ़ीये वर राजा, पुन्य प्रबल हे ताजा;
आये उग्रसेन दरवाजा, राजुल परणवा चलीयारे०
॥ ५ ॥ हंस गतिगामी वर पामी, राजुल खड़ी
शिरनामी; हरखे कहे नही कुच्छ खामी, राजुल
परणवा चलीयारे० ॥ ६ ॥

॥ राग दक्षिणी दुमरी. ॥

जाधो जावो नेभि विदा थारी गति जानीरे. ॥ ए देशी ॥

नेमि जिनवरकी पूजा, करे पुन्यशालीरे ॥
ए अंचली ॥ ज्ञाता सूत्र रचे अंग, गणधर धरी
रंग; सुधरमा वाणी पाणी, पाप दे पखालीरे ॥
नेमि० ॥ १ ॥ पांडवकी राणी इयाणी, द्रौपदी
शुणोकी खाणी; करी पूजा खरे समये, प्रतिज्ञाको
शालीरे. ॥ नेमि० ॥ २ ॥ ^१वस्तुपाल तेजपाल,
रत्न सोनाके विशाल; सवा लाख बिंब पूजे,
आभरण घालीरे ॥ नेमि० ॥ ३ ॥ जाझ जुझ जा-
सुद अंग, चढावे चंबेली चंग; फुल माला गुंथी

^१ वस्तु पालने रत्न तथा सोनाके आभरण चढाये.

राग कानडा.

॥ पूजन विमल जिनेश्वर कीजे. ॥ ए चाल. ॥

पूजा नेमि जिणंदकी प्यारी ॥ ए अंचली.

॥ एकल प्रतिमा व्यक्त कहावे, आरिहंतकी सुखकारी. ॥ पूजा० १ ॥ पान सोपारी विजोरादिक फल, हाथमें धरे सागारी. ॥ पूजा० २ ॥ भरत औरवत चोविशी पट्ट, क्षेत्र प्रतिमा उच्चारी. ॥ पूजा० ३ ॥ एकसो सीतेर जिन हं सुंदर, महा प्रतिमा नामधारी. ॥ पूजा० ४ ॥ अष्टापद पर पिछले भवमें, दमयंती नलनारी. ॥ पूजा० ५ ॥ रत्न तिलक चढवाके उतरी, हँसं परे भव पारी. पूजा० ६ ॥

॥ काव्यं ॥ तोटक वृत्त. ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परिवर्जित बाहुबलं, प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं, गिरनार विमूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिर-

मु०म्. श्रीहंसवि० कृत श्रीनेमिनाथकी१०८प्रकारी पूजा. १३७

नार गिरि विभूषणाय, श्री नेमि जिनाय, जला-
दिकं यजामहे स्वाहा. ॥

—४८—

अथ सप्तमी पूजा.

॥ दोहा

औरावण पर बेठके. घंटन करने काज,
नेमिनाथ भगवानको, आवत है सुरराज. ॥१॥
भगनां गणसें ऊतरी, आये गढ़ गिरनार,
गज पदसें अग दावके, नीर निकाले सार. ॥२॥
साकर कंकर सारखी, सिंधु न होत बंधुर,
औसा गजपद कुंडका, मधुर हे पानी पूर. ॥३॥
तिस जलसें सुरपति भरे, स्वर्ण रत्न भूंगार
स्नात्र समय एकसो अरु, आठ पडे जलधार. ॥४॥

बुटी लानेका केसा बहाना हुवा —यह राह.

राजुल पोकारे नेम, पशु बहाना हुवा,
सच्च पूछोतो स्वामी ठगाना हुवा, ॥ राजुल०॥
आंकणी ॥ कुंकुम पत्रि लिखाय, वरघोडो च-

पूजे, प्रभु गले डालीरे; ॥ नेमि०॥ ४.॥ कैवड्ढ
केतकी फूल, चढावे न करे भूल; हंस परे 'तरे
जो न ढके कीकी कालीरे०॥ नेमि. ॥ ५.॥

॥ काव्य ॥ तोटक वृत्तं. ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
वर्जित बाहुबलं प्रणमामि जगत्त्रय वोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ हूँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय, श्री नेमि जिनाय जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥

अथ छही पूजा,

॥ दोहा ॥

मही महेला भालमें, मंडनकार उदार;
कस्तूरीका तिलक सम, शोभत हे गिरनार. ॥ १४ ॥

१ जो मनुष्य फूल चढ़ानेमें प्रभुका मुख सहित चक्षुकों
ढक देनेकी रफ़्लत न करे सो तर जाता है

उच्च मनोरथकी तरां, चढ़के भरत नृपाल;
 चैत्य करावे अभिनवा, मंडप जास^१ चुमाल. ॥२॥
 सफाटिक चोमुख चैत्यमें, नीलम पड़िमा सार;
 भावी नेमि कुमारकी, शोभे अपरंपार. ॥ ३ ॥

अर्जीतो कर रहाहुं, चाहे मानो या न मानो ॥ यह राह. ॥

कुमार राज गरजी, गुजारे हम अरजी॥४
 आंकणी. ॥ पशु पक्षी हे खजाना, आलमका
 बाग मजाना, रक्षण तास करजी, गुजारे० ॥
 कु० ॥ १ ॥ पशु भूख तरस सहते, धी दूध ऊन
 देते; संकट उनोका हरजी, गुजारे० ॥ कुं० ॥२॥
 परणोगे तो सुजाण, पशुके जावेंगे प्राण; मानो
 न मानो मरजी, गुजारे० ॥ कु० ॥ ३ ॥ प्राणी
 पुकार सुणके, छोड़ाये सब गुणके; तोरणसें गये
 फीरजी, गुजारे० ॥ कु० ॥ ४ ॥ हरिणी हरण
 सगले, आशिष्य देवे छगले; कहे हंस सम त-
 रजी, गुजारे० ॥ कु० ॥ ५ ॥

ढाय, जान जुगते चलाय, वापस जाना थातो
 क्युं आना हुवा, ॥ राजुल० ॥ १ ॥ चारु चौरी
 रची, धुम धाम मची; वात बनाइ कची, जाना
 गिरनार थातो क्युं लजाना हुवा० ॥२॥राजुल०
 ॥ २ ॥ आँखे कज्जल अंजाय, ठाठ माठ बनाय,
 गाना भाभी सेंगवाय, जनाथातो गाना क्युं
 गवाना हुवा. ॥ राजुल० ॥ ३ ॥ आठ भव रहे
 साथ, प्रित पाळी पूर्ण नाथ, अब मीलाके हाथ,
 नवमे भव क्युं न निभाना हुवा. ॥ राजुल०
 ॥ ४ ॥ राजुल करे विचार, यह कमोंकी मार,
 मीटाउंगी जाल्हार, हंस समा विवेकका पाना
 हुवा. ॥ राजुल० ॥ ५ ॥

पुनम चांदणी आज खीली रहीरे ॥ यह राह. ॥

पूजा पूज्यकी पाप संहारणीरे, श्रावक करे
 हित धरके अपार, नागकेतुपरे केवल ज्ञान का-
 रणीरे. ॥ आंकणी. ॥

मु.प.श्रीहंसवि० कृत० श्रीनेमिनाथकी१०८प्रकारी पूजा.१३९

॥ साखी. ॥

भाष्यकार भगवानका, वचन कर परमाण,
एकल प्रतिमा भक्तजन, भरावे गुण खाण.
॥ ऋद्धिदेखनप्रभुकी, प्रातिहार्यधारणीरे, ॥ पू० ॥ १ ॥

॥ साखी. ॥

दर्शन ज्ञान चारित्रकी, आराधन के काज.
तीन तीर्थी बनवायके, पूजे श्री जिनराज;
॥ जाणके पूजा राज्य लक्ष्मीकी सहचारणीरे. पू० ॥ २ ॥

॥ साखी. ॥

कोइक पंच परमेष्टीके, आराधनके निमित्त,
पंच तीर्थीं प्रतिमा भली, बनवावे सुविनीत,
॥ पूजे उजमणे पधराके, दुख निवारणीरे ॥ पू० ॥ ३ ॥

॥ साखी. ॥

भरत क्षेत्रके भक्तजन, चोविस जिनके सार,
कल्याणक तप कारणे, उजमणामें उदार,
स्थापे चोरीशीको पुण्य प्रवाहकी सारणीरे ॥
॥ पूजा० ॥ ४ ॥



॥ साखी. ॥

मनुष्य लोकमें विचरते, जीन लाभे एंक
काल, एकसो सीतेरकी भविक, करावे धरके
ख्याल; प्रतिमा हंसपरे भव सागर पार उतार-
शीरे. ॥ पूजा० ५ ॥

॥ काव्य ॥ तोटक बृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणता परि-
चर्जित बाहुबलं ॥ प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय, श्री नेमि जिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा. ॥

अथ अष्टमी पूजा.

॥ दोहा ॥

कंचन जडि जिस बीच हे, कंचनकी कर-
नार, अमृतवेल होवे इहाँ, महिमा जास अ-

मु.म.श्री हंसविं कृतश्रीनेमिनाथकी १०८ प्रकारी पूजा, १४६

पार. ॥ १ ॥ संपदका आलय समा, उज्जयंत
सुखकंद, शांतिनाथ सुत चक्रधर, आवे हरवा
फंद. ॥ २ ॥ एमन्मथ उन्माथक प्रभु, नमी श्री
नेमिनाथ, चैत्य करावे अभिनवा, तरणेको भक
पाथ. ॥ ३ ॥

मैं पकली वनमें तड़फुं जाया मेरा बोल बोल बोल. ॥ ए चाल. ॥

लिये संयम नेमि स्वामी, संबंध तोड तोड
तोड ॥ ए अंचली. ॥ शिवा माता कहे सुण
नेमि, तु हे मेरा बहु प्रेमी; वनमें मत जा बन
केमी. मुजको छोड छोड छोड. ॥ लि० ॥ १ ॥
कहे नेमि सुण मा मेरी, दे आज्ञा कर ना देरी,
टालू में भवकी फेरी, दीक्षा जोड जोड जोड.
॥ लि० ॥ २ ॥ आज्ञा लिनी तव आवे, लोकां-
तिक सुर निज भावे; दीक्षा अवसर को जणावे,
पाप घट फोड फोड फोड. ॥ लि० ॥ ३ ॥ दिये
दान वार्षिक स्वामी. प्रति प्रभातमें गुणधामी;

सोनैया आठ लाख नामी, और एक क्रोड क्रोम्ब
क्रोड ॥ लि० ॥ ४ ॥ दारिद्र रोग निवारी, भव्य
हँस तणी छाप कारी; लिये दान रियासत
सारी, मान निज मोड मोड ॥ लि० ॥ ५ ॥

— — —
॥ सोरठ दादरो. ॥

दीन के द्याल नेमिनाथ सरन चाड़. ॥ ए चाल. ॥

अग्र पूजा अरहनकी, भाष्यसें जणावुं. ॥
ए आंकणी. ॥ श्रावक श्रेणिक राजा परे, करे
सो दिखावुं; एक शत आठ जव. सोनैके करावुं.
॥ अग्र० ॥ १ ॥ चार गाति चूरण काज, साथी-
या बनावुं; रूपा सोना कमल शाली, चोखा
चावल लावुं, ॥ अग्र० ॥ २ ॥ मंगल करण मं-
गल आठ, प्रेमसें रचावुं; दर्शन ज्ञान चारित्र
रूप, पुंज तीन ठावुं. ॥ अग्र० ॥ ३ ॥ अंसन्-
यान खादिम स्वादिम, नैवेद चढावुं: मले तृष्णि
ऐसी प्रभु, मिट जाय खावुं. ॥ अग्र० ॥ ४ ॥

मु.प.श्री हंसवि० कृतश्रीनेमिनाथकी १०८ प्रकारी पूजा. १४३

परिसतां चारोली नारीएल. आदि लाबुं; फल
पूजा मुक्ताफल हंसकुं चुगावुं. ॥ अग्र० ॥ ५ ॥
॥ काव्यं ॥ तोटक वृत्तं. ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
बर्जित बाहुबलं; प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं
गिरनार विभूषण नेमि, जिनं ॥ २ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे श्व-
राय जन्मज्जरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय श्री नेमि जिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥ १४ ॥

अथ नवमी पूजा.

॥ दोहा ॥

श्री उपदेश तरंगिणी. ग्रंथ तणे अनुसार,
कल्याणक तिग तिग हुवे, जिन अनंत के धार, ॥ १ ॥
श्री नेमीश्वर देवके, कल्याणक तिग खास,
हुवै वहां केशव तीन, चैत्य करावे तास. ॥ २ ॥
सिद्धाचलका सारहे, पर्वत गढ गिरनार;

असंख्य मुनिवरको हुवा, केवल नाण प्रचार, ॥३॥

—•—
॥ राग वरवा-कहेरवा. ॥

धन्य धन्य वो जगमे नरनार. ॥ ए चाल. ॥

धन्य धन्य देव देवी नर नार, दीक्षा दर्शन पाने वाले. धन्य (२) ॥ आंकणी. ॥ श्री नेमिनाथ महाराज, दीक्षा अभिषेकके काज; आवे इन्द्र इन्द्राणी समाज, दिव्य वाजिंत्र बजाने वाले, ॥ धन्य० १ ॥ करवाके स्नान शणगार, उत्तरकुरा नाम उदार; शिविका रत्नकी सुखकार, बीच प्रभुको पधरानेवाले. ॥ धन्य० २ ॥ सुरनाथ और नर नाथ, उठावे पालखी साथ; शकेंद्र इशान निज हाथ, चाहु चामर उडाने वाले. ॥ धन्य० ३ ॥ धरे छन्न सनत कुमार, माहेंद्र खड़ग धरनार; ब्रह्मेंद्र रत्नका सार, दिव्य दरपण दिखलाने वाले. ॥ धन्य० ४ ॥ लांतक वासव कुंभ धरे, महाशुक्र स्वस्ति-

मु.म.श्रीहंसवि० कृत० श्रीनेमिनाथकी १०८प्रकारी पूजा, १४५

क करे करे; सहस्रार धनुष्य अनुसरे, स्वामी
सेवाको उठाने वाले. ॥ धन्य० ॥५ ॥ श्रीवत्स
प्राणत पति धरी, नन्द्यावर्त आगे करी; बारमा
देवलोकका हरि, आवे भक्ति दिखलाने वाले,
॥ धन्य० ६ ॥ चमरेंद्र प्रसुख सब इन्द्र, धरे वि-
विध शश्वका वृद्ध; जय जीव शिवादेवी नंद,
ऐसी आशिष पढाने वाले. ॥ धन्य० ७ ॥ मात
तात बैलदेव वासुदेव, हजारो राय करे सेव;
सहसा बनमें ततखेव, आये प्रभु पाप हटाने
वाले. ॥ धन्य० ८ ॥ ^१हजार रायके संग, प्रभु
दीक्षा ले धरी रंग; श्रावण सुदि छठ दिन चंग,
हंस सम तरके तराने वाले. ॥ धन्य० ९ ॥

—•—
॥ राग पीछु—वरवा कहेरवा. ॥

नाथ निज नगर देखाडोरे—ए चाल.

—•—

॥ नाथ सुरनाथके सेवोरे, अनाथके नाथ,
१ इति श्री नेमिचरित्रे प्रोक्तमस्ति.

ज्ञानीनेमिनाथ, नाथ सुरनाथके० ॥ आंकणी० ॥
 महा निश्चय सिद्धांतमें तिसरे, अध्ययने फर-
 मायारे, प्रभु पूजासें तीर्थ उन्नति, करना बता-
 यारे; ॥ अनाथ० १ ॥ अरिहंताणं भगवंताणं,
 पूजा पाठ प्रत्यक्षरे, धूप दीप सत्कार आदि वहु,
 भेद हे दक्षरे. ॥ अनाथ० २ ॥ दीपता दीपक
 प्रतिदिन करना, रत्नाद्विकका खासरे, फान-
 समें धरके प्रभु आगे, करना उज्जासरे. ॥ अ-
 नाथ० ३ ॥ जिन घरमें दीपक पूजासें, निज हृ-
 दये प्रगटानारे, ज्ञान दीपक जिससें झट नासे,
 तमो वितानारे. ॥ अनाथ० ४ ॥ यत्ना पूर्वक
 धूपसें वासित, जीना वासको करनारे; हंस सम
 कीर्ति कर्पूरसें, महीतल भरनारे. ॥ अनाथ० ५॥

॥ काव्यं ॥ तोटक वृत्तं. ॥

कमलोदंर कोमल पाद तलं, गणना परि-
 वर्जित बाहुबलं ॥ प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं,
 मिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । ओँ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-

मु.म.श्री हंसवि० कृतश्रीनेमिनाथकी १०८ प्रकारी पूजा. १४७

राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय, श्री नेमि जिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा. ॥

—
अथ दशमी पूजा.

॥ दोहा ॥

श्री शत्रुंजय तीर्थका, शिखर पांचमा सार,
दायक पंचम नाणका, नाम छ तास उदार. ॥१॥
‘हैमचंद्र’ गुरु मुख सुणे, नरपति कुमारपाल,
प्रथम नाम कैलासहे, कटे कर्म जंजाल. ॥२॥
उज्जयंत दुसरा भला, आरेमें जस नाम,
रैवत तिसरेमें हुवा, जाणे लोक तमाम. ॥३॥
स्वर्णाचल चोथे भया, दुष्म अरे गिरनार,
नंदभद्र आरे छठे, नाम जगत जयकार. ॥४॥

—
१ कुमारपाल प्रबंधे. २ पांचमें आरे,

वरवा तथा पहाड़ी ॥ रसदी कुंदां परी ॥ अरचन
सुंदर बना—चाल.

श्री नेमिनाथ भगवान्, सुंदर साधु बने,
॥ ए आंकणी ॥ जिस दिन दीक्षा लिनी स्वामी,
उसदिन मन पर्यव ज्ञान पामी, विचरे महित-
लमें गुणधामी. राजीमती धरे ध्यान. ॥ सुंदर०
१ ॥ भावित आत्मा हुवे अणगार, सुर गुरु गु-
णका पावे न पार, राजीमती करे दीक्षा विचार,
दिन जाय वर्ष समान, ॥ सुंदर० २ ॥ शंख स-
मान निरंजन शोभे, वायुपरे प्रतिबंध न थोभे,
पडे नहि लबलेश न लोभे, प्रभु सद्गुणकी
खान. ॥ सुंदर० ३ ॥ भारंडपरे परमाद रहितहे,
इंद्रादिक देवोसें 'महितहे, सिंह जैसा पराक्रम
सहितहे, घाति कर्म करे हान. ॥ सुंदर० ४ ॥
विहार कर चोपन दिन आये, सहसा वनमें
स्वामी सधाये, हंस सम शुक्ल ध्यान ध्याये,
होगया केवल ज्ञान, ॥ सुंदर० ५ ॥

॥ उभो रहने हो जीवडा, तुंतो सांभळ आगम
वेण. ॥ ए चाल.

पूजो पूजो प्रेमे परमेश्वर, नेमिनाथ भग-
चान् ॥ पूजो० ॥ आंकणी ॥ आसो मास अ-
मावाइया, केवल ज्ञान कल्याण, वेतस वृक्ष तले
प्रभुजीको, हुवा सकल गुण खाण, ॥ पूजो० १
॥ १ ॥ सुणो स्याद्वादमंजरी, करे सपर्या
सार, सुरा सुर निकाय नायको, होके बहु हुंसी-
यार. ॥ पूजो० २ ॥ २ ॥ सुंदर भक्तिभर निर्भ-
रसें अष्ट महा प्रातिहार्य, पूजाके उपचारसें प्र-
भुका, करे कल्याणक कार्य. ॥ पूजो० ३ ॥ ३ ॥
कंकेलि छाया करे, फूल वृष्टि वहां होय, दिव्य
ध्वनि चामर उडे, आसन भासंडल जोय, ॥
पूजो० ४ ॥ ४ ॥ देव दुंदुभि गगने गाजे, छत्र
चाले आकाश, हंस कहे प्रभु पूजा सें होय, पाप
कर्मका नाश; ॥ पूजो० ५ ॥ ५ ॥

॥ काव्य ॥ तोटक वृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
वर्जित बाहुबलं; प्रणमामि जगत्रय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ हौं श्री परमपुरुषाय परमे श्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय श्री नेमि जिनाय, जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥

अथ एकादशी पूजा.

॥ दोहा ॥

^१कहा प्रभास पुराणमें, वामनके अवतार,
जाके रैवत परवते, तप कीना हरिसार. ॥ १ ॥
^२महा घोर कलि कालमें, ^३कलि ^४कल्क करे नास,
क्रोड यज्ञ फलको दिये, नेमि नाथ जिन खास. ॥ २ ॥
महा वदि चौदश दिने, जागरणे गुण गाय,
उज्जयंत गिरि ऊपरे, हरि निर्मल हों जाय. ॥ ३ ॥
नारद लिखित रैवतका, स्तोत्र कल्प अनुसार,

१ इति कुमारपाल प्रबंधे. २ रंटा. ३ पाप. ४ गिरनारकल्प.

मु. म. श्रीहंसवि. कृत. श्रीनेमिनाथकी१०प्रकारीपूजा. १५१

भावि चोवीशीके सबी, तीर्थकर सुखकार. ॥४॥
अनशन करी रैवत गिरि, पावेंगे निवाण,
निमीश्वरादिक आठके, अतीत तिग कल्याण. ॥५॥
स्थान अन्यमें भी रहा, ध्यान धरे गिरनार,
चोथे भव शीव सुख लहे, पावे भवका पार. ॥६॥

॥ राग शाम कल्याण ॥

पूजो प्रभु केवल ज्ञान आधारी पूजो० ॥ यह चाल. ॥

पूजे नेमिजिनंको गोकुल गिरधारी. पूजे०
॥ आंकणी ॥ रैवत शैल पालकने जाके, दिनी
वधाइ मुरारि. ॥ पूजे० १ ॥ सहसा वनमें स-
भवसरेहै, नैमि केवल ज्ञान धारी. ॥ पूजे० २॥
साडेबार कोटि रूपैये, दान देवे कैटभारि. ॥
पूजे० ३ ॥ मात ब्रात दशार्हकी साथे, सजी स-
कल असवारी. ॥ पूजे० ४॥ सोल हजार राजा
संग जाके, राज्य चिन्हको निवारी. ॥ पूजे० ५
॥ समवसरणमें उत्तर दरवाजे, हो के जाय कं-

सारि ॥ पूजे० ॥ ६ प्रदक्षिणा देह नमके बेठे,
शक्र पीछे दैत्यारि ॥ पूजे० ७ ॥ इंद्र उपेंद्र,
जिनेंद्रकी सुंदर, स्तुति करे सुखकारी ॥ पूजे०
८ ॥ हंस कहे इस विधिसें पावे, आतम लक्ष्मी
अपारी ॥ पूजे० ९ ॥

॥ कब्बाली. ॥

सुनो प्रभु विनती एती, हमे संसारसे तारो ॥ यह चाल. ॥

पूजन द्रव्य भावसें होवे, साधु सिद्धांत
दिखलावे ॥ द्रव्यसें भाव पूजाका, अनंत गु-
णाफल फरमावे ॥ १ ॥ समज के नेमिस्वामी
के, इंद्र उपेंद्र गुण गावे, दयालु बाल ब्रह्मचारी
हमे नमीये प्रभु भावे ॥ २ ॥ ललित ललना
तणे लटके, पीगले दिल अन्य देवनके ॥ अ-
भेदी वज्रके जैसा, हृदय तुम ब्रह्म सेवनके ॥
॥ ४ ॥ यदु कुलके विभूषण हो, त्रिभुवनके तुमे
स्वामी ॥ हमारे मन मानसमें, बीराजो हंस
गति गामी ॥ ५ ॥

॥ काव्य ॥ तोटक वृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
वर्जित बाहुबलं, प्रणमामि जगत्त्रय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते
गिरनारगिरि विभूषणाय श्रीनेमि जिनाय, ज-
लादिकं यजामहे स्वाहा ॥

अथ द्वादशी पूजा.

॥ दोहा ॥

इस अवसर्पिणी चिचमें, रैवत गिरिका मान
रैवत परवत कल्पसें, सुनिये भविक सुजान ॥ १ ॥
छवीश, वीश, अस्सोल, दश, दोयोजन, सो चाप
छ आरेमें अनुक्रमे, सदा खपावे पाप ॥ २ ॥
यागकार गोमेधका, कोढी दुखिया दीन
यक्ष बना गोमेध वो, गिरिमें हो लयलीन ॥ ३ ॥



॥ गीत भेरवी. ताल कहरवा ॥

अब तो प्रभुजीका ले लो सरण ॥ प्र देशी ॥

उपदेश देवे प्रभु नेमि जिणांद ॥ आंकणी ॥

वैर वीसारके पशु पक्षी गण० सुणते हे सुरनर
नारीके बृंद ॥ २ ॥ उपदेश० १॥ संबंधि संजोग
वीयोग बाले हैं, चपला जैसी चपल लक्ष्मी क-
हंद ॥ २॥ उपदेश० २॥ वादलकी छाया स
मान योवन है, परपोटा जैसी काची काया ल-
हंद ॥ २ ॥ उपदेश० ३ ॥ असार संसारमें सार
धरम है०, सुणके पाये सब अति आनंद ॥ २ ॥
उपदेश० ४ ॥ 'दोय हजार राजा संग दीक्षा,
लेके हुंवे वरदत्त गर्णांद ॥ २ ॥ उपदेश० ५ ॥
राजीमती राजकन्याने पाया, संयम-थाजो दी-
लको पसंद ॥ २ ॥ उपदेश० ६ ॥ अंबीका हुइ
कोडीनार निवासी, शासन सुरी कटे संघका फंद
ग ॥ २ ॥ उपदेश० ७ ॥ आर्य अनार्य देशोमें वि-
चरके, मोक्ष समय आये गिरनार गिरींद ॥२॥

म्ब.म. श्री हंसवि०कृत.श्रीनेमिनाथकी १०८ प्रकारी पूजा१५५

उपदेश० ८ ॥ पांचसो छतीस साधुकी साथे,
महिनेका अनशन किया मुर्निंद ॥२॥ उपदेश०
९ ॥ अशाड सुदि आठम चीत्रामें, मोक्ष गये
नेमिनाथ जिणिंद ॥ २ ॥ उपदेश० १० ॥ ह-
जार वर्षका आयुष्य प्रांते, सुख पाये अवि-
नाशी 'अद्विंद ॥ २ ॥ उपदेश० ११ ॥ अविनाशी
अकलंक अगोचर, अलख गति हो गये जिन-
िंद ॥ २ ॥ उपदेश० १२ ॥ हंस कहे प्रभु भाव
पूजासें, मुनि जनको होय हर्ष अमंद ॥ २ ॥
उपदेश० १३ ॥

राग पीलु.

तीर्थ उजारो अब करीए भविक वृद ॥ ए देशी ॥

भाव पूजा भली करीए भविक नर, दा-
खीरे निशीथ सूत्र महिे खरीरे ॥ भाव पूजा० ॥
ए आंकणी०॥ पूजा के, प्रकार दोय, द्रव्य भाव
सेंति होय, द्रव्य पूजा दुःख खोय, भाव मोक्ष

करीरे ॥ भाव० १ ॥ अवग्रह साठ हाथ, जघन्य
नव हाथ साथ, एक हाथ कहे नाथ दिलमें ध-
रीरे ॥ भाव० २ ॥ विशाल देवल जांही, लबु
जिनालय तांही, घर देरासर मांही, क्रमसे परि-
हरीरे ॥ भाव० ३ ॥ पूजा नेमि जिन केरी,
पाप पुंजदे विखेरी, टले भवो भव फेरी, गुरु
उच्चरीरे ॥ भाव० ४ ॥ वसुदेव हींड साखे, चै-
त्यवंदन कर आखे, आतमको वश राखे हंस
जाय तरीरे ॥ भाव० ५ ॥

॥ काव्य ॥ तोटक बृत्तं ॥

कमलोदर कोमल पाद तलं, गणना परि-
चर्जित बाहुबलं प्रणमामि जगद्वय बोधिकरं,
गिरनार विभूषण—नेमि जिनं ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते गिरनार
गिरि विभूषणाय, श्री नेमि जिनाय जलादिकं
यजामहे स्वाहा ॥

अथ कल्स.

॥ रेखता ॥

जिनालये पूज जिनचंदा, रैवत गिरि उ-
परे बंदा ॥ नोमिजिन राज-सुख कंदा, अमी-
झरा पास हरे फंदा ॥ जिना० १ ॥ देवल दरि-
या समा गजे, गंगा परे देरीयाँ छाजे ॥ मेरक-
वसी सहसफणा राजे, नमो भवि भावथी आ-
जे ॥ जिना० २ ॥ नरपति संप्रति केरा, कुमा-
रपाल भूपका देरा ॥ अद्भुत बाबा जगत से-
हेरा, मिटावे भव तणा फेरा ॥ जिना० ३ ॥
वस्तुपाल और तेजपाला मंत्रीश्वर हो गए
लाला ॥ देवल इनका जगत व्हाला, गुफामें
सती राजुल बाला ॥ जिना० ४ ॥ ^१पांचमी
टुँकपर थावे, नेमि निर्वाण कहलावे ॥ नमो
प्रभु पादुका भावे, नेमीश्वर मूर्ति, वहाँ ठावे
॥ जिना० ५ ॥ इत्यादिक चैत्य परिपाटी,
करो चढ़ी पाढ़की घाटी ॥ इसी विधि कर्मको

^१ बरगेस साहेबके वुस्तक पा. १७५ मे जैसा लिखाहे-

काटी, नमो आदिनाथ तल्हाटी ॥ जिना०
 ६ ॥ जुनागढ शहेर अभंगा, महावीर स्वामि
 चैत्य चंगा ॥ शरण प्रभु वीरका मंगा,
 नैमि वहां जित अनंगा ॥ जिना० ७ ॥ तपा-
 गच्छमें हुवे नामी, विजय आनंद सूरि स्वामी
 अपर नामे आतमारामी कीर्ति अमेरीका
 गामी ॥ जिना० ८॥ राजा अरु रंक आ नमते
 हुर्जन सब दूरे जा भमते ॥ आंक्षेपो कारको
 दमते, आतम आराममें रमते ॥ जिना० ९ ॥
 हुवे तस शिष्य मंडलमें जैसे द्विजराज वाद-
 लमें ॥ विजय लक्ष्मी गुरु कलमें, छले नहीं
 गए हुंडक छलमें ॥ जि० १० ॥ जिनोने सिद्ध
 हैम देखा, न्याय सिद्धांत सब पेखा ॥ परीक्ष-
 कमें पाइ रेखा, पढाते जैसे गुरु लेखा ॥ जि०
 ११ ॥ इनोके शिष्य हुवे भूरि, जिन्होमेसें हुवे
 सूरि॥ विजय कमल बने धूरी, इनोकी प्रीति

हे पुरी ॥ जि० १२ ॥ प्रवर्तक हे विजय कांति,
थेरे दिल मांहे जो क्षांति ॥ प्रथम पंन्यास दिये
शांति, संपत विजय टाले ब्रांति ॥ जि० १३ ॥
इनिकी अर्ज दिल धारी, पूजन रचना 'रमत
न्यारी ॥ बनाइ बालपरे प्यारी, नेमिजिन ज-
न्म तिथि सारी ॥ जि० १४ ॥ महाबत खानजी
हर्षे, नवाब साहेब जिस वर्षे ॥ गादिपर बेठे
तिस अरसे, ॥ आये यात्राके हम तरसे ॥ जि०
१५ ॥ 'संवत रस सागर संगे, ग्रह शशी विक्रमे
चंगे ॥ चोमासा ठेहेरके रंगे, गाये प्रभु गुण
उमंगे ॥ जि० १६ ॥ गुरु लक्ष्मी विजय त्राता.
विजय कमल गुरु त्राता ॥ माफी गफलतकी
च्छाता, हंस नमे नेमि गुण गाता ॥ जि० १७ ॥

॥३॥ इतिश्री गिरनार मंडन श्री नेमिनाथकी ॥४॥
॥५॥ १०८ प्रकारकी पूजा संपूर्ण ॥६॥
॥७॥ तत्समाप्तौ च समाप्तोयं प्रथमो विभाग ॥८॥
॥९॥

॥ अथ द्वितीयो भागः ॥

“ मुनि महाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित ”

॥ पूजा संग्रह ॥

॥ ॐ नमः पंच परमेष्ठिने ॥

“ अथ पंच परमेष्ठि पूजा ” ॥

॥ दोहा ॥

जिनवर वाणी भारती, सरसती करी सुपसाय;
विघ्न निवारी कीजिये, रचनामें सुसहाय ॥ १ ॥
नमन करी शुभ भावसे, परमेष्ठी भगवान्;
परमेष्ठि पूजा रचूं, परमेष्ठिको निदान ॥ २ ॥
तिष्ठे परमपदे सदा, तिण परमेष्ठी नाम;
परमेष्ठि पंचक नमो, पंचम गतिको धाम ॥ ३ ॥
अरिहंत् सिद्ध तथा गणि, चौथे पद उवज्ञाय;
पंचम पद अनगारको, नमिएं मन वचकाय ॥ ४ ॥
द्वादश गुण अरिहा प्रभु, अडगुण सिद्ध मनाय;
सूरि गुण षट्कर्त्रिंश है, पणवीस श्री उवज्ञाय ॥ ५ ॥

सत्तावर्षीस गुण साधुके, अष्टोत्तर शत जान;
 गुणियन के गुण गानसे, गुणियन गुण सन्मान. ॥६॥
 अरिहंत पदको अ ग्रही, अशरीरीको अकार;
 आ लीजे आचार्यको, संधिसें आकार. ॥७॥
 उपाध्याय उ आदिको, संधिसे ओकार
 मुनिपदको म मेलके, नंभियें नित्य ऊँकार. ॥८॥
 नमन कियो इन पंचको, टारे सब अघवृदः
 मंगलमें मंगल बडो, वयण मुनि गणि इंद. ॥९॥
 स्त्रपन विलेपन पुष्पसे, धूप दीप मनोहार;
 फल अक्षत नैवेद्यसे, पूजा अष्ट प्रकार. ॥१०॥
 अष्टोत्तर शत गुण प्रति, सामग्री विस्तार;
 भिन्न भिन्न संक्षेपसे, निज शक्ति अनुसार. ॥११॥
 ॥ अथ प्रथमार्हत्परमेष्ठिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

अष्ट कर्म अरिभूतको, हनन करे अरिहंत;
 भाव अरिहंत भावसे, भाव अरिको अंत. ॥१२॥
 वंदन पूजन योग्य है, योग्य नमन सत्कार;

सिद्धि गमन अरिहा नमुं, अरिहंत मंगलकार॥२॥

(राग सारंग.)

मन मग्न परमेष्ठि ध्यानमें, ध्यानमें गुण-
गण गानमें—मन० अंचलि ॥ भव तीजे वीस
थानक तप करी, जिन पदके रे निदानमें; चउद
सुपन सूचित प्रभु जन्मे, उंचे शुभ खानदानमें.
मन० ॥ ३ ॥ दान देई संवच्छरी दीक्षा, कर्म
खपी ब्रह्म ज्ञानमें; तीर्थ चलावे बैठके सुर किये,
समवसरण मैदानमें. मन० ॥२॥ सम्यग दर्शन
निर्मल कारण, शुद्धालंबन जानमें; जिन अरिहा
महा माहन शंभू, सार्थ वाह भव वानमें. मन०
॥ ३ ॥ निरंजन निर्दोष शिवकर, अजरामर सुख
खानमें; महागोप जिनवर जगनायक, पूजन
आनंद थानमें. मन० ॥ ४ ॥ चौतीस अतिशय
पैतीस वाणी, गुण अतिशय भगवानमें; आतम
लक्ष्मी चिदघन सोहे, वल्लभ हर्ष अमानमें.
मन० ॥ ५ ॥

॥ दोहा. ॥

द्वादश गुण धारक प्रभु, सिमरुं मन वच काय;
गुणधारी गुणियन बनुं, आत्म निर्मल थाय. ॥१॥

(राग माढ. तोरे गमका तराना—चाल.)

निर्मल मन धारी पाप निवारी परमेष्ठी भ-
गवान; सिमरुं सयवारी वार हंजारी जाउं बलि-
हारी परमेष्ठी भगवान. निर्मल० अंचलि ॥ पाडि-
हेर अड देव किये जस, मूल अतिशय चार;
द्वादश गुणधारी परमेष्ठी, अरिहंत जय जय कारे-
सिमरुं० ॥२॥ ज्ञानातिशय पूजातिशय, वाचा-
तिशय सार; अपाय अपगम चौथा मानुं, जानुं
पुण्य प्रकारे—सिमरुं० ॥३॥ तरु अशोक सुमन
सुर वृष्टि, दिव्य ध्वनि मनोहार; दुंदुभि छत्र
सिंहासन चामर, भामंडल चमकारे—सिमरुं
॥४॥ परमेष्ठी परमात्म अहं, जगजीवन हित-
कार; आत्म लक्ष्मी निजगुण प्रगटे, वल्लभ हर्ष
अपारे—सिमरुं० ॥ ४ ॥

॥ काव्यं ॥

सुखकरं शिवदं भवतारकं । जननमृत्युजरा-
विनिवारकम् ॥ अघहरं सुरराजगणैर्नुतं । जिन-
वरं परमेष्ठिपदं यजे ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय] श्रीमतेऽर्हत्पर-
मेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

पूजा— सूचना—स्नानिलोग अभिषेक करके अष्ट द्रव्यसे विधि पूर्वक पूजन कर अंगरचना करे वहांतक और भाई नी-
चेका गीत षडे, प्रत्येक पूजामें इसीतरह समझ लेना.

॥ गीत ॥

॥ दोहा ॥

पूजक पूजन से बने, पूज्य बराबर धार;
पूजा फल पूजा करें, पामे भवोदधि पार. ॥१॥

(चाल बलिहारी.)

बलिहारी बलिहारी बलिहारी, जगदीश अंतर्यामी,
अर्हन् पदसेवा सेवक तारणीजी। बलिं अंचलि ॥
दोष रहित स्वामी, एक अनेक नामी,

मुनि महाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित. १६५

मूल अनामी निज गुण धारी, जगदीश ॥१॥
कोई सिद्धांत भावे, कोई भी नाम गावे,
यदि न दोष लेश भारी, जगदीश ॥ २ ॥
हरि विरंचि वीर, बुद्ध शंकर धीर,
राम ऋषभ सुखकारी, जगदीश ॥ ३ ॥
ध्येयको ध्याता ध्यावे, ध्यान से ध्येय थावे,
ध्येय अजब गति न्यारी, जगदीश ॥ ४ ॥
अर्हन् पद सेवा, आत्म लक्ष्मी देवा,
वल्लभ लेवा हर्ष अपारी, जगदीश ॥ ५ ॥



॥ अथ द्वितीयश्रीसिद्धपरमेष्ठिपदपूजा ॥
॥ दोहा ॥

सकल कर्म मल क्षय करी, पाया पद निर्वान ।
निरावरण परमात्मा, शुद्ध सिद्ध भगवान ॥१॥
जन्म नहीं मरणा नहीं, नहीं जरा नहीं रोग ।
केवल आत्म रमणता, पुदगल रमण वियोग ॥२॥
(चाल—केसरीया थासु)
परमेष्ठी स्वामी सिद्ध भजुं रे शुभ भावसे प० अं० ॥

तीर्थकर जिन केवली रे, पण लघु अक्षर मान।
 शैलेशी फरसी करी रे, चिदघन सुखकी खान
 रे ॥ प० १ ॥ आतम राम रमापति रे, रूपा-
 तीत स्वभाव। निर्मल ज्योति झगमगे रे, पुद-
 गल रूप अभाव रे ॥ प० २ ॥ विगुणा पिण
 नहीं अंत है रे, निजगुण का साक्षात्। निरा-
 बाध एकांतसे रे, आत्मांतिक सुख सात रे प०
 ॥ ३ ॥ सिद्ध अनंता सेविये रे, चार अनंते
 संग। अशरीरी अपुनर्भवा रे, दंसण नाण अ-
 भंग रे ॥ प० ४ ॥ सादि अनंता कालसे रे,
 सिद्धि सुख परधान। आतम लक्ष्मी पामिये रे,
 वल्लभ हर्ष अमान रे ॥ प० ५ ॥

॥ दोहा ॥

नाश करी अड कर्मका, अड गुण प्रगट
 करंत। सिद्ध नमुं शुभ भावसे, पण दश भेद
 अनंत ॥ १ ॥

(चाल—पनिहारीकी)

ज्ञानावरण अभावसे भवि जानोजी, क्षा-

यक ज्ञान सोहंत मानोजी । दर्शनावरण वियो-
गसे भवि जानोजी । क्षायक दर्शन संत मा-
नोजी ॥ १ ॥ वेदनी कर्म के क्षय हुए भवि
जानोजी, अव्यावाध लहंत मानोजी । मोहनी
कर्म के अंत से भवि जानोजी, क्षायक समकि-
तवंत मानोजी ॥ २ ॥ आयु कर्म अभावसे भवि
जानोजी, अक्षय स्थिति भगवंत मानोजी ।
नाम कर्म के वियोगसे भवि जानोजी, रूपातीत
कहंत मानोजी ॥ ३ ॥ गोत्र कर्म के क्षय हुए
भवि जानोजी, अगुरु लघु गुणवंत मानोजी ।
अंतराय के अंतसे भवि जानोजी, गुण निज
वीर्य अनंत मानोजी ॥ ४ ॥ बंध उद्य उदीरणा
भवि जानोजी, सक्ता नाश करंत मानोजी । आ-
तम लक्ष्मी पासिया भवि जानोजी, वल्लभ हर्ष-
धरंत मानोजी ॥ ५ ॥

॥ काव्य ॥

सुखकरं शिवदं भवतारकं । जननमृत्युज-

राविनिवारकम् ॥ अघहरं सुरराजगणैर्नुतं । शिव-
वरं परमेष्ठिपदं यजे ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॐ हूँ श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सिद्धपरमेष्ठिने
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

॥ गीत ॥

॥ दोहा ॥

पूजक पूजनसे बने, पूज्य बराबर धार ।

पूजा फल पूजा करे, पासे भवोदधि पार ॥ १ ॥
(सोरठ, चाल-जिनबर शरण विना संसार अमण टलसे नहीरे)

सिद्धपद परमेष्ठी जग शरण भवि मलसे
सही रे । जन्म मरण दुःख दोहग रोग-सोग
टलसे सही रे । सि० अंचालि ॥ अजर अमर
अज ध्यान धरी, अलख निरंजन ज्ञान करी ।
पूजा सिद्ध पद भाव अरि छलसे नही रे ॥ सि०
॥ १ ॥ सुखकी उपमा जगमें नही, जाणे नाणी
सके न कही । अनुभव सहज स्वभाव गही क-
लसे सही रे ॥ सि० २ ॥ पूजन सिद्ध पद सुख

करी, भव भवके सब दुःख हरी। मानव भव
दिन मास धरी फलसे सही रे ॥सि० ३॥ आ-
तम लक्ष्मी सिद्ध खरी, सत चित आनंद रूप
वरी। वल्लभ हर्ष अनंत भरी रलसे सही रे ।
सि० ४ ॥

॥ अथ तृतीयश्रीआचार्यपरमेष्टिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

अस्त हुए जिन सूर्य के, केवली चंद समान ।
प्रगट करे जग तत्वको, दीपक सूरि जान ॥१॥
षट् त्रिंशत् गुण शोभते, षट् त्रिंशत् गुणवान ।
मर्यादा विनये करी, पूरण युग परधान ॥ २ ॥
पाप भार भारी बने, पड़ते भवि भव कूप ।
करुणा सिंधु तारते, नमो नमो मुनि भूप ॥ ३ ॥

(चाल-मान मायाना करनारा रे.)

सुखकारी पूजन सुखकारी रे, सूरिराय
पूजन सुखकारी । करे शुद्ध भावे नर नारी रे,
सूरिराय पूजन सुखकारी । अंचलि । युगप्रधान

सूरीश्वर सोहे, देशादि गुणके धारी । लोक
अनुग्रह कारण भासे, आचार पांच प्रकारी रे ।
सू० ॥ १ ॥ सारण वारण चोयण करता, पड़ि
चोयण दातारी । धर्मोपदेशक गच्छ नियंता,
ग्रमाद दूर निवारी रे । सू० ॥ २ ॥ भूम समा
जिन शासन दीपे, अनेकलब्धि भंडारी । तत्वज्ञ
तत्वोपदेशक सूरि, जीव परम उपकारी रे । सू०
॥ ३ ॥ पाले पलावे धर्म अनुपम, विकथा कषाय
विडारी । मात तात सुत बंधवसे भी, जीव
अधिक हितकारी रे । सू० ॥ ४ ॥ वंदन पूजन
भाव सूरिपद, अक्षय पद करतारी । आतम
लक्ष्मी संपत पासे, वल्लभ हर्ष अपारी रे । सू० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञान दरस चारित्रके, अड़ अड़ भेद चोर्वीस ।
तपके वार मिलायके, सूरि गुण छो तीस ॥ १ ॥
पण पण ब्रत समिति युता, गुप्ति तिग सोहंत ।
पाले पांच आचार रो, चार कषाय वमंत ॥ २ ॥

मुनि महाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित। १७६

पंचेंद्रियके संवरी, नव गुस्ति ब्रह्म धार ।
खपर मत ज्ञाता भुवि, सूरि नमो नरनार ॥३॥

(राग-सोरठ.)

सूरिपद मन मोहनगारा, जस अर्चन भ-
वोदधि तारा । सू० अंचालि । पडिरुवादिक चउद-
गुणधारी, क्षांति प्रमुख दश बारा । भावना-
भावित निज आतम ये, गुण षटत्रिंश आधारा ।
सू० ॥ १ ॥ संविन्न शांत मृदु संतोषी, कृत-
योगी गंभीरा । मध्यस्थ सरल गीतारथ पंडित,
अनुवर्ति शुचि धारा । सू० ॥ २ ॥ व्याख्यानी-
विज्ञानी तपस्वी, उपदेशक मतिवारा । नौमित्तिक-
बली वादी जीपक, पर्षदा आनंद कारा । सू०-
॥३॥ उपकारी नय निपुण सुरूपी, धारणा शक्ति
उदारा । प्रतिभाशाली स्थिर चित्त वचने, आ-
देय प्रिय कथनारा । सू० ॥ ४ ॥ निरुपद्रवी
अनुभवी भावज्ञा, उच्चितके जानन हारा । अं-
गीकृत निर्वाहे धोरी, स्वर गंभीर सुधारा । सू०-

॥ ५ ॥ इत्यादि गुण गण रत्नाकर, सूरिजन
मनोहारा । आत्म लक्ष्मी निज गुण प्रगटे,
चलभ हर्ष अपारा । सू० ॥ ६ ॥

॥ काव्यं ॥

सुखकरं शिवदं भवतारकं । जननमृत्युजरा-
विनिवारकम् ॥ अघहरं सुरराजगणैर्नुतं । गणधरं
यरमेष्ठिपदं यजे ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ॐ ह्य श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सूरिपर-
मेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ गीत ॥

॥ दोहा ॥

पूजक पूजनसे बने, पूज्य बराबर धार ।
पूजा फल पूजा करे, पामे भवोदधि पार ॥१॥

(राग-जय जयवंती)

सूरिपद पूजे भावे, अजर अमर पावे ।
फिर नहीं जग आवे, मिटत मरन है ॥सू० ॥१॥

वैसे नहीं माय ताया, हितकारी सुय भाया ।
 जैसे सूरिवर आया, तारन तरन है ॥ सू० ॥२॥
 पूजक को पूज्य मानी, आत्मको सूरि जानी ।
 जिन गणधर वानी, जगमें सरन है ॥ सू० ॥३॥
 आत्म आनंद थावे, जिन लक्ष्मी घर आवे ।
 बलभ हर्ष गावे, चरन सरन है ॥ सू० ॥ ४ ॥

॥ अथ चतुर्थश्रीउपाध्यायपरमेष्ठिपदपूजा ॥
 ॥ दोहा ॥

पारग बारां अंगके, सूत्र अर्थ तह दोय ।
 पाहण सम पिण शिष्यको, श्रुतधारी करे जोय ॥१॥
 विना बोध किये जीवको, होवे न तत्व पिछान ।
 यढे पढावे सूत्रको, उपाध्याय भगवान ॥ २ ॥

(लावणी-मराठी चाल-अपने पदको तजकर.)

परमेष्ठिपद पूजन प्राणी, परमेष्ठि पद धारा
 रे । उपाध्याय नमिये भवि भजिये, आनंद
 मंगल कारा रे ॥ १ ॥ मौह अहि विष मूर्छित
 प्राणी, चेतन ज्ञान दातारा रे । गारुड सम विद्या

मंतरसे, दूर हरे अंधकारा रे ॥२॥ अज्ञान व्याधि
विधुरित चेतन, श्रुत रसायण सारा रे । दाता
महाविद्याके धोरी, जगजीविन हितकारा रे ॥३॥
अविनीत शिष्य चतुर्दश दोषे, भव वन भटकन
हारा रे । पन्नर गुण तस देकर विनयी, करके
करे निस्तारा रे ॥४॥ स्वपर समय विवेकी ज्ञानी,
शिक्षा दोय प्रकारा रे । दाता पाता आत्म ल-
क्ष्मी, वल्लभ हर्ष अपारा रे ॥५॥

॥ दोहा ॥

चौथा परमेष्ठि नमु, उपाध्याय भगवान् ।
गुण पणवीस धारण करे, उपमा सोल प्रमान ॥६॥
पणवीस आवश्यक करे, पणवीस किरिया त्याग ।
भावे पणवीस भावना, श्री पाठक महा भाग ॥७॥

(चाल-मज्जा देते है क्या यार्)

धन धन उपाध्याय महाराज, भवजल पार
लगाने वाले । धन० अंचली । गुण पणवीसके
धरनार, अंग आचारादिक ग्यार । उपांग दोयदश
धार, करी मुनिगणको पढानेवाले । ध० ॥ ८॥

चरे चरण सत्तरि सार, करे करण सत्तरी लार।
 गुण पणवीस एह उदार, जिनागम ज्ञान बता-
 नेवाले । ध० ॥२॥ गो हय गय सिंह समान, टारे
 वादिका अभिमान । रवि शशी भंडारी जान,
 शब्दीपति उपमा पानेवाले । ध० ॥३॥ जंबु मेरु
 नर देव, सीता नृप वासुदेव । रत्नोदधि भावे
 सेव, करे भवि तरण तरानेवाले । ध० ॥४॥
 चाचक ऐसे श्रीकार, आतम लक्ष्मी गुणधार, वल्लभ
 मन हर्ष अपार, गुणी पाठक गुण गानेवाले । ध०५

॥ काव्य ॥

सुखकरं शिवदं भवतारकं । जननमृत्युज-
 राविनिवारकम् ॥ अघहरं सुरराजगणैर्नुतं । श्रुत-
 थरं परमेष्ठिपदं यजे ॥ १ ॥

॥ मंत्र ॥ ओँ हूँ श्री परमपुरुषाय परमे-
 श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते पाठक-
 परमेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ गीत ॥

॥ दोहा ॥

पूजक पूजनसे बने, पूज्य वरावर धार ।
पूजा फल पूजा करे, पामे भवोदधि पार ॥१॥

॥ कान्डा ॥

पूजन परमेष्ठिपद कीजे । पू० अंचली ॥
सुर नर मुनि जस ध्यान करीने, वाचक पाठक
पदको नमी जे ॥ पू० ॥ १ ॥ बावना चंदन
रस सम वचने, पाप ताप भवि उपसम कीजे
॥ पू० ॥ २ ॥ गुणवन भंजन मदगज दमने,
अंकुश सम गुण ज्ञानको दीजे ॥ पू० ॥ ३ ॥
ज्ञान दान दाता गुण राता, सूरिपद लायक
गण रीजे ॥ पू० ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी हर्ष
धरीने वल्लभ वाचक पद वरनीजे ॥ पू० ॥ ५ ॥

॥ अथ पंचमसाधुपरमेष्ठिपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

मुनिवर तपसी संयमी, वाचंयम अनगार ।
श्रमण तपोधन यति ब्रती, ऋषि साधु सुखकार ॥१॥

अधु साधे मोक्षको, वश कर मन वच काय ।
लत्रय आराधके, जन्म मरण मिट जाय ॥२॥
(सोहनी-चाल-हूँद फिरा जग सारा.)

परमेष्ठी सुखकारा सुखकारा मुनिपद कीजे
अर्चना । अंचलि । ज्ञान दरस चारित्र आराधे,
असंयम टारी शिव साधे । चिदघन रूप उदारा
उदारा मुनिपद कीजे अर्चना ॥ प० ॥ १ ॥
ध्यान धरे अपध्यान निवारे, दंडको त्यागे गुस्ति-
को पारे । गारव शल्य विडारा विडारा मुनिपद
कीजे अर्चना ॥ प० ॥ २ ॥ विकथा निवारी टारे
कसाया, इंद्रिय जीति वारे पमाया । करे तप
बार प्रकारा प्रकारा मुनिपद कीजे अर्चना ॥
प० ॥ ३ ॥ साधु पडिमा सेवे बारे, संयम सत
दश पारे धारे । सीलंग सहस अठारा अठारा
मुनिपद कीजे अर्चना ॥ प० ॥ ४ ॥ दशविध
लोच करी जगमोहे, आतम लक्ष्मी मुनियुण
सोहे । वल्लभ हर्ष अपारा अपारा मुनिपद कीजे
अर्चना ॥ प० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

धर्म चतुर्विध उपदिसे, समता गुण भंडार,
सत्त्विंश गुण शोभते, वार वार बलिहार ॥ ३ ॥
याति धर्म दश साधते, हास्यादि षट् रहित,
आहार न लेवे दोषसे, सुडतालीस सहित ॥२॥

(चाल—होई आनंद वहाररे.)

परमेष्ठि पद साररे भवि सेवो मुनिको ॥
अंचालि ॥ षट् काया रक्षा करे रे, लिये व्रत षट्
धार रे ॥ भविं ॥ १ ॥ इंद्रिय पण निय्रह करे
रे, टाले विषय विकार रे ॥ भविं ॥ २ ॥ नि-
लोंभी मन शुद्धता रे, क्षमा गुण आधार रे ॥
भविं ॥ ३ ॥ पडिलेहण आदि शुचिरे, संयम
योग प्रचार रे ॥ भविं ॥ ४ ॥ मन वच काय
अकुशलतारे, रोधे नित्य अणगाररे ॥ भविं ॥ ५ ॥
शुधादि परिसह सहेरे, उपसर्गके सहनारे ॥
भविं ॥ ६ ॥ आत्म लक्ष्मी गुण वरेरे, वल्लभ
हर्ष अपाररे ॥ भविं ॥ ७ ॥

मुनिमहाराजश्री बल्लभविजय विरचित. १७९

॥ काव्य ॥

सुखकरं शिवदं भवतारकं । जननमृत्युजरा-
विनिवारकम् ॥ अघहरं सुराराजगणैर्नुतं । मुनि-
चरं परमेष्ठिपदं यजे ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ �ॐ हूँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते साधु-
परमेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥५॥

॥ गीत ॥

॥ दोहा ॥

पूजक पूजनसे बने, पूज्य बराबर धार ।
पूजा फल पूजा करे, पामे भवोदाधिपार ॥ १ ॥

॥ कव्वाली ॥

मुनि परमेष्ठि पद पूजन, करे भविजीव
शुभ भावे । अंचलि । सुरि वाचककी सेवा, करे
नित्य ज्ञान गुण पावे । यदि निर्ग्रथ गुण वर्णन,
करे गुण पार नहीं आवे । मु० ॥ १ ॥ समिति
गुस्तिको पाले, भवाटवी फेरी बच जावे । अहो

समताके सागर हो, सुमतिसे प्रीति मन लावे । मु० ॥ २ ॥ कमल सम लेप विन सहने, परि-
सह वीर सम थावे । मनोहर तेज तप कांति,
विमल जिम हंस जग गावे । मु० ॥ ३ ॥ समर
जस शत्रु और मीता, थावर त्रस जीव समभावे
आतम लक्ष्मी वल्लभ साधे, मुनि मन हर्ष नहीं
मावे । मु० ॥ ४ ॥

॥ कलश ॥

(रेखता)

पूजो भविजीव आनंदा, अहो परमेष्ठी सु-
खकंदा । हरो ब्रह्म जालका फंदा, मिटे जरा
मरणका दंदा ॥ पूजो० ॥ १ ॥ गुणि गुण अंत
नहीं आवे, सुरासुर नरपति गावे । यतिपति
नाथ जिन जाणे, शके कही नहीं कथन टाणे
॥ पूजो० २ ॥ महा मति मंद मैं कैसे, शकुं कही
पिण जगत जैसे । वदे शिशु शक्ति अनुसारी,
कहे तिम भक्ति आधारी ॥ पूजो० ३ ॥ तपोगण

गगनदीपाया, श्रीविजयानंद सूरि राया । न्यायां-
भोनिधि विरुद्ध धारी, श्रीआत्माराम बलिहारी
॥ पूजो० ॥४॥ विजयलक्ष्मी गुरु दादा, विजय
श्री हर्ष गुरुपादा । वल्लभ परमेष्ठिगुण गाया, गुणि
गुण गान रस पाया ॥ पूजो० ॥ ५ ॥ विजय
कमल सूरि राया, विजय श्री वीर उवझाया ।
प्रवर्तक श्री विजय कांति, प्रवर्ते राज्य आति
शांति ॥ पूजो० ॥६॥ संवत प्रभु वीर जगदीसा
कमी सठ सय पण वीसा । आतम अठ दस
विक्रम जानो, सहस दोय त्रीस कम मानो ॥
॥ पूजो० ॥७॥ नगर मुंवई महा बंदर, मनोहर
शहर आति सुंदर । किया लालबाग चौमासा,
पूरण रचना फली आसा ॥ पूजो० ॥ ८ ॥ सु-
धारी भूलचुक लेवे, सज्जन मोहे माफ कर देवे ।
आगम विपरीतकी बाबत, मिच्छामि दुक्कडं
साबत ॥ पूजो० ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीपंचपरमेष्ठि पूजा ॥

॥ अर्हम् ॥

॥ पंचतीर्थपूजा ॥

~~—॥—~~

॥ दोहा ॥

बीरजिनंद नमी करी, सिमरी सारदमाय ।
 पंचतीर्थ पूजा रचुं, दर्शन शुद्धि उपाय ॥१॥

तरना होवे जीविका, तीरथ कहिये तेह ।
 पूजन करिये सुधकरी, मन वाणी अरु देह ॥२॥

तीरथ नंहि जग एक है, मैं तो एक हि एक।
 भक्ति शक्ति पूजन करूं, तीरथ पांच विवेक ॥३॥

जंगम थावर भेदसे, तीरथ दो सुखकार ।
 जंगम तीरथ जानिए, विचरे उग्र विहार ॥४॥

जंगम तीरथ तारते, घर अंगण पद धार ।
 नमन करो शुभभावसे, धन्य साधु अनगार ॥५॥

थावर तीरथ थिर रहे, आवे नहि चल आप ।
 तिसकारण तीरथ भवी, जाय खपावे पाप ॥६॥

तीर्थकर गणधर यती, फरसी भूमी जेह ।
 उत्तम उत्तम संगसे, कहिये तीरथ एह ॥७॥

मु. म. श्रीवल्लभविजय विरचित पंचतीर्थ पूजा. १८३

अष्टापद सिधगिरि नमूं, आबू अरु उज्जंत ।
तीर्थ समेतशिखर नमूं, होय कर्मको अंत ॥८॥
पंच तीर्थके आदिके, अक्षर साथ मिलाय ।
करिये जाप सदा भवी, नमः असिआउसाय ॥९॥
अद्वावय आईगिरी, आबू तह उज्जंत ।
मोक्षखागिरी मिल आदिवर्ण, भवि ऊँकार सुमंत १०
उत्कृष्टी सब द्रव्यसु, आठ जघन परिमान ।
भविजन भावे कीजिये, पूजा श्रीभगवान ॥११॥

(१) अष्टापदतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

अष्टापद कैलास है, जास धवलगिरि नाम ।
ऋषभदेव जस मंडनो, पूरण सुखको धाम ॥१॥

सारंग-केहरवा ।

(हमे दम देके सोतन घर जाना-चाल)

मेरे मन तीर्थ अष्टापद माना । अष्टापद
माना अष्टापद माना मेरे मन तीर्थ-अंचली ॥
समवसरे प्रभु ऋषभ जिनंदा । पूछा भरत प्र-
भुजीने बखाना-मेरे० ॥१॥ अवसरपिणीमें मुझ

सम होसी । वीसं तीने जिन और सयाना—
मेरे० २ ॥ भरते मणिमय [बिंव बनाये । निज
निज देह रु रूप सुहाना—मेरे० ३ ॥ सुंदर मंदिर
कांति मनोहर । देख सुनत भविजन मन माना
मेरे० ४ ॥ आदि जिनेश्वर मोक्ष सधारे । देव
किया ओच्छव निरवाना—मेरे० ५ ॥ आतम-
लक्ष्मी तीर्थ अनुपम । वल्लभ हर्ष प्रभुगुण
गाना—मेरे० ६ ॥

दोहरा ।

संभवजिनवर आदि ले, चार आठ दस दोय ।
दक्षिणदिशि आदि क्रमे, चउपासे जिन जोय १

झीझोटी-दादरा ।

(जाओ जाओ सैयां मोसे न बोलो)

पूजो पूजो प्रभु तीर्थपति जग तारक भाव
धरी । और नहीं जग कोई विना प्रभु वारक
भाव अरि० पू० अं० । पूजा प्रभुकी करी, सफल
चोही धरी । नाणुं मिले पिण टाणुं मिलेनहीं वात

कही ए खरी । पू० १ ॥ आतमशक्ति वरी,
तिस भव मुक्ति ठरी । यात्रा करे जो अष्टापद्
तीरथ भूचर आप चरी । पू० २ ॥ प्रभु तारण
तरण तरी, तुम तीरथ भाव धरी । चक्री सगर
सुत रक्षा निजातम कारण तीर्थ करी—पू० ३॥
केवली मुख उचरी, करुं आदर पाँव परी । सूत्र
वसुदेव हिंडी आवश्यक पाठको अनुसरी । पू०
४ ॥ आतम लक्ष्मी भरी, खोट न आवे जरी ॥
हर्ष अनुपम वल्लभ तीरथ तीर्थपति सिमरी—पू० ५

॥ काव्य ॥

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमः शत्रुञ्जयो मण्डपः
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदागिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥

॥ मंत्र ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते अष्टाप-

द्वितीयमंडनाय श्रीकृष्णभादिचतुर्विंशतिजिनेद्राय
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

गीत ।

पंजाबीठेका दुमरी । रागिणी सरपरदा ।

(गोपाल मेरी करुणा क्यों नहीं आवे—चाल)

महावीरप्रभु मुखसे यूँ फरमावे—महावीर-
अंचली । अष्टापद् तीरथ करे यात्रा रे । तिस
भव मोक्षे जावे—म० १ ॥ गौतमस्वामी सुनकर
आए रे । यात्रासे सुख पावे—म० २ ॥ पन्नरसो
तापस प्रतिबोधे रे । शिवपुर वो भी जावे—म०
३ ॥ दर्शन शुद्धि कारण भवियां रे । तीरथ
भेटो भावे—म० ४ ॥ आत्मलक्ष्मी निजगुण प्रगटे
रे । वल्लभ हर्ष मनावे—म० ५ ॥

(२) श्रीसिद्धाचलतीर्थपूजा ।

दोहरा ।

विमलाचल विमला करे, सिद्धाचल भवि सिद्ध ।
शत्रुंजयं अरि जयकरे, प्रगटे आत्म रिद्ध ॥३॥

देश-क्रिताल-लावणी ।

(कर फकर प्रीतयुत बोलत नार सयानी । चाल)

शत्रुंजय तीरथनाथ नमो भविप्रानी, नहीं
 तीरथ जगमें और कोई इस सानी । श—अं० १॥
 जस महिमाका नहीं पार जाउं बलिहारी,
 आदिजिन आए पूर्व नवाणु वारी ॥
 हुए सिद्ध प्रथम जिनराज प्रथम गणधारी,
 तिस कारण पुंडरिक नाम जपे नर नारी ॥
 महिमा सीमंधर देवने जास वखानी—नहीं० १॥
 पांडव षट् देवकी पुत्र भरत बलवंता,
 श्रीरामचंद्र निर्वान ध्यान भगवंता ॥
 नारद शुक सेलक पुत्र थावच्चा संता,
 हुआ सिद्ध अनंता जीव करी भव अंता ॥
 सिद्धाचल साचा नाम प्रभुकी वानी—नहीं० २॥
 सुंदर नव तत्वस्वरूप टूँक नव जानो,
 उत्तमगुण श्रीब्रह्मचर्य वाड नव मानो ।
 नवपद महिमा नहीं पार ध्यान मन आनो,
 आत्मलक्ष्मी निजरूप हर्षको टानो ।
 मुक्तिवल्लभ जिनदेव तीर्थ फरमानी—नहीं० ३॥

॥ दोहा ॥

शाश्वत शिवसुख संपजे, तिण शाश्वत गिरि नाम ।
बंदन पूजन भावसे, लीजे पद अभिराम ॥ १ ॥

(काफी-चिताल-प्रभु मोरे अवगुन चित्त न धरो)

भविजन अर्चन तीर्थ करो । समता सुम-
तुति धार हिये निज, भवभव पाप हरो—भ० अं०
तीरथयात्रा मनमल धोवा, निर्मल नीर झरो ।
पुरुषोत्तमगुण सिमरन करके, पुण्यभंडार भरो—
भ० १ ॥ तनसे नीचा मनसे ऊंचा, इसविध
तीर्थ चरो । ऋषभ जिनदं जुहारी धारी, मन
भवसिंधु तरो । भ० २ ॥ तीर्थकर गणधर मुनि
युंगव, फरसे तीर्थ बरो । सुर सुरपति नर नरपति
सम्यग दृष्टि माने खरो । भ० ३ ॥ कंचनगिरि कंच-
नसम निर्मल, आतमरूप धरो । शत्रुंजय शत्रु-
को जीती, फिर भवमें न फिरो । भ० ४ ॥ जि-
नपूजन तीरथ सेवासे, आतम लक्ष्मी वरो । हर्ष
अनुपम वल्लभ प्रभुके, चरनन नित्य परो । भ० ५ ॥

काव्य ।

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमः शत्रुञ्जयो मण्डपः
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदागिरिः श्रीचित्रकूटादय—
स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे श्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीसिद्धगिरिती-
र्थमंडनाय श्रीमते श्रीऋषभदेवजिनेंद्राय जला-
दिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥



गीत ।

(दरवारी कानडा-ताल दादरा ठुमक चलत रामचंद्र)

पुजन करत तीर्थराज आनके सुमतियाँ—
पु० अं० ॥ हिल मिलकर मिलत भाय, शुद्ध
धर्म मन मनाय, गावो गावो जिनंदराय, गुण
गणकी बतियाँ—पु० १ ॥ ठुमक ठुमक नाच
नाच, एक चित्त तान राच, एक एही प्रभुसे
जाच, न फिरुं चउ गतियाँ—पु० २ ॥ संघसाथ्

भरतराय, छैः री पारी तीरथ आय, औरभी
यही ठाठ बनाय, आवत संघ ततियाँ—पु० ३
श। आतम लक्ष्मी कारण ईस, तीर्थ पूजे अहर
नीस, हर्ष पासी नासी सीस, बल्भ प्रभु न-
तियाँ—पु० ४ ॥

(३) अर्बुदाचलतीर्थपूजा ।

धोदरा ।

अर्बुदगिरि तीरथ नमू, आदिजिनंद दयाल ।
विमलसाह मंत्री कियो, मंदिर अति हि रसाल ॥

(पहाड़ी-लावणी-जो घरि जावे प्रभुके ध्यानमें)

जो दिन जावे भविका तर्थमें उत्तम वो
मानी । सारमें सार यही सागारमें अनगारमें
आचारमें परमार्थ पिछानी—जो दिन० अंचली।
गाम आबू देलवारे, अनुपम मंदिर चारे,
करन यात्रा पुण्यवारे, समकितहृषि होवे जो
सागारमें अनगारमें आचारमें परमार्थ पिछानी—
जो० १ ॥ विमल मंत्री बनवाया, मंदिर आदि

जिन राया, नेमि मंदिर सुखदाया, वस्तुपाल
 तेजपाल होया सागारमें आचारमें विचारमें प-
 रमार्थ पिछानी-जो० २॥ आदिजिन दर्शन पा-
 मी, दर्श करो चउमुख स्वामी, मिले पद आत-
 मरामी, बल्लभ हर्षे लक्ष्मी ज्ञानागारमें अनगा-
 रमें आचारमें परमार्थ पिछानी-जो० ३॥

दोहरा ॥

मनमोहन जिनघंर खरो, मनमोहन जिनदेव ।
 मनमोहन पूजा रची, मनमोहन फल लेव ॥६॥

(गजल-कवाली ॥ चाहे बोलो या न बोलो)

पूजन तो कर रहाहुं, चाहे तारो या न
 तारो-अं० ॥ प्रभु तीर्थस्वामी तुम हो, निज
 तीर्थ आदि तुम हो । तुम तीर्थ आ रहाहुं, चाहे
 तारो या न तारो-पु० १ ॥ प्रभु ध्येय नाम
 तुमरा, ध्याता है नाम हमरा । तुम ध्यान ला
 रहाहुं, चाहे तारो या न तारो-पु० २ ॥ मंत्री
 विमलको कीनो, विमलात्मरूप पीनो । मैं भी

वो चा रहाहुं, चाहे तारो या न तारो—पू०३॥
 सन्मुख चैत्य सोहे, पीतल विंव मोहे ।
 पगसीस नाँरहा हुं, चाहेतारो या न तारो—पू०४॥
 मंत्रीजी वस्तुपाला, लघु भाई तेजपाला । तस
 नेमि गा रहाहुं, चाहे तारो या न तारो—पू०५॥
 मुख चार सुख वर्षे, प्रभू आत्मलक्ष्मी हर्षे ।
 बल्लभ तो पा रहाहुं, चाहे तारो या न तारो—पू०६॥

॥ काव्यं ॥

ख्यातोऽप्तपदपर्वतो गजपदः समेतशैलाभिधः,
 श्रीमान् रैवतकःप्रासिद्धमहिमः शञ्जुङ्गयो मण्डपः॥
 वैभारः कनकाचलोर्बुद्गिरिः श्रीचित्रकूटादय-
 स्तत्र श्रीकृष्णभादयो जिनवराःकुर्वन्तु वो मङ्गलम्॥
 ॥ मंत्रः । ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
 राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीअर्बुदाचलती-
 श्रीमंडनाय श्रीमते श्रीकृष्णभादिजिनेंद्राय जला-
 दिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ गीत ॥

(मालकोस-त्रिताल-मुख मोरमोर-=)

जिन पूज पूज सुख पाय जात । मन
शुद्ध साफ कर अपनो गात-जिन० अंचली ॥
तीर्थकी महिमा मेरे मन भाई, देख देख मनुवा
हुलसाई । किये जात करमनको घात-जिन०
॥ १ ॥ भूर्ति प्रभुकी रसीली दश चारी, चौद
राज ऊपर आधारी । चले जात भवि दिनन
रात-जिन० २ ॥ कुमारपाल सुंदर जिनमंदर,
मूलनायक शांतिजिन अंदर । धन नर नार जो
करत जात-जिन० ॥ ३ ॥ पदवी अचल अ-
चलगढ पावे, आतम लक्ष्मी अति हषवे । व-
ह्लभ ए जिनमतकी बात-जिन० ३ ॥



(४) उज्जयंततीर्थपूजा ।

॥ दोहरा ॥

उज्जयंत गिरनार है, रैवतकाचल नाम ।
नेमिनाथ भगवानका, धाम परमपदधाम ॥१॥

(पीलू-वरवा-ताल के हरवा, नाथ निज नगर देखाडोरे ।)

नाथ गिरनारके पूजोरे । सरण है अनाथ-
करो तुम साथ नाथ गिरनारके पूजोरे । अंचली
॥ दीक्षा केवल मोक्ष ए तीनो, कल्याणक जिन
कहियेरे । तीर्थकर श्रीनेमिनाथ, वर्तमान सि-
मरियेरे-सरण० १ ॥ आठ नमीश्वर आदि जि-
नवर, गत चोवीसी भाजियेरे । भव्य अनेक गि-
रिसेवासे, शिवपुर सजियेरे-सरण० २ ॥ मूर्ति
रखमर्या प्रभुनेमि, इंद्र पाससे लड़येरे । चैत्य
बनावी विधिसे भरते, स्थापन करियेरे-सरण०
३ ॥ बलभी भंगे शक्र आदेशे, कांति अंबिका
हरियेरे । पंचम आरा अंते सुरपति, स्वर्गमें ध-
रियेरे-सरण० ४ ॥ कल्याणक ही अनंता इन
गिरि, त्रय त्रय पाठ उचरियेरे । आतम लक्ष्मी
हर्ष चरण जिन, वल्लभ परियेरे-सरण० ५ ॥

॥ दोहरा॥

पाठ कल्प गिरनारका, आगामी बावीस ।
पद्मनाभादि जिनवरा, होंगे सिद्ध जगीश ॥६॥
दीक्षा केवल मोक्ष ए, कल्याणक तिग सार ।

झोंगे रैवतकाचले, दो जिनके सुखकार ॥ २ ॥

सोरठ-दादरा

दीनके दयाल नेमिनाथ सरन चाउं-दी०
अंचली ॥ एक ही नाम जिनवरका, दूसरा न
गाउं । नाथके तीरथ पर तो, एक चित्त आउं-
दी० १॥ पूजिये रंग गरब हरी, भावसे जनाउं ।
संपदा वंदन फल हो, आत्मरूप पाउं । दी०२॥
ध्यान है सार अरहनका, चित्तमें समाउं । आ-
त्मलक्ष्मी बलभ सीस, हर्षसे नमाउं-दी० ३ ॥

॥ काव्य ॥

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः
वैभारः कनकाचलोऽर्जुदगिरिः श्रीचित्रकूटाद्य-स्तत्र
श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हूँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते श्रीउ-
ज्जयंततीर्थमंडनाय श्रीनेमिनाथ जिनेन्द्राय ज-
लादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ गीत ॥

(वरवा-कहेरवा धन धन वो जगमें नरनार-)

धन धन नेमिनाथ भगवान भवोदधिपार
 लगानेवाले--धन० अंचली ॥ रैवतकाचल सिरदार,
 तुमे त्यागी राजुल नार । झट त्याग दियो सं-
 सार, पशुगण जान बचानेवाले--ध० १ ॥ प्रभु
 नेमि बालकुमार, लियो बचपनसे ब्रह्म धार ।
 दियो आवागमन निवार, तरण तारण पद पाने
 वाले--ध० २ ॥ दीक्षा अरु केवल ज्ञान, हुओ
 सहस्रावन मैदान । उज्जितशिखर निर्वान, तीर्थ
 गिरनार वसानेवाले--ध० ३ ॥ तीरथयात्रा गुण-
 खान, आत्मलक्ष्मीको निदान । पूजो हर्षे भ-
 गवान, प्रभु वल्लभ गुण गानेवाले--ध० ४ ॥

(५) श्रीसम्मेतशिखरतीर्थपूजा ।

॥ दोहरा ॥

पार्श्वनाथके नामसे, ए गिरि जग परासेह्व ।
 तीर्थकर अनशन करी, वीस हुए हैं सिद्ध ॥१॥

(माढ-क्रपभजी थाने मनरी वातां-)

चेतनजी प्यारा पूजनहारा समेतशिखर
गिरिराज-अं० ॥ वीसे टूंके वीस जिनेश्वर सो-
हेजी म्हाराराज रे कांड चरण सुहंकर भविजनके
मन मोहेजी म्हारा० १ ॥ तीनसो आठके संगजी
म्हाराराज रे कांड पद्मप्रभुजी शिववधु वरिया
रंगजी म्हारा० २ ॥ पांचसो मुनि परिवरियाजी
म्हाराराज रे कांड मल्लि सुपारस शिवसुख इण-
गिरि वरियाजी म्हारा० ३ ॥ एकसो आठसु
धर्मजी म्हाराराज रे कांड नवसो साथे शांति-
नाथ शिव शर्मजी म्हारा० ४ ॥ पारस तेचीस
साथजी म्हाराराज रे कांड आतम लक्ष्मी हर्ष
बल्लभ जगनाथजी म्हारा० ५ ॥

॥ दोहरा ॥

तीर्थकर मोक्षे गए, मोक्ष गिरि तिणे नाम ।
कारण कारज नीपजे, आलंबन विसराम ॥ १॥

(सोहनी-सिद्धगिरि तीरथपर जानाजी)

समेद शिखर गुण गानाजी । गानाजी

सुख पानाजी सम्मेद शिखर गुण गानाजी । अं-
चली ॥ चालु चोवीसी वीस सुहंकर । तीर्थकर
निर्वानाजी-सम्मेद० १ ॥ आजित संभव अभि-
नंदन सुमति । चंद्र सुविधि नामि मानाजी-स-
म्मेद० २ ॥ कुंथु अर शीतल श्रेयांसा । सुब्रत सहस
प्रमानाजी-सम्मेद० ३ ॥ रस मुँनि सहसके साथे
मुक्ति । विमल अनंत जिन रानाजी-सम्मेद० ४ ॥
आतमलक्ष्मी हर्ष धरीने । वल्लभ शिवपुर जा-
नाजी-सम्मेद० ५ ॥

॥ काव्य ॥

ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलाभिधः,
श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डपः ।
वैभारः कनकाचलोऽर्बुदागिरिः श्रीचित्रकूटादय-
स्तत्र श्रीत्रिष्ठभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् १

॥ मंत्रः ॥ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते श्रीसम्मे-
तशिखर तीर्थमंडनाय विंशतिजिनेद्राय जला-
दिकं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ गीत ॥

(कल्याण-चिदानन्द विडारोने कुमति जो मेरी)

प्रभुपद पूजो भविजन हितकारी—अंचली ॥

वामा नंदन वंदन पूजन, भवोदधि पार उतारी
। प्र० १ ॥ सामलापारस तीरथस्वामी, समेत
शिखर बलिहारी—प्र० २ ॥ वदन कमल पर
वीरता सोहे, शशिसम कांति निहारी—प्र० ३ ॥
निर्मल हंस समा प्रभु राजे, सेवक निजसम
कारी—प्र० ४ ॥ आतमलक्ष्मी प्रभुता प्रगटे, व-
ल्लभ हर्ष अपारी—प्र० ५ ॥

कलश ॥

(रेखता)

तीर्थ गुण गाओ आनंदे, तीर्थ भविजीव
नित्य वंदे । अं० तीर्थ दोय भेदसे जानो, शा-
श्वता अशाश्वता मानो । कहे नहीं पार जस
आवे, नमो भविजीव शुद्ध भावे ॥ १ ॥ केसरी-
या भोयणी चंगा, शंखेश्वरापास तारंगा । पंचा-
सरा पार्श्व गंधारा, कावी अंतरिक्ष अंजारा ॥ २ ॥

झगडिया पानसर ऊना, राणकपुर मक्षीजी जू-
ना । नाडोल नाडलाई वरकाणा, मूळाला वीर-
जी नाणा ॥ ३ ॥ राजग्रही काशी श्री चंपा,
पावापुरी वीर दुःख कंपा । मांडव गजपुर माण-
कस्वामी, चारुप वैभारगिरि नामी ॥ ४ ॥ स्तंभन
नवखंडा पल्लविया, नवलकखा पास सामालिया ।
इत्यादि तीर्थ नहीं पारा, गावो गुण शक्ति अनु-
सारा ॥ ५ ॥ तपागच्छ नाम दीपाया, श्रीविज-
यानंद सूरिराया । न्यायांभोनिधि बिरुद् पाया,
श्रीआत्माराम जग गाया ॥ ६ ॥ विजयलक्ष्मी
गुरुदादा, विजय श्री हर्ष गुरुपादा । लघु तस
शिष्य सुखदाया, वल्लभ पंचतीर्थ गुण गाया ॥ ७ ॥

६ ४ ८ २

युग युग वेद कर थाया, संवत महावीर जिन-
राया । आत्म बावीस छबीसा, कमी विक्रम
सय वीसा ॥ ८ ॥ एकादशी दिन गुरुवारे, मास
माघ पक्ष उजियारे । मुंबई श्रीसंघ जयकारी,
हुई प्रेरणा मंगलकारी ॥ ९ ॥ मुनि कांति वि-
जय राया, प्रवर्तक पदको दीपाया । रही इनके

चरण छाया, तीर्थगुण लेश दरसाया ॥ १० ॥
सुधारी भूलचुक लेना, सज्जन मोहे जान करदेना । मिच्छामिदुक्कडं भाखे, वल्लभ गोडी पार्श्वकी साखे ॥ ११ ॥ इति ॥

उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराज विरचित
पार्श्वजिन स्तवन

पूजा विधि माहे भावियेजी, अंतरंग जे भाव ।
ते सवि तुज आगल कहुंजी, साहेब सरल स्वभाव ।
सुहंकर अवधारो प्रभु पास सु० १ ॥

दातण करतां भाविएजी, प्रभु गुण जल
मुख सुद्ध । उल उतारी प्रमत्तताजी, हो मुज
निर्मल बुद्ध । सु० २ ॥ जतना स्नान करीजीए-
जी, काढो मेल मिथ्यात्व । अंग शोष-
वीजी, जाणुं हुं अवदात । सु० ३ ॥ क्षीरोद-
कनां धोतियांजी, चिंतवो चिन्त संतोष । अष्टकर्म-
संवर भणेजी, आठ पडो मुख कोष । सु० ४ ॥
ओरसीओ एकाग्रताजी, केसर भक्ति कल्लोल ।

श्रद्धा चंदन चिंतवोजी, ध्यान घोल रंगरोल ।
 सु० ५ ॥ भाल वहुं आणा भलीजी, तिलक
 तणो तेह भाव । जे आभरण उतारिएजी, ते
 उतारो परभाव । सु० ६ ॥ जे निर्मल्य उता-
 रीए जी, ते तो चित्त उपाधि । पखाल करताँ
 चिंतवोजी, निर्मल चित्त समाधि । सु० ७ ॥
 अंगलूहणाँ वे धर्मनाजी, आत्म स्वभाव जे
 अंग । जे आभरण पहेराविएजी, ते स्वभाव
 निज अंग ॥ सु० ८ ॥ जे नव वाड विशुद्धताजी,
 ते पूजा नव अंग । पंचाचार विशुद्धताजी, तेह
 फूल पंचरंग । सु० ९ ॥ दीवो करताँ चिंतवोजी,
 ज्ञान दीपक सुप्रकाश । नय चिंता धृत पूरि-
 युंजी, तत्व पात्र सुविशाल । सु० १० ॥ धूप रूप
 अति कार्यताजी, कृष्णागरुनो जोग । शुद्धवा-
 सना महमहेजी, ते तो अनुभव योग । सु०
 ११ ॥ मद स्थानक अड छांडवाजी, तेह अष्ट
 मंगलीक । जे नैवेद्य निवेदीएजी ते मन निश्चय
 ठीक । सु० १२ ॥ लबण उतारी भाविएजी,

कृत्रिम धर्मनो त्याग । मंगल दीवो अति भं-
लोजी, शुद्ध धर्म पर भाग । सु० १३ ॥ गीत
नृत्य वाजिंत्रनोजी, नाद अनाहद सार । शम्भु
रति रमणी जे करीजी, ते साचो थेइकार । सु०
१४ ॥ भाव पूजा एम साचवीजी, सत्य बजावो
रे घंट । त्रिभुवन माँहे विस्तरेजी, टाले कर्मनो
कंट । सु० १५ ॥ एणीपरे भावना भावतांजी,
साहेब जस सुप्रसन्न । जन्म सफल जग तेहनो
जी, तेह पुरुष धन धन्य । सु० १६॥ परम पुरुष
प्रभु शामलाजी, मानो ए मुज सेव । दूर करो
भव आमलाजी, वाचक जस कहे देव । सु० १७॥



॥ अर्हम् ॥

“श्रीआदीश्वरपञ्चकल्याणकपूजा”

प्रथम—च्यवन—कल्याणकपूजा ।



॥ दोहरा ॥

आदि जिनंद नमी करी, आदि जिनेसर राय ।
कल्याणक पूजा रचूँ, सिमरी सारद माय ॥१॥

च्यवन जन्म दीक्षा भली, चौथा केवल नाण ।
यंचम पंचम गति कही, ए पांचो कल्याण ॥२॥

उत्तम जन गुण गानसे, उत्तम गुण विकसंत ।
उत्तम निज संपद मिले, होवे भवको अंत ॥३॥

समकित प्राप्ति से कही, भव संख्या निर्धार ।
आदिनाथके तेर हैं, नेमिनाथ नव धार ॥४॥

याश्वनाथ भव दश कहे, शांतिनाथ भव बार ।
सात वीस भव वीरके, तिग तिग शेष विचार ॥५॥

प्रभु कीर्तन से होत है, निश्रेयस पद सार ।
ऐष्टिण श्री आदिनाथका, सुंदर यह अधिकार ॥६॥

अष्ट द्रव्य पूजा प्रति, पूजनका विस्तार ।
 द्रव्य भाव पूजा करी, होवे भव निस्तार ॥७॥
 मालकोश ।

समकित आनंद कंद् भविक जन स० १
 अंचली ॥ समकित विन नहीं ज्ञान चरण है ॥
 भाषे श्री जिनचंद् भविकजन स० २ ॥ देवगुरु
 और धर्म की श्रद्धा । समकित शिवतरु कंद्
 भविकजन स० ३ ॥ देव नहीं जस दोष अठा-
 रां । गुरु निर्गंथ मुर्नींद् भविकजन स० ४ ॥
 अरिहंत भाषित धर्म दयामय । काटे भव भव
 फंद् भविकजन स० ५ ॥ समकित आतम ल-
 क्षमी प्रगटे । वल्लभ हर्ष अमंद् भविकजन स० ५॥

(२)

॥ दोहरा ॥

पश्चिम महा विदेहमें, खिती पइड्ड मझार ।
 सार्थवाह धन नामसे, वसे धनद् अवतार ॥१॥
 एक समय ले सार्थको, गमन किया परदेश ।
 व्यापारी निज काजको, भूले नहीं लवलेश ॥२॥

मारगमें वरसा हुई, रुका सार्थ इक ठोर ।
झीप सरीखा हो गया, फिरे नीर चउ ओर ॥३ ॥

देशी केसरिया थासुं ।

जग साचा सार्थप सार करेरे निज सार्थ
की । अंचली । द्रव्य भाव सार्थप दो कहिये
यहला जग उपकारी । वीतराग दूजा सार्थप
भव अटवी पार उतारीरे ज० १ ॥ एक दिवस
निशि चरम समयमें सार्थप चिंता व्यापी ।
अति दुःखी है कौन सार्थमें देऊँझट दुःख का-
कापीरे ज० २ ॥ हा हा अन्न अभावे सब जन
कंदमूल फल खावें । धर्मघोष सूरि आदि मुनि
हाथ जराभी न लावेरे ज० ३ ॥ प्रात समय
गुरु पासे आके चरणे सीस नमावे । हाथ जोड़
अपराध खमावे मुनि देखी शुभ भावेरे ज० ४ ॥
आतम लक्ष्मी संपद कारण मुनि गण ध्यानमें
लीना । देख देख धन सार्थप आतम वह्वभ हर्ष
भरीनारे ज० ५ ॥

(३)

दोहरा ।

धर्मघोष गुण गणी, धर्मलाभके साथ
उपदेशी शांत्वन करे, सार्थनाथ मुनिनाथ ॥१॥
विनती कर मुनि रायको, साथ हुआ धनसार ।
दोष रहित शुभ भावसे, देवे घृत आहार ॥२॥
देशी—लेली लेली पुकारेवनमे ।

धन्य दानदेवे दातार, करे निज आत्म
उद्धार । दान सर्व गुणों की खान, देवे जिनवर
भी जस मान । ध० १ ॥ दान शील तपो भाव
भेदे, धर्म चार प्रकार अखेदे । कहे जिनवर जग
हितकारी, सेवे सुरनर अमरी नारी । ध० २ ॥
तप शील भाव करे करता, हित दान उभय
अघ हरता । तिण दान धुरि अधिकार, अभ-
यादि पांच प्रकार । ध० ३ ॥ अभय दान सु-
पात्र दो सार, अनुकंपा पुण्य प्रचार । यशो-
वाद उचित फलकारी, संसार करे संसारी ।
ध० ४ ॥ घृत दान सुपात्रे देवे, बोधि बीज सु-

कुत फल लेवे। धन काल करी युग्म थावे,
आत्म लक्ष्मी वल्लभ हर्षवे । ध० ५ ॥

(४)

॥ दोहरा ॥

उत्तर कुरुमें पालके, मिथुन आयु धन
जीव । सौधमें सुख भोगवे, दान सदा सुख
नीव ॥ १ ॥ च्यवके गंध समृद्धमें, पश्चिम महा
विदेह । नाम महाबल ऊपनो, शतबल नरपाति
गेह ॥ २ ॥ मंत्रि वचन दीक्षा ग्रही, कर अन-
शन अनगार । काल करी ईश्वरनमें, सुर लालि-
तांग कुमार ॥ ३ अंत समय नंदीश्वरे, शास्त्रत
जिन कर सेव । शुभ भावे शुभ तीर्थमें, काल
करी ततखेव ॥ ४ ॥

पनीहारी की चाल ।

पूर्व विदेह पुष्कलावती म्हारा-वालाजी
लोहार्गल पुरधाम वालाजी । सुवर्ण जंघनृप
सुत हुओ म्हारा वज्र जंघ शुभ नाम वा० १ ॥

श्रीमती पूर्वभव प्रिया म्हा० पत्नी हुई तससार
वा० ॥ १ ॥ पितृदिया शुद्ध न्यायसे म्हा० पाले
राज्यउदार वा० ॥ २ ॥ सागरसेन मुनिसेन मुनि
म्हा० केवल ज्ञान उदंत वा०। सुनकर बंधु जा-
नके म्हा० मनमें अति उलसंत वा० ॥ ३ ॥
दीक्षा लेनी ठानके म्हा० दंपती सूतेरात वा०।
विष प्रयोगसे पुत्रने म्हा० मारदिये मायतात
वा० ॥ ४ ॥ उत्तर कुरु युगलिक हुए म्हा० ए
कंसे अध्यवसाय वा०। काल करी दोनों जने
म्हा० सौधमें सुर थाय वा० ५ ॥ धर्म विना
नहीं जीवको म्हा० अन्य शरण संसार वा०। आ
तम लक्ष्मी पार्मीए म्हा० वल्लभ हर्ष अपार वा० ६ ॥

(५)

दोहरा ।

जंबूद्वीप विदेहमें, क्षिति प्रतिष्ठ मझार ।
वैद्य सुविधि सुत नामसे, जीवानंद विचार ॥ १ ॥

महिधर केशव तीसरा, नाम सुणाकर जान,
चोथा पूरण भद्र है, सुबुद्धि पंचम मान ॥ २ ॥

एक दिवस घर वैद्यके, मित्र मिले छः साथ ।
देखे आए गोचरी, मुनि करुणाके नाथ ॥ ३ ॥

महिधर जीवानंदको, कहे रोगी मुनि देह ।
औषध करना योग्य है, जन्म सफल स सनेह ॥ ४ ॥

दक्षणी दुमरी—जाबो जाबो नेमि पिया—देशी ।

मुनि महाराज सेवा शिव सुख खानीरे-
मुनि महाराज—शिव सुख खानी महानंद पद
दानीरे-मुनि-अंचली । मित्र षट् आवे भावे,
बावना चंदन लावे, रतन कंबल तेल लक्षपाक
आनीरे मुनि० ॥ १ ॥ मुनि रोग दूर कीनो,
निजातम कीनो पीनो॥मूल्य देने आए सेठ
आपण पिछानीरे मुनि० ॥ २ ॥ वणिक जवाब
दीनो, वेयावच्च फल लीनो ॥ धन्य मात तात
तुम धन्य ए जवानीरे मुनि० ॥ ३ ॥ मूल्य नहीं
मैने लेना, चरणमें चित्त देना॥लिया धार टार
दिया जग जानी फानीरे मुनि० ॥ ४ ॥ चंदन

कंबल वेची, निज धन साथ सेची॥ चैत्य अरि-
हंत कियो भक्तिवंत प्रानीरे मुनि० ॥ ५ ॥ षड
मित्र दीक्षा लीनी, आत्म लक्ष्मी वश कीनी॥
वैल्लभ हर्ष मन मुनि सेवा मानीरे मुनि० ॥ ६ ॥

(६)

दोहरा ।

आराधी चारित्रिको, द्वादश कल्प सधार ।
आयु सागर दोय वीस, भोग लियो अवतार
॥ १ ॥ पुक्खलवइ विजये हुओ, वज्र सेन नृप
जात । वज्रनाम पुँडरीकिणि, जास धारिणी मात
॥ २ ॥ वैद्य जीव ए जानिए, महीधर बाहु मान ।
जीव सुबाहु सुबुद्धिका, पीठ गुणाकर जान
॥ ३ ॥ महापीठ चौथा सही, पूर्णभद्रका जीवा
ए पांचो बांधव हुए, सुयशा केशव जीव ॥ ४ ॥
राजपुत्र आति नेहसे, वज्रनामके साथ । विचरे
पूर्व संबंधसु, जिम यति यतिपति नाथ ॥ ५ ॥

पीलू--

जिनवर नाम करम परभावे, जिनवर ती-
रथ जग वरतावे जि० अंचली । वज्रसेन जिन
समयको जानी, वज्रनाभको राज्य भलावे॥लो-
कांतिक वचने प्रभुवर्षी दान देइ दालिद्र हटावे
जि०॥१॥ दीक्षा लइ प्रभु विचरन लागे, वज्रनाभ
निज राज्य चलावे । वज्रसेन प्रभु केवल पावे,
वज्रनाभ चक्री तब थावे जि०॥२॥ क्रमसे प्रभु
चरणोमें दीक्षा, वज्रनाभ आदि सब पावे । तप-
जप ध्यान प्रभावे सबही, निज आत्मको उच्च-
बनावे, ॥३॥ वीस थानक तप अधिकासेवी, वज्र-
नाभ जिन नाम उपावे । आत्म लक्ष्मी वल्लभ-
हषे, एक भवांतर जिनवर थावे जि० ४

(७)

दोहरा ।

संयम निर्मल पालके, पूर्व लाख दस चार ।
अनशन कर सबने किया, अंतिम नाक विहार १

देव आयु पूरण करी, सागर तेरां वीस ।
 भरते जंबूदीपके, अवतरिया जगदीस ॥ २ ॥
 अवसर्पिणिके तीसरे, आरे शेष विचार ।
 पक्ष नवासी पूर्व सह, लक्ष असी अरु चार ३
 चौथ बहुल आषाढ़की, उत्तराषाढा तार
 नाभि नृप स्त्री उदरमें, मरुदेवी अवतार ॥ ४ ॥

देशी वणजाराकी ।

तीर्थकर जग उपकारी अवतरिया आनंद-
 कारी । अंचली । संवार्थ सिद्धसे चविया, वज्र-
 नाभ जीव अवतरियारे । मरुदेवी कूख मझारी
 अवतरिया आनंदकारी ती० ॥ १ ॥ सुखसे सूती
 महाभागे, माता मरुदेवी जागेरे । सुपना देखी
 दश चारी अवतरिया आनंदकारी ती० ॥ २ ॥
 चैष गजै केशरी श्रीदेवी, सुमै माल सुगंधी ले-
 वीरे । ईशी दिनकरै तेज भंडारी अवतरिया
 आनंदकारी ती० ॥ ३ ॥ ध्वर्ज आठमे नवमे
 जानो, कुंभै कलश मंगलको थानेरे । ४४
 पद्मांकर धारी अवतरिया आनंदकारी ती० ।

खीर सांगर देव विमानो, रत्नराशि तेरमे जानोरे ।
 चउदमे शिखी मंगलकारी अवतरिया आनंद-
 कारी ती० ॥ ५ ॥ मरुदेवी सुपनं कहे स्वामी,
 सुत होगा कुलकर नामीरे । कहे नाभि अर्थ
 विचारी अवतरिया आनंदकारी ती० ॥ ६ ॥
 सुरपति आकर कहे माता, तुझ पुत्र रतन जग
 त्रातारे । जग होगा अति हितकारी अवतरिया
 आनंदकारी ती० ॥ ७ ॥ आतम लक्ष्मी दातारी,
 कल्याणक उत्सव धारीरे । वल्लभ मन हर्ष अपारी
 अवतरिया आनंदकारी ती० ॥ ८ ॥

॥ काव्य ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-
 माचले, सद्भवत्या सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
 म्बुभिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा-
 नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधास्तिकृतेऽचिंतोजिनवरः
 श्रीआदिनाथोऽवतात् ॥ ९ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमात्माने अनन्ता-
 नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
 परमेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

अथ द्वितीय—जन्मकल्याणकपूजा ।

(१)

॥ दोहरा ॥

माता गर्भ पसायसे, रूपादिक स विशेष ।
 शोभा गुणको धारके, टारे जगत कलेश ॥ १ ॥
 नव महिने पूरण हुए, वासर साढे सात ।
 चइतर वदि आठम दिने, अवसर आधी रात २
 उच्च थानमें यह सभी, उत्तरासाढा तार ।
 सुखसे देवी पुत्रको, देवे जन्म उदार ॥ ३ ॥

वसंत-होइ आनंद वहाररे. चाल. ॥

आज आनंद अपाररे जिन जन्मे आनंदी
 अंचली । तीन ज्ञान युत जिनवर जन्मे, जरायु
 रक्त निवाररे जिन० १॥ क्रीडा तत्पर लोक देशके
 दिशा शांत प्रचाररे जिन० २ ॥ तीन लोकमें
 चांदना होवे, दुंदुभि नाद उदाररे जिन० ३ ॥
 नारकको भी क्षण सुख होवे, मंद समीर प्रसा-
 रे जिन० ४ ॥ वस्त्र सुगंधमय पानी वर्षा, उ-

च्छास मेदिनी धारे जिन ० ५ ॥ आतम लक्ष्मी
जिनवर महिमा, वल्लभ हर्ष अपारे जिन ० ६ ॥

(२)

॥ दोहरा ॥

तीर्थकरके जन्मको, अवधि नाणसे जान ।
आय नमे सुत मातको, करती स्वात्म पिण्डान १
छप्पन दिशा कुमारिका, जिन जनु महिमा कांज ।
आवे रीति अनादिकी, प्रथम बाद सुरराज ॥२॥
श्री चंद्रप्रभुभगवान-चाल ॥

मिली दिशा कुमारी आय, जिन जन्म
महिमा करे । अंचली । अधो लोककी आठ
कुमारी, सूतिका घर करके तैयारी । अशुचि
योजन मध्य निवारी, नमन करी गुण गाय
जिन ० ३ उर्ढ्व लोककी आठ कुमारी, गंधोदक
वर्षा रज टारी । पांच वरण फूलोंकी भारी, वृष्टि
करे सुखदाय जिन ० २ ॥ आठ आठ रुचक दिग
चारे, दर्पण झारी पंखा कर धारे । चामर निज

निज कार समारे, गाती निज दिशि ठाय जिन
 ३ ॥ चार विदिशिकी चार कुमारी, गुण गाती
 दीपक कर धारी । रुचक द्वीपसे चार पधारी,
 नमती जिन जिनमाय जिन० ४ ॥ काटे अंगुल
 छोरके चारी, नाल विवर करी उसमें डारी ।
 बजू रत्न भरी विवर निवारी, दूर्वा पीठ बनाय
 जिन० ५ ॥ पूर्व दक्षिण उत्तर दिशि तीनो, क
 दली घर देवीने कीनो । दक्षिण जिन जिन मात
 करीनो, मर्दन तैल सहाय जिन० ६ ॥ पूर्व सिं-
 हासन स्नान करावे, पूजी वसन भूषण पहरावे ।
 उत्तर घर दोनों पधरावे, चंदन होम कराय
 जिन० ७ ॥ रक्षा पोटली बांधी हाथे, आसीस
 दे घर लावे साथे । आतम लक्ष्मी नाथ सनाथे,
 बल्लभ हर्ष मनाय जिन० ८ ॥

(३)

दोहरा ॥

कंपे आसन इंद्रको, ए ही अनादि चाल ।

अवधि ज्ञाने जानके, बंदे इंद्र दयाल ॥१॥
 सिंहासन को त्याग के, सात आठ पद जाय ।
 नमन करी स्तवना करी, हरिण गमेषि बुलाय
 ॥२॥ कहे आदेश करो प्रभु, जन्म महोत्सव
 हेत । घंट सुघोष बजाय के, सबको किये स-
 चेत ॥३॥ कतिपय जिनवर राग से, कतिपय
 इंद्र नियोग । कतिपय देवी प्रेरणा, कतिपय
 मित्र सुयोग ॥४॥ नाना वाहन भावना, नाना
 रूप सुभाव । शक्र समीपे आयके, पास किया
 प्रस्ताव ॥५॥

(खमाच । मानमदनसे परिहरना-चाली)

शर्चीपति जन्मोत्सव करता । कर अभिषेक
 जिनंद शर्चीपति । जन्मोत्सव करता । अंचली
 पालक नाम विमान बैठ सुर साथमें संचरता ।
 जन्म थान आकर वज्री निज पांच रूप धरता
 कर० १ ॥ एक रूप जिन ग्रही दो पासे चामर
 दो करता । एक छत्र पाठ्ल आगल एक वज्र

अहीं चरता कर० २ ॥ मेरु महीधर चउसठ
 सुरपति स्नात्र मिली करता । विधिसे पूजन
 करके प्रभुके चरननमें परता कर० ३ ॥ जननी
 पासे प्रभुको धर कर इंद्र हुकम करता । द्वात्रिं-
 शत कोटी रत्नोंसे जूँभक घर भरता कर० ४ ॥
 पूर्णरूप जन्मोत्सव करके आत्म लक्ष्मी वरता ॥
 नंदीश्वर उत्सव कर वल्लभ हर्षसदन चरता कर० ५ ॥

काव्य ।

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-
 माचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः शुचितरैः कुभ्भा-
 म्बुभिः स्नापित; दीक्षाकेवलबोधपर्वणि
 महानन्दास्तिकाले सुरैः । सद्बोधास्तिकृतेऽचिंतो
 जिनवरः श्रीआदिनाथोऽवतात् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ हौं श्री परमात्मने अनन्ता-
 नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
 मंदर्हते जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

अथ तृतीय दीक्षाकल्याणकपूजा ।

(१)

॥ दोहरा ॥

जागी माता देखके, पूजन पूत्र सुअंग ।
 रोम रोम हर्षित भई, अति आनंद अभंग ॥३॥
 नाभिराय निज पूत्रका, नाम ऋषभ भगवान् ।
 भरते गुणयुत देखके, साथल ऋषभ निशान २
 कुल थापन वज्री करे, वंश थापना साथ ।
 राज्य स्थापना प्रभु हूँ, निर्जर पतिके हाथ ३
 लग्नविधि प्रभु साचवे, और उचित सब नीत ।
 समये प्रथम जिनंदके, इंद्र करे यह रीत ॥४॥
 इंद्र किये व्यवहारको, देख देख सब लोग ।
 निज निज कारज साधने, करन लगे उद्योग ॥५॥
 (लावणी-संग नर परनारी हरना-चाल ॥)

ऋषभ प्रभु सब जग वस कीना । किये
 बहु उपकार जगतमें कर्त्तापन लीना ॥० अंच-
 स्त्री । सीखाया शिल्प पांच प्रभुने । कुंभकार
 रथकार चित्रकृत तंतुवाय विभुने । पांचमा ना-

षितका सहिए । क्रमसे भेद अनेक हुए जग
कर्म विविध लहिए । कला नरनारीकी कहिए ॥
युगला धर्म निवारिया, किया जगत उपकार ॥
स्वामी शिक्षासे हुआ, दक्ष लोक नर नार । सफल
जग उपकारी जीना—किये बहु उपकार० ॥१॥५
उमर छः लाख पूर्व जानो । भरतादिक संतान
सुपुत फल गृहस्थ तरु मानो । हुए नृप लाख
पूर्व बीसे । पूरब त्रय सठ लाख चलाइ राज्य
नीति ईसे । परं पर आज जगत दीसे । एक
दिवस उद्यानमें, कामवास मधुमास । कीड़ा
करते लोकको, देख विचारे खास । अहो जग
विषयनमें लीना—किये बहु उपकार० २ ॥ अरे
धिग मोह फसे प्रानी । राग द्वेष वश जन्म
गमा देवे नर अज्ञानी । क्रोधसे नाश करे प्री-
ति । मान विनयका नाश नाश मायासे मित्त
रीति । लोभसे चलती नहीं नीति । काम सु-
भट वश जीव हा !, जाने नहि निज रूप । अ-

रघट घटी के न्यायसु, क्रिया करे भवकूप ।
 चिंतत इम चित्त हुआ खीना—किये बहु उप-
 कार० ३ ॥ प्रभु वैराग्य रसे भीना । त्यागन
 कर संसार चरण लेनेमें चित दीना । बुलाई
 राज्यसभा भारी । आशय अपना सुनाय भरत-
 को राज्यासन धारी । बनाया विनीता अधिका-
 री । राज्य भाग सबको दिया, पुत्र बाहुबलि
 आद ॥ उचित विधि सब साधके, कियो धर्म-
 को नाद । प्रभुने वर्षदान दीना—किये बहु
 उपकार० ४ ॥ प्रभु है स्वयंबुद्ध धोरी । तो भी
 अनादि रीत लोकांतिक आए कर जोरी । न-
 मन करी वाणी मधुर बोले । जग उपकारी
 नाथ नहीं कोइ जगमें तुम तोले । जो मारग
 शुद्ध धर्म खोले । धर्म तीर्थ वरताइए, आतम
 लक्ष्मी हेतु । धर्म सदा भवि जीवको, भवसाग-
 रमें सेतु । धर्म ब्रह्म हर्षे चीना—किये बहु उ-
 पकार० ५ ॥

(२)

॥ दोहरा ॥

एक कोड अड लाखका, रोज दिये प्रभुदान।
 रंकनको करते धनी, एक वर्षका मान ॥१॥
 अंते वरसदानके, सुरपति सह परिवार।
 दीक्षा उत्सव भावसे, करते यह आचार ॥२॥
 चैतर वदि तिथि अष्टमी, उत्तरासाढा तार।
 अहण कियो संयम विभूत्यागन कर संसार ॥३॥

(दिन नीके बीते जाते है—ए चाल ।)

प्रभुदीक्षा लेने जाते हैं, जाते हैं हर्षाते
 हैं प्रभुदीक्षा० अंचली। नगरी विनीतासे प्रभु
 निकसी, सिद्धार्थ बनमें आते हैं प्र० १ ॥ व-
 सन विभूषा त्याग अशोके, देव दुष्य प्रभु पाते
 हैं प्र० २ ॥ चउ मुष्टि किया लोच प्रभुने, सु-
 रपति शेष रखाते हैं प्र० ३ ॥ केशग्रही सुर-
 पति भक्तिसे, क्षीरसागर पघराते हैं प्र० ४ ॥
 छठ तप सिद्ध नमन करी प्रभुजी, पाप योग
 वोसिराते हैं प्र० ५ ॥ मनपर्यव उत्पन्न हुओ

तब, सुरसुरपति गुणगाते हैं प्र० ६ ॥ आत्म
लक्ष्मी वल्लभ हर्षे, हरि नंदीश्वर जाते हैं प्र० ७ ॥

॥ काव्य ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-
माचले, सद्भवत्या सुरनायकैः शुचिनरैः कुम्भाम्बुभिः
स्त्रापितः दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महानन्दातिकाले
सुरैः, सद्वोधातिकृतेऽचिंतो जिनवरः श्रीआदि-
नाथोऽवतात् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः । ॐ हौं श्री परमात्मने अनन्ता-
नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
आदि जिननाथाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थ केवलकल्याणकपूजा ।

(१)

॥ दोहरा ॥

इस अवसर्पिणि कालमें, हुए प्रथम अन-
गार । आदिनाथ जिन साथमें, कच्छ आदि
परिवार ॥ १ ॥ पृथ्वी तल पावन कियो, कीनो

उग्र विहार । एक वरस क्रुजु कारणे, मिलियो
नहि आहार ॥२॥ विचरंते आए विभू, गजपुर
नगर मझार । बाहु बलि सुत सोम प्रभ, करते
राज्य उदार ॥ ३ ॥ भाग्यवान तस पुत्र है, श्री
श्रेयांस कुमार । देख प्रभु निज पूर्व भव, जा-
न्यो सब अधिकार ॥४॥ इक्षुरस प्रति लाभके,
कीनो मारग दान । वरसी तपका पारणा, किया
ऋषभ भगवान ॥ ५ ॥

(धन धन वो जगमे नरनार-चाल ॥)

धन धन श्री श्रेयांस कुमार प्रवृत्ति दान
करानेवाले । अं० । शुद्ध चित्त वित्त दियो दान,
शुद्ध पात्र ऋषभ भगवान । फलपायो जस नहीं
मान, प्रभु जग तरन तरानेवाले ध० १ ॥ हुओ
पंच दिव्य परकास, अक्षय तृतीया दिन खास
मिले जन श्रेयांस आवास, अनुसोदन फल
पानेवाले ध० २ ॥ निर्दोष अन्न जल नाथ, देवे
भवी जो निज हाथ । उतरे झटपट भव पाथ,

प्रभुके ध्यान लगानेवाले ध० ३ ॥ श्रेयांस दियो
 उपदेस, समझे तब लोक असेस । विचरे भू
 पीठ जिनेस, करम जंजाल मिटानेवाले ध० ४ ॥
 सहते परीषह भगवान, विचरे सम सहस प्रमा-
 न । आतम लक्ष्मीको निदान, हर्ष वल्लभ जिन
 पानेवाले ध० ५ ॥

(२)

॥ दोहरा ॥

युरिम तालमें अन्यदा, आए ऋषभ जिनंद ।
 वट नीचे प्रातिमा रहे, तप अष्टम आनंद ॥१॥
 कर्मेंधनको जालके, ध्यानानलसे नाथ ।
 फाल्गुन वदि एकादशी, केवल नाण सनाथ ॥२॥
 आसन कंपे इंद्रका, आवे सुर परिवार ।
 समवसरण रचना करे, जिन शासन जयकार ३
 सिंहासन बैठे विभू, पूर्व दिये उपदेश ।
 तीन दिशि प्रति बिंबमें, भेद नहीं लवलेश ४

(होरी—हरि आवत बे करजोडी, चाल ।)

जगत उपकार करनको प्रभुवाणी वदे सुखकारी । अंचली । चार जातिके देवने मिलकर समवसरण रच्यो भारी । द्वादश पर्षद गढ तिग सोहे मन मोहे प्रभु उपकारी । भवोदधि पार उतारी प्रभु वाणी वदे सुखकारी ॥१॥ देश विरति अरु सर्व विरति दो धर्म कहे हितकारी । साधु साधवी श्राद्ध श्राविका थापे तीर्थ प्रभु चारी । रब्ल त्रयके अधिकारी प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥२॥ नित्य प्रति आति सोग धरंती मस्देवी माता निवारी । भरतजी साथ लिये वहां आए देख मोह दियो जारी । गये शिव माता पधारी प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥३॥ कच्छ महाकच्छ दो विना सधे तापस आए विचारी । प्रभुके चरणमें चरण ग्रहण करी आतम निज लियोतारी ॥ वारी जाउं वार हजारी प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥४॥ पुँडरीक प्रमुखा प्रभुकीना च-

उरासी गण धारी । आतम लक्ष्मी प्रभुता
प्रगटी वल्लभ हर्ष अपारी । जयो जिनवर जय-
कारी प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥ ५ ॥

॥ काव्यं ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-
माचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः शुचितैरैः कुम्भा-
म्बुभिः स्नापितः । दीक्षा केवलबोधपर्वणि महा-
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधास्तिकृतेऽर्चितो जिनवरः
श्रीआदिनाथोऽवतात् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमात्मने अन-
न्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय
श्रीआदिजिनसर्वज्ञाय जलादिकं यजामहे खाहाष्ट



अथ पंचम निर्वाण-कल्याणकपूजा ।

(१)

॥ दोहरा ॥

द्वादशगुण जिनमें वसे, अतिशय जिन चउतीस
वाणी गुण पणतीस है, विहरमान जगदीस ॥३॥

भू पावन करते विभू, आए सिद्ध गिरंद ।
 समवसरणमें बैठके, दे उपदेश जिनंद ॥ २ ॥
 पुंडरीकको उपदिसे, ऋषभदेव भगवान ।
 होगा क्षेत्र सुभावसे, सबको पद निर्वान ॥ ३ ॥
 जिन वानी मानी करी, रहे सहित परिवार ।
 अष्ट करमको चूरके, पहुचे मोक्ष मङ्गार ॥ ४ ॥
 चैत्य कराया भरतने, शत्रुंजय गिरिराज ।
 पुंडरीक पडिमा युता, थारे श्री जिनराज ॥ ५ ॥
 (सोरठ कुवजाने जादु डारा, चाल ॥)

प्रभु आदिनाथ सुखकारा, किया जगजी-
 वन उद्धारा प्र० अं० । आदि नरेसर आदि-
 जिनेसर, आदि मुनीसर धारा । आदि तीर्थ
 प्रवर्त्तक कहिए, आदि ऋषभ अवतारा प्र०
 १ ॥ नाना देशमें विचरे जिनजी, बोधि दान
 दातारा । तीन लाख साध्वी गण सोहे,
 मुनि चउरासी हजारा प्र० २ ॥ तीन लाख
 पंचास हजारा, श्रावक सुब्रत कारा । पाँच लाख
 चउपन्न सहस्रा, श्राविका चित्त उदारा प्र० ३ ॥

चउ विह संघ धर्म में जोडी, जिम लौकिक
व्यवहारा । दीक्षा समयसे लाख पूर्व प्रभु, सं-
यम शुद्ध आचारा प्र० ४ ॥ मोक्ष समय जानी
प्रभु तीरथ, अष्टापदको सधारा । आतम लक्ष्मी
निज ऋद्धिसे, वल्लभ हर्ष अपारा प्र० ५ ॥



(२)

॥ दोहरा ॥

अष्टापद गिरि ऊपरे, दश हजार मुनि साथ ।
भक्त चतुर्दश तप कियो, अनशन दीनानाथ॥१॥
सुन आए चक्री वहाँ, भरत भरत भरतार ।
आसन कंपे इंद्र भी, आए सुर परिवार ॥ २ ॥
अवसर्पिणि अर तीसरे, पक्ष नवाशी सेस ।
त्रयोदशी वदि माघकी, अभिचि तार विसेस॥३॥
वासर पूरव भागमें, पर्यंकासन धीर ।
ध्यान शुक्ल बल कर्मको, नष्ट करे वड वीर॥४॥
कर्म अभावे आतमा, सिद्ध परं पद जास ।
अजर अमर अज नित्यता, सादि अनंता वास॥५॥

धनार्थी ।

पूजन सुर तरुकंद जिनंद पद पूजन सुर तरु-
कंद । अंचली । नाभिनंदन परदुख भंजन, रंजन
सुरनर वृंद जिनंद १ ॥ प्रभु निर्वाण महोत्सव
कारण, आए चउसठ इंद जि० २ ॥ प्रभु सं-
स्कार स्थानमें सुरवर, रथण मय शुभ कर्द
जि० ३ ॥ नंदीश्वर शाश्वत प्रतिमोत्सव, करी
हरि हर्ष धरंद जि० ४ ॥ प्रभु संस्कार निकट
भू तलमें, चैत्य करावे जिनंद जि० ५ ॥ चउ-
वीस जिनबिंब थापी भरतजी, तन मन अति-
विकसंद जि० ६ ॥ वदन कमल कांति प्रभु
निरखी, हंसभरतहुलसंद जि० ७ ॥ आतम
लक्ष्मी प्रभुता प्रगटी, वल्लभ हर्ष अमंद जि० ८ ॥

(कलश ॥ रेखता ॥)

प्रभुश्री आदि जिनराया, कल्याणक पांच
शुभ भावे । आराधे जो भवी प्रानी, अपुनरा-
द्वृत्ति फल पावे ॥ १ ॥ सिद्धाचल आबू मेत्राणा,
जघडिया कावी देलवारा । अचलगढ कांगडा

कुलपाक, माणक स्वामी आनन्दकारा ॥२॥ घाणेरा
 कोरटा नाडुलाई, अयोध्या और पुरिमताला ।
 राणकपुर राजनगर दीपे, केसरियानाथ उपरि-
 याला ॥ ३ ॥ इत्यादि तीर्थ नगर ग्रामे, प्रभुश्री
 आदि जिनदेवा । कल्याणक पूजना काजे, करी
 रचना प्रभु सेवा ॥ ४ ॥ नगर शिवगंजसे चलके,
 आयो संघ नाथ धूलेवा । करी करुणा कृपासा-
 गर, दीजे फल आपकी सेवा ॥५॥ मुखी गोमराज
 हंसाजी, सकल परिवारके संगे । करी यात्रा कराई
 है, निकाली संघ आति रंगे ॥६॥ सतावीस साँधु
 साधवियाँ, उणत्तरं साथ संघ आवेकेसरिया नाथके
 दर्शन, करी महानंदको पावे ॥७॥ ऋषि मुँनि अंकै
 चंद्राब्दे, मधु दशमी सुदि रारी । करी यात्रा
 शशिवारे हुओ आनंद आति भारी ॥८॥ दिवस
 महावीर जयंतीका, त्रयोदशी चैत्र गुरुवारे ।
 आतम लक्ष्मी केसरियामें, पूरण वल्लभ हरष
 धारे ॥ ९ ॥ तपागच्छ नाम दीपाया, श्री विज-

मुनिमहाराजश्री बल्लभविजयजी विरचित. २३४

यानंद सूरिराया । विजयलक्ष्मी गुरुदादा, विजय
श्री हर्ष गुरु पाया ॥ १० ॥ लघु तस शिष्य
बल्लभने, स्तवे श्री आदि जिन भावे । कारण
छङ्गस्थ सखलनाका, मिच्छामि दुक्कडं थावे ॥११॥

॥ काव्य ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगण्डर्जातस्तु हे-
माचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
म्बुर्भिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा-
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्वोधास्तिकृतेऽर्चितोः जिनवरः
श्रीआदिनाथैऽवतात् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ॐ ह्यं श्री परमात्मने अनन्ता-
नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
आदिजिनपारंगताय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥
॥ इति श्रीआदिनाथपंचकल्याणकपूजा ॥



॥ अथ श्री पार्श्वनाथ प्रभुकी पंच
कल्याणकपूजा ॥

॥ च्यवनकल्याणके प्रथमा पुष्पपूजा ॥
॥ दोहा ॥

चिंतामणि पारस प्रभु, सुरतरु सम अवदात ।
युरिसादाणी जगतमें, पट् दर्शन विख्यात ॥१॥
ग्राणी आरे पांचमें, सिमरे ऊठी प्रभात ।
मन बंछित पूरण करें, दुःख दोहग नस जात ॥
अवसरपिणी तेईसमें, पार्श्वनाथ भगवंत ।
तस गणधर पद् पायके, होगा शिववधू कंत ॥३॥८
दामोदर जिनसे सुनी, निज आतम उद्धार ।
तब आषाढी श्रावके, मूर्त्ति बनाइ सार ॥४॥
अंजन शलाका करायके, सुविहित आचारज पास
पांच कल्याणक भावसे, करी ओच्छव फली आस ॥५॥
सिद्ध स्वरूपसु रमणको, नूतन पडीमा सार ।
थापी पांच कल्याणके, पूजे धन नर नार ॥६॥९

कल्याणक ओच्छव करी, सुर गण आनंद काज ।
 जा नंदीश्वर पूजते, शाश्वत श्रीजिनराज ॥७॥
 कल्याणक पूजन सहित, रचना करसुं तेम ।
 दुर्जन विषधर हालसी, सज्जन मन अति प्रेम ॥८॥
 कुसुम फल अक्षत सही, जल चंदन मनोहार ।
 धूप दीप नैवेद्य से, पूजा अष्ट प्रकार ॥९॥

(भैरव, चाल-अवतो प्रभुजीकी लेलो सरन)

पूजा प्रभुकी भवसिंधु तरी—पूजा० अंचली॥
 झगमग झगमग वेदी सोहे, प्रभु पारस
 तिहाँ थापी करी । पूजा० १ । रतन रकेबी नर
 नारी लेइ, पांच वर्ण के फूलों भरी ॥ पूजा० ॥२॥
 तीर्थकर शुभ नामकरम बंध, कनक बाहुके
 भवमें धरी ॥ पूजा० ॥ ३ ॥ दशमे देवलोकमें
 पहुँचे, सकल देवसे तेजी खरी ॥ पूजा० ॥४॥
 वीस सागर उत्कृष्टी आयु, सुख विलसे दुःख
 नाम टरी ॥ पूजा० ॥५॥ पांच कल्याणक श्री
 जिनवरके, ओच्छव करे सुरसंग चरी ॥ पूजा० ॥६॥

अय्येसरी हो शाश्वत जिनकी, करे पूजा तन
 मनको हरी ॥ पूजा० ॥७॥ आतम आनंद प्रभु
 पूजासे, जग वल्लभ पद वीर वरी ॥पूजा० ॥ ८ ॥
 ॥ दोहा ॥

च्यवन चिन्ह जिन समयमें, कहे देवके अनेक ।
 श्रीजिनवरके जीवको, उनमें से नहीं एक ॥
 (सोहनी, चाल-भक्तिसे मुक्ति पावोगे)

नंदीश्वरतीरथ जावेजी, जावेजी शुभ भा-
 वेजी ॥ नं० अंचली ॥ मुगतिपुरी मारगमें शी-
 तल, छाया तीरथ थावेजी ॥ नं० १॥ गंगाजल
 आदि शुभ जलसे, जिनवरको नवरावेजी ॥
 नं० २ ॥ सुकृत तरु सीची बहु भविजन, शा-
 श्वत शिवसुख पावेजी ॥ नं० ३ ॥ काशी देश
 बनारस नगरी अश्वसेन नृप ठावेजी ॥ नं०४ ॥
 सतीशिरोमणि वामा राणी, जिनभत जस मन
 भावेजी ॥ नं० ५ ॥ तस घर सुर जिनवरका चे-
 तन, वालक रूपें आवेजी ॥ नं०६॥ आतम आनंद
 हर्ष वधाई, वल्लभ वीर की गावेजी ॥ नं० ७ ॥

॥ काव्यम्—उपजाति ॥

तीर्थकराणां जयदुत्तमानां । सुरासुराधीश
निषेवितानाम् ॥ कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां ॥
निजात्मसिद्ध्यै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय पुष्पाणि यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ च्यवनकल्याणके द्वितीया फलपूजा ॥
दोहा ।

चैतर वदि दिन चौथको, पूरण क'री सुर आय ॥
वामा माता उदरमै, अवतरिया जिनराय ॥ १ ॥
सुपन चतुर्दश तिण समय, माता देखे सार ।
सुखशय्या विसरामसे, निजगृह रजनी मझार ॥ २ ॥

(चाल पणिहारीकी)

फूल्यो मास वसंतको मारा ब्हालाजी, रा-
यणने सहकार ब्हालाजी । केतकी जाइ मालती
मारा ब्हालाजी, अमर करे झंकार ब्हालाजी

॥ १ ॥ कोयल मदभर बोलती मारा व्हालाजी
 । बैठी आँवा डाल व्हालाजी । हंस युगल जल
 खेलते मारा व्हालाजी, विमल सरोवर पाल
 व्हालाजी ॥ २ ॥ मंद पवनकी लहरमें मारा
 व्हालाजी, माता सुपन निहाल व्हालाजी । सु-
 खदायक सब जीवको मारा व्हालाजी, प्रसरे
 सुजस विलास व्हालाजी ॥ ३ ॥ देखा प्रथम
 गज उज्जला मारा व्हालाजी, दूजे वृषभ गुण-
 वंत व्हालाजी । तीजे सिंहज केसरी मारा व्हा-
 लाजी, चोथे श्रीदेवी सोहंत व्हालाजी ॥ ४ ॥
 पुष्पमाल शुभ पांचमें मारा व्हालाजी, छड़े
 शशि मनोहार व्हालाजी । सातमे तरणि दी-
 पतो मारा व्हालाजी, अष्टम ध्वज पट सार
 व्हालाजी ॥ ५ ॥ कुंभ कलश नवमे भलो मारा
 व्हालाजी, दशमे पदम सर जान व्हालाजी ।
 क्षीर समुद्र एकादशे मारा व्हालाजी, बारमे
 देव विमान व्हालाजी ॥ ६ ॥ रब्बराशि शुभ

तेरमे मारा व्हालाजी, चौदमे अग्नि वरुणान व्हा-
लाजी । वीर वचन सुख कारिया मारा व्हाला-
जी, आतम वल्लभ मान व्हालाजी ॥ ७ ॥

॥ दोहा ॥

उत्तरते आकाशसे, बद्न प्रवेश करतं ।
देखि माता जागिया, आनन्दका नहीं अंत ॥ १ ॥

(लावणी चाल—पार्वतीका पति)

च्यवन कल्याणक ओच्छव करके, भवि-
जनने सुख पाया रे । जैन शास्त्रमें पांच प्रका-
रका, शुभ फल हैं फरमाया रे ॥ अंचली ॥ अ-
वधि ज्ञानसे देखी शचीपति, मनमें अति हर्षा-
या रे ! शक्तस्तव करी बांदे प्रभुको, अर्ध नमा-
कर काया रे ॥ च्य० ॥ १ ॥ अपना कर्तव्य
जानी मघवा, नगर बनारस आया रे । चउ दस्
सुपनका अर्थ सुनाकर, नमे जिनेसर माया रे
॥ च्य० ॥ २ ॥ रत्न कूख धारिणी सुन माता,
त्रिभुवन राज तै पायारे । ओच्छव कारण श्री
जिनवरके, च्यवन कल्याणक आयारे ॥ च्य०

॥ ३ ॥ नंदीसर मिल करके चउसठ, इंद्र महो-
च्छव ठाया रे । चार प्रकारके देवी देवता, प्रभु
भक्ति चित्त लाया रे ॥ च्य० ॥ ४ ॥ विधिसे
प्रभुका पूजन करके, कर नाटक गुण गाया रे ।
जय जयकार करी निज सदने, सुरवर गये मन
भाया रे ॥ च्य० ॥ ५ ॥ आतम आनंद कारण
समकित, इस विधि सुर चमकाया रे । प्रभु पूजा
विन वल्लभ नहीं शुभ, वीर विजयने गाया रे ॥
च्य० ॥ ६ ॥

॥ काव्य ॥

तीर्थकराणां जगदुक्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् ॥ कल्याणकानां प्रकरोभि पूजां,
निजात्मसिद्धयै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्व-
राय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
फलानि यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥



॥ जन्मकल्याणके तृतीया अक्षतपूजा ॥
॥ दोहा ॥

सुपन पाठक वोलाविया, रवि उदये घर भूप ।
सुन फल सुपन विदा किये, देई दान अनुरूप ॥१॥
तीन ज्ञान सुं ऊपजे, तेवीसमे आरहिंत ।
वामा उर सर हंसलो, दिन दिन वृद्धि लहंत ॥२॥
भूपति पूरे दोहला, सहियां वृंद समेत ।
प्रभु पूजे अक्षत धरी, चामर पंखा लेत ॥ ३ ॥
(चाल—तुम चिदघन चंद आनंद लाल तोरे दर्शन)

प्रभु पारसनाथ जिनंदचंद । तोरे जनम-
तणी बलिहारी, नाथ तोरे० अंचली ॥ लीलं
विलासे पुरण मांसे, दशमी पोष वदि सारी ॥
नाथ० ॥ १ ॥ वनवासी पंशु पंखी प्राणी, उ-
नको सुख सम कारी ॥ नाथ० ॥२॥ इण रजनी
घर घरमें ओच्छव, जगमें सुखी नर नारी ॥
नाथ० ॥३॥ उत्तम ग्रह विशाखा जोगे, जनमे
प्रभु जयकारी ॥ नाथ० ॥ ४ ॥ सातों नरकमें
चांदना होया, थावरको सुखकारी ॥ नाथ० ॥५॥

मात नमी आठों दिक्कुमरी, अधोलोक वस-
नारी ॥ नाथ० ॥ ६॥ सूती घर ईशाने करती,
योजन अशुचि टारी ॥ नाथ० ॥ ७ ॥ आतम
लक्ष्मी शिव साधन को, वल्लभ वीर विचारी ॥
नाथ० ॥ ८ ॥

॥ दोहा ॥

कुमरी अठ ऊर्ध्व लोककी, वरसावे जल फूल ।
आतम निर्मल निज करे, मिटे जन्मकी भूल । १।
(दुमरी, चाल—निरनारी की पहाड़ी पर कैसे गुजरी)

करे ओच्छुव मिल कुमरी सारी । अंचली ॥

पूर्वरुचक अठ दर्पण धरती, दक्षिण की अठ क-
लशाली । करे० ॥ १ ॥ पंखा धरती अठ पश्चि-
मकी, आठ उत्तर चामर धारी ॥ करे० ॥ २ ॥
दीप धरती चार विदिशिकी, रुचक दीप देवी
धारी ॥ करे० ॥ ३ ॥ केलिधर करके तिग उ-
त्तम, मर्दन स्नान अलंकारी ॥ करे० ॥ ४ ॥ रक्षा
पोटली बांधके दोनों, मेले निज यह श्रृंगारी ॥
करे० ॥ ५॥ प्रभुमाता तूं जगतकी माता, जग-

दीपक की धरनारी ॥ करे० ॥ ६ ॥ माता तुझ
नंदन बहु जीवो, उत्तम जीवके उपकारी ॥
करे० ॥ ७ ॥ छप्पन दिक्कुमरी गुण गाती,
बीर वचन के अनुसारी ॥ करे० ॥ ८ ॥ आत्म
आनंद हर्ष धरंती, वल्लभ प्रभु की बलिहारी ॥
करे० ॥ ९ ॥

॥ काव्य ॥

तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् ॥ कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्धयै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ �ॐ हौं श्री परमपुरुषाय पर-
मेश्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जि-
नेद्राय अक्षतान् यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ जन्मकल्याणके चतुर्थी जलधूजा ॥

॥ दोहा ॥

सोहमपति आसन चल्यो, रची विमान ८
प्रभु जन्मोच्छव कारणे, आवंता तत्काल ॥ १

(पहाड़ी, चाल—महाराजा कवडीया खोल)

मिल देव देवी परीवार, जिन जन्म औ-
च्छव करे ॥ अंचली ॥ शक्र सुधोषा घंटा ब-
जावे, देव देवी सब मिल कर आवे । पालक
सुर विमान बनावे, पालक नाम प्रचार ॥ जिन०
॥ १ ॥ पार्श्वप्रभु मुख कमलको जोवा, भवभव
के निज पातक खोवा । सुर निज निज गण
पावन होवा, मुख बोले जयकार ॥ जिन० ॥ २ ॥
सिंहासन बैठा हरि बलिया, देव देवी गण सुं
परिवरिया । नारी मित्र प्रेर्या केइ चलिया, केइ
निज भाव विचार ॥ जिन० ॥ ३ ॥ केइ हुकम
केइ भक्ति भावे, मुख्य धरम निज मनमें म-
नावे । केइक कौतुक जोवा आवे, फल भावों
अनुसार ॥ जिन० ॥ ४ ॥ हय कासर हरि नाग
निवासा, गरुड छाग चित्रा पर वासा । वाहन
नेक विमान आकासा, संकीरण उपचार ॥ जिन०
॥ ५ ॥ कोइ बोले वहाँ बोल करारा, सांकडा
भाइ ए पर्व दहारा । इम वरजे केइ ज्ञान वि-

चउसठ इंदर सुरगिरि मिल करते पूजा है खरी।
खीरोदक गंगापाणी निर्मल पूजा है खरी ॥४॥

अठजाति कलशे भरके प्रभु की पूजा है खरी।
अभिषेक अढाईसो करते प्रभु पूजा है खरी॥५॥

आरती मंगल दीवा चंदन से पूजा है खरी।
फूलें पूजे बाजींतर बाजें पूजा है खरी ॥६॥

अठ मंगल आदि ओच्छव करते पूजा है खरी।
जा माता पासे प्रभु को धरते पूजा है खरी॥७॥

कुँडल युग वस्त्र दडो गेडी प्रभु पूजा है खरी।
द्वात्रिंशत् कोटी रत्न वरसिया पूजा है खरी॥८॥

प्रभु माता से धरे खेद प्रभु की पूजा है खरी।
तस मस्तक थासे छेद प्रभुकी पूजा है खरी॥९॥

अंगुष्ठामृत नंदीसर ओच्छव पूजा है खरी।
करे राजा वधाइ ओच्छव दश दिन पूजा है
खरी ॥ १० ॥ प्रभु पारस नाम अनुपम वल्लभ
पूजा है खरी। आतम शिवसाधन वीर कहे प्रभु
पूजा है खरी ॥ ११ ॥

॥ काव्यं ॥

तीर्थकराणां जगदुक्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् । कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्ध्यै शिवदा भवेत्सां ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय-
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय जलं
यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ जन्मकल्याणके पंचमी चंदनपूजा ॥

दोहा ।

अमृत पानसे उछरे, श्री श्री पार्श्वकुमार ।
अहिलंछन नव कर तनु, वरते अतिशय चारा ॥ १ ॥
योवन वय पामे थके, मात पिता धरी नेह ।
परिणावे नृप पुत्रिका, प्रभावती गुण गेह ॥ २ ॥
चंदन घसी घनसारसे, निजघर चैत्य विशाल ।
पूजोपगरण मेलके, पूजे जगत दयाल ॥ ३ ॥

('चाल-सबमे ज्ञानवंत बडबीर)

श्रीश्रीपार्श्वनाथ भगवान । प्रभु है सर्व

गुणोंकी खान । श्री० ॥ अंचली ॥ एक दिन
 क्रीड़ाकर प्रभु पैठे । अपने महलमें सुखसे बैठे
 करते नगर तनी पैछान ॥ श्री० ॥ १ ॥ देखे
 लोक नगरके जाते । पूजोपगरण आनंद थाते ।
 लेकर के संगमे खान पान ॥ श्री० ॥ २ ॥ पूछा
 प्रभुने उत्तर मलीया । तापस वंदनको सब च-
 लीया । उठी लोक सवेरे जान ॥ श्री० ॥ ३ ॥
 योगी कमठ तपस्या धरता । अग्नि पंचकी सेवा
 करता । मनमें तपसी के अति मान ॥ श्री०
 ॥ ४ ॥ पासकुमर देखन को जावे । तपसी पास
 प्रभु चल आवे । देखे तब जिन अवधिज्ञान ॥
 श्री० ॥ ५ ॥ कहे प्रभु सुन तापस सुखकारण ।
 तेरा जाप योग नहीं तारण । अग्नि बीच जले
 अज्ञान ॥ श्री० ॥ ६ ॥ कहे सुन राजकुमर तुम
 जानो । अश्व खिलाना योग न मानो । योगी
 का है दूर मकान ॥ श्री० ॥ ७ ॥ तुझको कि-
 सने योग धराया । केवल कष्ट शरीर बताया ।
 कानी नहीं धर्म ओलखान ॥ श्री० ॥ ८ ॥ आ-

तम आनंद लक्ष्मी दाता । धर्म तना प्रभु पा-
रस ज्ञाता । बल्लभ श्री शुभ वीर वखान ॥
श्री० ॥ ९ ॥

॥ दोहा ॥

कमठ कहे धर्मी गुरु, हम नहीं कौड़ी पास ।
भूल गये दुनिया दशा, करते वनमें वास ॥१॥
(सोरठ-चाल-कुमताने जाडु डारा)

प्रभु पारस मोहनगारा, जिन्हें मोह लिया
जग सारा । प्र० अंचली ॥ कहे प्रभु वनवासी
पशु पंखी, तुम ऐसे निरधारा । योगी नहीं पिण
भोगी कहिए, संगत है संसारा ॥ प्र० ॥ १ ॥
जान बुरा संसारको छोड़ा, सुन हो राजकुमारा ॥
जोगी जंगल सेवत प्यारे, लेकर धर्म आधारा ॥ प्र० ॥ २ ॥ दया धर्मका मूल कहा है, जा-
नत नाहीं गमारा । जीव दया विन जगमें होवे,
तप जप निष्फल सारा ॥ प्र० ॥ ३ ॥ बात द-
याकी हमको सुनावो, माफ कसूर हमारा ।
चार बार क्या कहना प्यारे, ऐसा शोच विचारा

॥ प्र० ॥ ४ ॥ प्रभु हुकमसे काष्ठ सेवकने, फाड़के
नाग निकारा । सेवक मुख नवकार सुनाके,
धरणेद्र नागकुमारा ॥ प्र० ॥ ५ ॥ राणी साथ
बसंतमें बनमें, बैठे महल सुखारा। राजीमातिको
छोड़के संयम, लीना नेम कुमारा ॥ प्र० ॥ ६॥
चित्रामण जिन निरखत भीना, रस वैरागे भारा ।
लोकांतिक सुर आकर बोले, संजम अवसर
थारा ॥ प्र० ॥ ७ ॥ मात पिताकी आज्ञा ले-
कर, वरसी दान दातारा । दीनात्म कीने
सुखी बल्भ, वीर वचन हितकारा ॥ प्र० ॥ ८॥
॥ काव्यं ॥

तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, सुरासुराधीश
निषेवितानाम् ॥ कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्ध्यै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ उँ हँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय चंदनं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ दीक्षाकल्याणके पृष्ठी धूपपूजा ॥
॥ दोहरा ॥

अंवसर वरसी दानके, भव्य जीव लिये दान ।
राग हरे घट मास का, हो तनु सुंदर वान ॥१॥
धूपघटी धरी हाथ में, दीक्षा अंवसर जान ।
देव असंख मिला तिहाँ, मानो संजम ठान॥२॥

(श्रीराग, चाल—मंगल पूजा सुरतंरु कंद)

दीक्षा कल्याणक शिव सुख कंद ॥ दी०
॥ अंचली ॥ तीस वरस गृहवासे वसीया, सुख
भर वामाजीके नंद । संजम रसिया जानके
आए, मिलकर सुरगण चउसठ इंद ॥ दीक्षा०
१ ॥ तीर्थोदक वर औषधि लाके, आठ जातिके
कलशे भरंद । अश्वसेन नृप आदिमें पीछे, सु-
रपति जिन अभिषेक करंद ॥ दीक्षा० २॥ कल्प
बृक्ष सम प्रभु अलंकारी, विशाला शिविका अ-
भिनंद । सिंहासन बैठे प्रभु सोहे, उडुगणमें
सोहे जिम चंद ॥ दीक्षा० ३॥ पट शाटक लेइ-
दक्षिण पासे, बैठी कुल महत्तरिका छंद । वाम-

पासे अंबधात्री बैठी, यौवना पाछल छत्र धरंद
 ॥ दीक्षा० ४ ॥ फल लेइ ईशान कून में, असि
 कूण एक पंखा लहंद । चलत पालखी गीत
 गावती, साथे सर्व संहेली वृंद ॥ दीक्षा० ५ ॥
 शक्र ईशान इंद्र करे चामर, वार्जींत्रका नहीं
 पार गहंद । अष्ट मंगल चलते प्रभु आगे, इंद्र-
 श्वजा चले आगे जिनंद ॥ दीक्षा० ६ ॥ देव
 देवी नर नारी झुक झुक, वार वार प्रणाम क-
 रंद । आतम अनुभव आनंद मंगल, वल्लभ वीर
 चचन विकसंद ॥ दीक्षा० ७ ॥

दोहा ॥

दीठा जिन जिनराज को, सफल जन्म है तास।
 अनुमोदन कर प्राणिया, सफल मनावे आसु ॥१॥
 (चाल—आशक तो होचुका हुँ)

दीक्षा प्रभुकी जोवे, जग पुण्यवंत प्रानी
 ॥ अ० ॥ जय वामाजीके नंदा, कटो जन्म ज-
 न्म फंदा । कुलवृद्ध बोले वानी, जग पुण्यवंत
 आनी ॥ दी० १ ॥ चकचूर मोह करियो, दालिद्र-

द्वार हरियो । जिम होए वरसी दानी, जग पुण्य-
वंत प्रानी ॥ दी० २ ॥ पहुँचे बहिर नगरिया,
वरघोडे से उतरिया । आश्रमपद उद्यानी, जग
पुण्यवंत प्रानी ॥ दी० ३ ॥ अशोक वृक्ष हेठे;
भूषण तजके बैठे । अट्टम तप मानी, जग पु-
ण्यवंत प्रानी ॥ दी० ४ ॥ महाव्रत चार उचरे,
वादि पोष मास शुचरे । एकादशी सुहानी, जग
पुण्यवंत प्रानी ॥ दी० ५ ॥ परिवार शत तीनो,
देवदूष्य इंद्र दीनो । प्रभु होए तुर्य ज्ञानी, जग
पुण्यवंत प्रानी ॥ दी० ६ ॥ नंदीसरे सुर जावे,
माता पिता घर आवे । काउसग जिन ध्यानी,
जग पुण्यवंत प्रानी ॥ दी० ७ ॥ आतम आ-
नंद दाता, पारस प्रभु है त्राता । वल्लभ वीर
जानी, जग पुण्यवंत प्रानी ॥ दो० ८ ॥

॥ काव्य ॥

तीर्थकरणां जगदुत्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् । कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्धै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥



॥ केवलज्ञानकल्याणके सप्तमी दीपकपूजा ॥

॥ दोहा ॥

धन सारथी घर पारणा, किया प्रथम भगवान ।
पांच दिव्य परगट हुए, तास मुक्ति सुखखान ॥१॥
जगदीपक प्रकटाववा, तप तपता उद्यान ।
इतिण दीपककी पूजना, करते केवल ज्ञान ॥२॥

(कानडा—ताल तीन)

प्रभु पार्वतीनाथ जिनवर का, कर दूरस्त
फरस मन हरस भयो ॥ प्र० अं० ॥ नीलवर्ण
तनु पार्वती सुहावे, कादंबरी अटवी प्रभु आवे ।
कुंड सरोवर नाम कहावे, शोभे पदम सुजर
का ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ काउसग मुद्रामें प्रभु ठावे,
हाथी तहाँ एक वनसे आवे । सूंड भरी जलसे

नवरावे, ऐसे नजर कमर का ॥ प्रभु० ॥२॥ ती-
रथ तहाँ कलिकुंड ही थावे, हाथी गति देवन-
की पावे । कौसुंभ वन धरण्डिर आवे, वांदे
चरण अजर का ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ तीन दिवस
फणी छत्र धरावे, अहि छत्रा नगरीको वसावे ।
तापस घर पीछे प्रभु आवे, स्वामी अजर अमर
का ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ बड़के नीचे ध्यान लगाया,
कमठ मरी मेघ माली थाया । देख विभंगे अरि
बन आया, लागा पसर तिमर का ॥ प्रभु०॥५॥
बहुजाति उपसर्ग ही दीना, नहीं चलिया प्रभु
ध्यानमें लीना । आतम वल्लभ वीर नगीना,
पाया विजय समर का ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

जल भरी वादल वरसिया, गजे तडित् चमकार ।
नासाये प्रभु आईया, जल नहीं लागी वारा ॥१॥
धरण्डिंद्र तब आईया, लेई प्रियाको साथ ।
हरी उपसर्ग पूजे प्रभु, मोक्ष मार्ग के पाथ ॥२॥
तब धूजो निज पापसे, मेघ माली सुर आप ।

प्रभु भक्ति समकित लही, धोए अपने पाप॥३॥

(पीलु—बाल—तोरी सुरतकी जाऊं बलिहारी)

प्रभु सुरत की जाऊं बलिहारी, केवल कल्याणक छप न्यारी ॥ प्र० अंचली ॥ आए काशी उद्याने स्वामी, काउसग मुद्रा ध्यान की धारी, वीर्य अपूरव अति उल्लासे, नाश किये घन धाती चारी । प्रभु० ॥ १ ॥ चउरासी दिन छउमत्थ रहिया, चैत्र वदि तिथ चौथ ही सारी । अद्वम तप तरु धातकी नीचे, केवल ज्ञान यो उजयारी ॥ प्र० ॥ २ ॥ मिल सुर चउस इंद्रे कीनी, समवसरण रचना मनोहारी । दि हासन पारस प्रभु सोहे, करे नाटक सुर उन्द भारी ॥ प्र० ॥ ३ ॥ त्रौं त्रौं त्रिक दि वीणा वाजे, धौं धौं धप मप धुन ढकारी । गड दउं दगड दउं दुंदुभि गाजे, ता थइ थेइ जय जयकारी ॥ प्र० ॥ ४ ॥ चौतीस तिशय पैतीस वाणी, प्रगटे अरिहंत के बारी । स्यादवाद उपदेश करीने, संघ र

थापे जिन चारी ॥ प्र० ॥ ५ ॥ वनपाल ने भू-
पाल वधाई, दान देई नृप आवे श्रृंगारी । मात
पिता प्रभावती राणी, जिन वाणी सुन हुए
अनगारी ॥ प्र० ॥ ६ ॥ संघ गणि पद् ज्ञान म-
होत्सव, देव करे मिल चार प्रकारी । आतम
आनंद निज गुण दाता, वल्लभ वीर वचन हि-
तकारी ॥ प्र० ॥ ७ ॥

॥ काव्यं ॥

तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् ॥ कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्धयै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥
॥ मंत्रः ॥ॐ हौं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
दीपकं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ निर्वाणकल्याणके अष्टमी नैवेद्यपूजा ॥
॥ दोहा ॥

शुभ आदि दश गणधरा, साधु सोल हजार ।
सहस आठ तीस साधवी, चार महाब्रत धारा ॥

एक लाख चौसठ हजार, श्रावकका परिवार ।
सहस्रसत्तावीस श्राविका, तिग लख ऊपर धाराशा
देश वृत्तिधर ए सहू, पूजे जिन तिग काल ।
प्रभु प्रातिमा आगल धरे, नित नैवेद्यका थाल।३।

(जयजयवंती)

पार्श्व प्रभु का दर्श सुहंदा, प्रभु दर्शन से
होत आनंदा ॥ पा० अंचली ॥ वेधक वेधकता
को जाने, और नहीं तस स्वाद लहंदा । तिम
प्रभु दर्शन का फल जाने, दर्शक भवी नहीं अ-
भवी गहंदा ॥ पा० ॥ १ ॥ पर उपकारी जग
हितकारी, जिनवर केवल ज्ञान दिनंदा । वि-
चरंता परिवार सहित प्रभु, कनक कमल पर-
पाय ठवंदा ॥ पा० ॥ २ ॥ सुर जल बुंद कु-
सुम वरसावे, चामर सिर पर छत्र धरंदा । तरु
मारगमें जातां नमता, तारण भवि उपदेश क-
रंदा ॥ पा० ॥ ३ ॥ पैतीस गुण वाणी प्रभुधारी,
नर नारी सुर अपछर बृंदा । प्रभु आगल ना-
टक करे सुंदर, अवनी तल पावन जिन चंदा॥

पा० ॥ ४ ॥ आये कारण अंत चउमासा, तीर्थ
शिखर सम्मेद गिरीदा । श्रावण सुदि आठम
करी अनसन, एक मास संग तेती मुनीदा ॥
पा० ॥ ५ ॥ काउसग मुद्रा शिव सुख पाये,
सादि अनंत अज अचर जिनंदा । आतम आ-
जंद चिदघन राशि, वल्लभ वीर वचन सुखकंदा
॥ पा० ॥ ६ ॥

॥ दोहा ॥

समय कहे दृष्टांत चउ, कर्म रहित अशरीर ।
एक समय सम श्रेणिसे, ऊर्ध्वगाति घन थीर ।
(जंगलो-दुमरी चाल—मन मोहा जंगलकी हरणी ने)

भवि नंदो पार्श्व शिव वरणी ने । भवि०
॥ अंचली ॥ पार्श्व प्रभु निर्वाण को जानी, सु-
रपति सब आए धरणी ने ॥ भ० ॥ १ ॥ क्षीरो-
दधि आदि सब जल से, स्नान विलेपन करणी
ने ॥ भ०॥२॥ भूषण वसन शरीरे धारी, शोभा
करे मन हरणी ने ॥ भ० ॥ ३ ॥ चंदन चयमें सुर
परजाले, भक्ति शोक विचरणी ने ॥ भ० ॥ ४ ॥

थूभ करे ते ऊपर सुंदर, जिन शासन अनुस-
रणी ने ॥ भ० ॥ ५ ॥ दाढ़ां लई दीवाली सुर
करी, अस्त हुए भाव तरणि ने ॥ भ० ॥ ६ ॥
नंदीसर निर्वाण महोच्छव, करी गए सुर निज
घरणी ने ॥ भ० ॥ ७ ॥ वल्लभ अंतर वीर अढ़ी
सौ, आतम शिव वधू परणी ने ॥ भ० ॥ ८ ॥
॥ छंद ॥

इम पाँच कल्याणक तणी पूजा प्रभु पारसतणी।
शत वर्ष जीवी सुख अक्षय पामे निकर्मा बनी।
प्रभुपाद सेवा मुक्ति लेवा पूजा निज शक्ति भणी।
वंछित मन फल आस पूरे पास श्री चिंतामणि॥१॥
॥ काव्य ॥

तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, सुरासुराधीश-
निषेवितानाम् । कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां,
निजात्मसिद्धयै शिवदा भवेत्सा ॥ १ ॥
॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय नै-
वैद्यं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥

॥ कलश ॥

(चाल-मिल पयो वैद्य)

धन दिन आज कल्याणक गाया ॥ ध०॥
अंचली० ॥ पार्श्वनाथ जग अंतरजामी, पुरिसा
दानी कहाया । पांचकल्याणक ओच्छव करते,
घर घर मंगल माया ॥ ध० ॥ १ ॥ तपगच्छ ग-
गनमें तरणि सोहे, विजयानंद सूरि राया । ल-
क्ष्मीविजय तस हर्षविजय तस, शिष्य बलभ
लघु थाया ॥ ध० ॥ २ ॥ संवत वीर चौबीसौ
तेतीस, आत्म एकादश भाया । विक्रम उन्नीसौ
त्रेसठमें, महीना माघ सुहाया ॥ ध० ॥ ३ ॥
विजय कमल सूरीश्वर राजे, वीरविजय उत्त-
ज्ञाया । कांतिविजय प्रवर्तक दीपे, नमु नित्य
तिनके पाया ॥ ध० ॥ ४ ॥ आत्मानंदी जैन-
सभाकी, प्रेरणा हर्ष सवाया । शक्ति नहीं पिण
भक्ति तणे वस, जीरा नगर गुण गाया ॥ ध०
॥ ५॥ श्रीशुभवीर वचन अनुसारे, पांचकल्या-
णक गाया । भूल चूक मिच्छामि दुक्कड, बलभ
सीस नमाया ॥ ध० ॥ ६ ॥

॥ इति पंचकल्याणक पूजा ॥

अथ श्रीमहावीर प्रभु
॥ पंचकल्याणक पूजा ॥

श्रीवर्द्धमानस्वामिने नमः ।
(श्रीगौतमस्वामिने नमः)

दोहा.

वीर जिनंद नमी करी, सदगुरु सीस नमाय ।
कल्याणक पूजा रचू, सिमरी सारद माय ॥१॥
गुणि पूजत गुणि होत है, गान करत गुणवान ।
भावत शुभ मन भावना, पावत निज कल्यान ॥
कल्य नाम सुख जानिए, अणक बुलाना तास ।
कल्याणक आराधिए, मन वच काय उलास ॥३॥
कल्याणक जिनके कहें, पंच पंच जगदीस ।
भरतैरावत खेत्रके, वर्तमान चोरीस ॥ ४ ॥

१२०

१२००

इक खेत्रे सय वीस है, दस खेत्रे सय बार ।

३६००

भूत अनागत मेलके, छीसो तीन हजार ॥५॥
महा विदेहे सय भलाँ, विहरमान जिन वीस ।

उत्कृष्टे पद् आठसो, इकसो साठ जगीस ॥६॥
 इम कल्याणक जिन धने, नावे संख्या पार ।
 कहिसुं वीर जिनदंके, शासनके सरदार ॥७॥
 च्यवन जन्म दीक्षा सही, चौथा केवल नाण ।
 कर्मआठके क्षय हुए, पंचम पद् निर्वाण ॥८॥
 परमेष्ठी अरहा नमु, नाथ और सर्वज्ञ ।
 पारंगत इण नामसे, जाप जपे मर्मज्ञ ॥९॥

—॥५॥—

॥ अथ प्रथमच्यवन कल्याणक पूजा ॥

दोहरा.

जबसे समकित पाइए, तबसे गणना आय ।
 वीर जीव नयसारके, भवमें समकित पाय ॥१॥

(सारंग केहरवा हमे दम देके चाल.)

समकित आत्म गुण प्रगटाना ॥ अंचलि ॥
 समकित मूल धरम तरु दीपे । विन समकित
 न चरण नवि ज्ञाना ॥ स० १ ॥ अपर विदेहे
 नृप आदेशो काष्ठ लेने नयसारका जाना ॥ स०
 २ ॥ भोजन समयमें निरखत अतिथि । पुण्य-

जोग जुग मुनि हुआ आना ॥ स० ३ ॥ धन्य
भाग्य मुझ मनमें चिंती। निरवद्य आहार पानी
दिया दाना ॥ स० ४ ॥ जोग जानी मुनि दे-
शना दीनी। पाया समकित लाभ अमाना॥स०
५ ॥ द्रव्य मारग बतलाया मुनिको। भाव मा-
रग किया आप पिछाना ॥ स०६॥ आतम ल-
क्ष्मी कारण समकित। हर्ष धरी वल्लभ मन माना
॥ स० ७ ॥

(२).

दोहरा

नमस्कार प्रभावसे, शुभ भावें नयसार ।
स्वर्ग सुधर्मे ऊपनो, पल्य आयु इक धार ॥१॥
देव आयु पूरण करी, जंबूद्वीप मझार ।
भरत अयोध्यामें हुओ, चक्री घर अवतार॥२॥

(देशी वणझारेकी श्रीसुविधिजिनंद सुखकारी चाल)

परमात्म पद सुखकारी, नमिए भव पार
उतारी । प्रभु आदि जिनंदका सोहे, सुत भरत

भरत मन मोहे, लियो जनम जीव अवतारी ॥
 न० १ ॥ नाम मरीचि कुमार कहावे, उपदेश
 ऋषभ दिल लावे, ग्रहे संजम तज संसारी ॥ न०
 २ ॥ गति कर्म विचित्र स्वभावे, परिणाम भग्न
 तस थावे, गयो परिषहसे ब्रत हारी ॥ न०३ ॥ घर
 लजासे नहीं जावे, मन कल्पित वेष बनावे, सं-
 जम दुष्कर दिल धारी ॥ न० ४ ॥ विचरे प्रभु
 साथ उमंगे, पाले अणुब्रतसा रंगे, पूछे जन धर्म
 आचारी ॥ न० ५ ॥ कहे जैनधर्म जन आगे,
 समझी जन दीक्षा मागे, भेजे प्रभु पास वि-
 चारी ॥ न० ६ ॥ विचरंता प्रभु साकेते, आए
 तब वंदन हेते, गए चक्री सह परिवारी ॥ न०७ ॥
 पूछे चक्री प्रभु पासे, इस अवसर्पिणी जिन
 थासे, पर्षदमें है अधिकारी ॥ न०८ ॥ कहे प्रभु
 सुन भरतजी राया, मरीचि अंतिम जिनराया,
 होगा वीर अभिधा धारी ॥ न० ९ ॥ भरते प-
 हला वासुदेवा, मूका नगरी नरदेवा, इस पदवी

तीन प्रकारी ॥ न० १० ॥ वंदी प्रभु भरत उ-
ल्लासे, जावे मरीचिके पासे, करे वंदन इम उ-
च्चारी ॥ न० ११ ॥ वासुदेव तूं होगा भरते, चक्री
मूकामें फिरते, भरते जिनवर जयकारी ॥ न०
१२ ॥ वासुदेव पनेको न नमता, नहीं चक्रीपन
मन गमता, नमता हूं जिनपद धारी ॥ न० १३ ॥
चक्री निज धाम सधाए, भारत वल्लभ हर्षाए,
आतम लक्ष्मी अवधारी ॥ न० १४ ॥

(३)

॥ दोहरा ॥

बात सुनी भरतेशकी, मरीचि मन हर्षाय ।
नाचे कूदे ऊछले, मुखसे बोले वाय ॥ १ ॥
पहला जिन दादा हुआ, चक्री पहला तात ।
वासुदेवमें आदि मैं, मुझ उत्तम कुल जात ॥२॥

(गिरिवर दर्शन विरला पावे-चाल.)

करम मरम कोई विरला, पावे मोह महा
तममें भरमावे ॥ क० अंचली ॥ नीच गोत्र पैदा

किया मरीचि, वीरके भवमें उदय वो कहावे

१ २ ३ ४ ५ ६

॥ क० १ ॥ कुल जाति बल रूप तपस्या, ज्ञान
ठकुराई धन फरमावे ॥ क० २ ॥ मद आठोमें
जो मद करते, जीव हीन वो ही उपजावे ॥ क०
३ ॥ आदि जिनंद प्रभु मोक्ष सधाए, साथ मुनि
मरीचि तब थावे ॥ क० ४ ॥ एक दिन रोगी
हुओ दैव योगे, भावना तब मरीचि मन भावे
॥ क० ५ ॥ निर्गन्थ मेरी खबर नहीं लेवे, शिष्य
करुं मुझे काम जो आवे ॥ क० ६ ॥ राजकुमार-
कपिल प्रतिबोधी, मुनि दीक्षाके लिए समझावे
॥ क० ७ ॥ कर्मयोग समझे नहीं हेतु, तुम
दर्शन दीक्षित होउं गावे ॥ क० ८ ॥ तुम दर्श-
नमें धर्म नहीं क्या, सुनकर मन मरीचिका-
लुभावे ॥ क० ९ ॥ योग्य मिला मुझ लायक चेला,
दर्शन दर्शन मोह गमावे ॥ क० १० ॥ प्रभु दर्शनमें
मुझ दर्शनमें, धर्म है दोय ठिकाने सुनावे ॥ क० ११ ॥
सागर कोडा कोडी प्रभावे, उत्सूत्र निज संसार

बधावे ॥ क० १२ ॥ विन आलोचे काल करीने,
यंचम देवलोकमें जावे ॥ क० १३ ॥ आतम
लक्ष्मी जिन दर्शन विन, आतम वल्लभ हर्ष
न पावे ॥ क० १४ ॥

(४)

दोहरा ।

चार सात नवमे भवे, ग्यार तेर भव जान ।
यन्नर सत्तरमे भवे, देव विमान वखान ॥ १ ॥
यंच आठ दश षष्ठमें, बार चउद भव माँहि ।
ब्राह्मण त्रिदंडी हुओ, समकित पायो नाँहि ॥ २ ॥

(लावणी-संग नर परनारी हरना-चाल.)

ध्यान प्रभु चरणि नित्य धरना, कटे करम
जंजाल भवोदधिसे होय झट तरना ॥ ध्यान
प्रभु० अंचली ॥ सोलमे भव क्षत्रिय वंशे, वि-
श्वभूति नृप पुत्र विशाखा भूति पुण्य अंशे,
मिले संभूति मुनिराया, लङ्घ दीक्षा जिनराज
किया तप भारी कृश काया, विचरता मथुरा

पुरी आया । गोचरी जाते मार्गमें, गौसे गिरा
ऋषिराय । देख विशाखा नंदीने, हास्य किया
निज भाय । ऋषि मन क्रोध लिया सरना ॥

॥ कटे० १ ॥ नियाणा मुनिवरने कीना, तप
अतिशय बलवान बनूँ फल मांग यही लीना,
प्रजापति पोतनपुरस्वामी, नारायण त्रिपृष्ठ हुओ
तस पुत्र अति नामी, किए संग्राम अधोगामी ।
शश्या पालक कानमें, तत त्रपु डलवाय । तीव्र
कष्ट निज कर्णमें, कील प्रक्षेप उपाय । हुआ
भव अष्टादश वरना ॥ कटे० २ ॥ नारकी उ-
ज्ञीसमे भवमें, सिंह हुओ भव वीस नारकी
इकवीसमे भवमें, किए भव बिच बिचमें छोटे,
मनुष्य जन्म शुभ योग पायो भव वीस दोय
मोटे, खपाये कर्म प्राय खोटे । चक्री तेवीसमे
भवे, मूका नगरी मझार । षट खंड घृथ्वी त्या-
गके, लीनो संजम धार । देव भव चोवीसमें
चरना ॥ कटे० ३ ॥ हुए भव पचवीसमें भरते

इजित शत्रु नृप राज्य पुरि छत्रिकामें करते, पुत्र
तस भद्रा अंग जाया, नंदन नाम कुमार सूरि
पोट्टिल सत्संग पाया, लिया संयम अति सुख-
दाया । मास क्षमण तप विंशति, स्थानक सेवा
कीन । तीर्थकर पद हृषि कियो, चरण करण
सुण लीन । निरंतर निज संपत भरना ॥ कटे०
४ ॥ चरण एक लाख वरस पाली, जाव जीव
करी मास खमण तप आतम अजुआली, करी
शुभ अनशन ऋषिराया, पुष्पोत्तर विमान स्वर्ग
दशमे सुरपद पाया, देव भव अंतिम ए गाया ।
आतम लक्ष्मी कारण, बाकी नरभव एक । हर्ष
अनुपम नहीं मिले, नरभव विन ए टेक । प्रभु
दर्शन वल्लभ करना ॥ कटे० ५ ॥

(५)

॥ दोहरा ॥

स्वर्ग दशम सुख भोगवी, सागर वीस अखंड ।
नामे जंबू दीपमें, क्षेत्र भरत मझ खंड ॥ १ ॥

ऋषभ दक्ष माहण वसे, माहण कुंड मझार ।
देवानंदा ब्राह्मणी, तस घर सुंदर नार ॥ २ ॥
तिथि आषाढ़ सुदि छठे, चविया प्रभु जंयकार ।
उत्तर फाल्युनि योगमें, तस कूखे अवतार ॥ ३ ॥
(चाल चिंतामणी स्वामीरे)

शिवसुख धामीरे, शिवगति गामीरे, भावे
जिन सेविए हो जी परमेष्ठिने नमःजाप सीकार,
कल्याणकगुणने एह विचार ॥ शि०अं० ॥ नमन
करी मघवा कहे, हरिण गमेषी देव । ब्राह्मण
कुल होवे नहीं, श्री देवाधिदेव । चक्री अर्ध चक्री
राम उदार ॥ शि० १ ॥ गोत्र कर्म भावि वसे,
बाद अनंते काल । होवे तो जन्मे नहीं, एह
अनादि चाल । पलटो गर्भ क्षत्रिय कुंड मझार
॥ शि० २ ॥ सिद्धारथ क्षत्रिय भला, राणी त्रि-
शला तास । तस कूखे जिन संहरो, सफल करो
मुझ आस । पलटे गर्भ दोनों देव आचार ॥
शि०२ ॥ मुझ सुपने त्रिशला हरे, देवानंदा देखा
शोच करे मनमें नहीं, मिटे करमकी रेख । देखो

सुपता त्रिशला दश और चार ॥ शि०४ ॥ गय-
 वर बृष्वर मृगपति, श्रीदेवी सुमदाम । शशि
 तरणि ध्वज दीपतो, कुंभ कलश अभिराम ।
 दशमे सुपने पद्म सरोवर सार ॥ शि० ५ ॥
 क्षीरोदधि एकादशे, वारमे देव विज्ञान । राशि
 रहकी चउदमे, शिखि निर्धूम वखान । आतम
 लक्ष्मी वल्लभ हर्ष अपार ॥ शि० ६ ॥

॥ काव्य ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु
 हेमाचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
 म्बुमिः स्त्रापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महान-
 न्दास्तिकाले सुरैः, सद्वोधास्तिकृतेऽर्चितो जिनवरो
 वीरोऽवतादेहिनाम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमात्मने अन-
 न्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
 परमेष्ठिने जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं,
 नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

(६)

गीत-दोहरा.

जागी त्रिशला कंतके, पासे आवे सार ।
 मंजुल वाणी बोलती, ऊठावे भरतार ॥ १ ॥
 सुपन कहे सुन हर्षसे, बुलवावे भूपाल ।
 पंडित आय वदे तदा, करी निर्णय तत्काल ॥ २ ॥
 होगा सुत अरिहा गुणी, चउद सुपन अनुसार ।
 जगनायक तिहुअण धणी, चउद भवन सिणगार ॥ ३ ॥
 पंडित प्रीतिदानसे, पोषी किए विदाय ।
 शुभ लाभे मन दंपती, वार वार हर्षय ॥ ४ ॥

(राग पीलु ख्याल टप्पो)

च्यवन कल्याणक उत्सव जिनवर, करे
 नंदीश्वर हर्ष हरि रे च्यवन ॥ अंचली ॥
 इम पांचो कल्याणक करते, उत्सव नंदीश्वर
 पुण्य भरते । सुर सुरपति समकित हृढ धरते,
 धन जगमें नर तेह, अति गुण गेह, निजातम
 सुख करी रे ॥ च्य ० १ ॥ गुस रहे प्रभु भक्ति
 निमित्ते, दुःख धरे माता अति चित्ते ॥ २ ॥

से चित्त पवित्रे, निश्चय लीनो धार, प्रभू सुख
 कार, जनेता भक्ति धरीरे ॥ च्य० २ ॥ जीते
 मात पिता नवि धारु, संयम भवजल पार उतासा
 माता गर्भ पोषण करे चारु, देश काल अनुमान,
 सहित परमान, कुपथ्य सब दूर हरीरे ॥ च्य० ३ ॥
 माता मनमें गर्भ प्रभावे, जो जो उत्तम इच्छा
 थावे । सुरपति नरपति शुभ मन भावे, पूर्ण करे
 तत्काल, अनादि चाल, न होवे फेर जरीरे ॥
 च्य० ४ ॥ आतम भक्ति रसे हरि वयणे, श्रीपति
 लक्ष्मी भरे नृप सयणे । हर्ष अनुपम वल्लभ नयणे,
 समकित निर्मल काज, करे जिनराज, सुरासुर
 भक्ति खरी रे ॥ च्य० ५ ॥

॥ अथ द्वितीयजन्मकल्याणकपूजा ॥

(१)

दोहरा.

जन्म समय जिन देवके, जनपद सुखिया लोका
 वायु सुखकारी चले, आनंद मंगल ओक ॥ १ ॥

चैत्र सुकल तेरस भली, ऋक्ष उत्तरा जोग ।
 मध्यरात्रि जिन जनमिया, पूर्ण पुण्यफल भोग॥२॥
 शांत दिशा सब दीपती, त्रिभुवन हुओ प्रकाश ।
 छपन दिशि कुमरी मिली, आई चिक्क हुलास॥३॥

(देश निताल लावणी)

जनमे जिन देव मतिश्रुत अवधि ज्ञानी,
 पूरण जसं पुण्यकी अद्भुत एह निशानी ॥
 ज० अ० ॥ अड थानसे छपन दिशि कुमरी
 मिल आवे, देखी प्रभु झगमग ज्योति अति
 हर्षावे । अधोलोककी आठ संवर्तक वायु चलावे,
 एक योजन भूमि अंदर अशुचि उडावे । वर-
 सावे आठ उर्धलोक कुमरी फूल पानी ॥ज०१॥
 पूरव दक्षिण पश्चिम उत्तर इम चारे, क्रमसे अठ
 अठ कुमरी निज काज संभारे । दर्पण कलशालि
 पंखा चामर धारे, चउ विदिशि की चउ दीप धरे
 उजीयारे । चउ मध्य रुचककी आवे कुमरी स-
 यानी ॥ ज० २॥ कदली धरतीन बनाय विधि-
 से करती, मर्दन पूरव घर स्नान दक्षिणे धरती ।

उत्तर घर रक्षा वंधनको अनुसरती, जिन जिन
अंबा नमी भाव पापको हरती । जीवो चिरकाल
जिनद वदे मुख वानी ॥ ज० ॥ ३ ॥ इम छप्पन
दिशि कुमरी प्रभुके गुण गाती, करके निज कल्प
अनादि सदन निज जाती । धन्य देव जन्म हम
प्रभु भक्तिसे मनाती, आतम लक्ष्मी कारण
समकित चमकाती । हर्षे वल्लभ प्रभु देख मुख
सुख दानी ॥ ज० ४ ॥

(२)

॥ दोहरा ॥

सुरपति आसन कंपिया, देखे अवधिज्ञान ।
जिन जन्म्या जाणी करी, नमन करे गतमान । १ ।
सुरगिरि सब साथे चले, त्रय सठ इँद्र सुजान
सोहम सुरपति आवते, जिन जन्मे जिस थान । २ ।

(माढ-चाल विमलाचल धारा)

जन्मे जयकारी, जाउं बलिहारी, वीर
जिनद भगवान प्रभु जग हितकारी, आति उ-

पकारी, जाउं बलिहारी ॥ वीर० अं० ॥ अवधि
ज्ञानसे जानकेरे, जनमे वीर जिनद । हरिण ग-
मेषी देवसेरे, जाण करे सुरइंद ॥ प्र० १ ॥ जिन
जन्मोत्सवके लिएरे, चलिए मेरु गिरींद वाहन
विधविध हर्षसेरे, आन मिले सुखवृंद ॥ प्र० २ ॥
पालक नाम विमानमेरे, शर्चीपति सह परिवारा
बैठे चले सुर साथमेरे, करते जय जय कारा ॥
प्र० ३ ॥ अहमहामिका चालतेरे, करते ज्ञान
विचार । वासर पर्वके सांकडेरे, जिन वच मं-
नमे धार ॥ प्र० ४ ॥ सोहमपति तब आयकेरे,
क्षत्रियकुँड मझार । जिनवर जिन जननी न-
मीरे, वचन उदार उच्चार ॥ प्र० ५ ॥ धन्य कृ-
तारथ जन्म सफल तुम, जीवित भाग्य अनंत।
पूर्व दिशा तरणि परेरे, तें जायो भगवंत ॥ प्र० ६ ॥
अवस्वापिनी निद्रा दईरे, बिंब धरी प्रभू पासा
पांच रूप हरि निज करेरे, धरतो मन उल्लास ॥
॥ प्र० ७ ॥ एक रूप जिन कर ग्रहेरे, छत्र धरे
एक रूप । चामर दोय रूपे करेरे, वज्र धरे एक

रूप ॥ प्र० ८ ॥ अर्थी सर्व कल्याणकारे, पंच
रूप धरे इंद । आत्म लक्ष्मी कारणेरे, वल्लभ हर्ष
अमंद ॥ प्र० ९ ॥

(३)

दोहरा.

हरि जिन निज अंके धरी, सुरगिरि शिखरे खास
अच्युत पति मँगावते, सामग्री सुरपास ॥ १ ॥
होवे इक अभिषेकमें, साठरु चार हजार ।
इम अद्विसो अभिषेकमें, संख्या पूर्ण विचार ॥ २ ॥

(चाल बलिहारीकी)

बलिहारी बलिहारी, बलिहारी, जिन जन्म
समये मघवा, मेरु गिरि ऊपर उत्सव कीजिए
जी । हरि मन संशय आयो, स्नात्र करण
नवि पायो । बालक सहसे किम जल धारी ॥
जिन० १ ॥ मेरु अंगुठे फरसे, कंपे गिरि मानो
हरसे । शक्र संशय दियो टारी ॥ जिन० २ ॥
अच्युत स्वामी हाथे, सामानिक आदि साथे । न्ह-
वरावे जिनवर जग उपकारी ॥ जिन० ३ ॥ क्र-

मसे सूरज चंदा, स्नान करावे इंदा। ईशान इंद्र
जिन अंक धारी ॥ जिन० ४ ॥ शक न्हवरावे
भावे, धारा अड सिंग वरसावे । रूप
वृषभ करी चारी ॥ जिन० ५ ॥ पूजन
विधिसे करके, श्रीजिन घरमें धरके ॥ बिंब स्वा-
पिनी लीने हारी ॥ जिन० ६ ॥ आतम लक्ष्मी
गावे, द्वीप नंदीसर जावे । वल्लभ हर्ष अनुपम
धारी ॥ जिन० ७ ॥

॥ काव्य ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु, हे-
माचले, सद्भृत्या सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
म्बुमिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा-
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्वोधास्तिकृतेऽर्चितो जिनवरो
वीरोऽवतादेहिनाम् ॥१॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमात्मने अनन्ता-
नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
मदर्हते जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं,
नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

(४)

गीत-दोहरा.

सिद्धारथ सुत जन्मका, उत्सव ठाठ अपार ।
 करि जिनपूजा कारणे, खरचे लाख हजार ॥१॥
 सयण सयल मन मानिया, देवे नरपति दान ।
 सब सनमुख आभिधा धरे, वर्धमान असमान २
 नाम परीक्षासे दियो, महावीर भगवान ।
 देवे इंद्र वखानसे, धीर वीर अति मान ॥३॥
 पढने मात पिता धरे, आठ वर्षका जान ।
 सुरपति आ संशय हरे, जिनव्याकरण वखान ४
 यौवन वय परणे विभू, नाम यशोदा नार ।
 वर्ष अठावीसमे प्रभु, मात पिता स्वर धार ॥५॥

(कव्वाली-गजल-चाहे तारो या न तारो-चाल)

विनतीतो कर रहाहुं चाहे धारो या न धारो॥अं०॥
 पूछे प्रभुजी भ्राता, दीक्षासे सुख साता ।
 मन एह चाह रहाहुं ॥ चाहे धारो० वि० २ ॥
 लघु भाङ्ग सुन तूं मेरे, दुःखमें क्यों मोहे गेरे ।
 दुःख पितृ सह रहाहुं ॥ चाहे धारो० वि० २ ॥

संसार झूठा नाता, सुत तात मात भ्राता ।
 सच्चा मैं कह रहाहूँ ॥ चाहे धारो० वि० ३ ॥
 सब ही मैं जानता हूँ, दोय वर्प मांगता हूँ ।
 विनती यह कर रहाहूँ ॥ चाहे धारो० वि० ४ ॥
 रहूँगा मगर न करना, आरंभ मैं विचरना ।
 निर्दोष घर रहाहूँ ॥ चाहे धारो० वि० ५ ॥
 आतम लक्ष्मी वरता, वल्लभ हर्ष धरता ।
 प्रभु वीर गा रहाहूँ ॥ चाहे धारो० वि० ६ ॥

॥ अथ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूजा ॥

(१)

॥ दोहरा ॥

जाने निज दीक्षा समय, पिण लोकांतिक देव ।
 कल्प करी प्रभु बूझवे, करते प्रभु पद सेव ॥१॥
 जय जय नंदा भह हे, जग गुरु जगदाधार ।
 धर्म तीर्थ विस्तारिए, मोक्ष मार्ग सुखकार ॥२॥

(लावणी पदम प्रभुकी पूजा)

वरसी दान देवे जिन राज महा दानीरे ॥

माचले, सद्भक्तया सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
म्बुभिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा-
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधातिकृतेऽर्चितो जिनवरो-
चीरोऽवतादेहिनाम् ॥ १ ॥

॥मंत्रः॥ ॐ हौं श्री परमात्मने अनन्तां-
नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
चीरजिननाथाय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

(३)

गीत-दोहरा.

चादि दशमी मृग मासकी, हत्थुत्तर रिख सार ।
स्यागन कर संसारको, वीर हुए अनगार ॥१॥

बहुल विप्रधर पारणा, किया प्रथम भगवान ।
पञ्च दिव्य परगट हुए, अहो महातम दान ॥२॥

(गजल, चाल धन धन वो जगमें)

धन्य धन्य वीर जिनंद भगवान, तपस्या-
करके बतानेवाले ॥ अंचली ॥ किया षटमासी

तप एक, पण दिन ऊना पुन एक । चउमासी
नव धरी टेक, त्रिमासी दोय कहानेवाले॥४०१॥
अढीमासी तप दोय जान, दोमासी तप षट
मान । दोँढमासी दोय प्रमान, मास दश दोय
वहानेवाले ॥२॥ पासखमण बहोतेर धार, अड्डम
तप किये प्रभु बार । छठ दोसो उनतीस सार,
करी तप कर्म खपानेवाले ॥३॥ छन्नस्थ अवस्था
काल, बार वर्ष मास षट भाल । दिन पंद्रका
करो ख्याल, घडी दो निद्रा पानेवाले ॥४॥ आ-
तम लक्ष्मी गुण खान, धेरे निर्मल प्रभु नित्य
ज्यान । वल्लभ हर्षे भगवान, भवोदधि पार ल-
गानेवाले ॥ ध० ५॥

॥ अथ चतुर्थकेवलज्ञानकल्याणक पूजा ॥

(१)

दोहरा.

संयम शुद्ध प्रभावसे, तीर्थकर भगवान ।
दीक्षा समये ऊपजे, मन पर्यव शुभ नाण ॥१॥

अंचली० ॥ अनुकंपा गुण धार, जगको दारिद्र
टार । जिन हाथे दान घ्रेहे भव्य तेह प्रानीरे ॥
व० १ ॥ एक कोडी आठ लाख, एक दिन दान
आख । संवच्छर तक इस विधि दान मानीरे ॥
व० २ ॥ वर्ष दोय होए पूरे, पूरे प्रतिज्ञामें सूरे ।
गेह वास वर्ष तीस रहे प्रभु ज्ञानीरे ॥ व० ३ ॥
नगर सजावे राय, थावे इंद्र हाजर आय । वि-
धिसे करावे स्नान इंद्र इंद्रानीरे ॥ व० ४ ॥
देवके कलस सारे नृपके कलस धारे । स्नान नंदि-
वर्धन करावे हर्ष आनीरे ॥ व० ५ ॥ वीर प्रभु
सज होवे, आतम लक्ष्मी जोवे । वल्लभ हर्ष मन
दीक्षा जिन पानीरे ॥ व० ६ ॥

(२)

दोहरा.

चंद पहा शिविका भली, नंदिराजा बनाय ।
दिव्य भावसे जानिए, सुर शिविका मिल जाय ॥१॥
सुरतरु सम जिन शोभते, आभूषण समुदाय ।

सिंहासन बैठे विभू, उद्गुण जिम रिखराय ॥२॥

(-सोरथ, कुवंजाने जादु डारा चाल-)

प्रभु दीक्षाकी छप सारी, धन्य देखत जो
नरनारी ॥ अं० ॥ दीक्षा कारण आप चले प्रभु,
क्षत्रिय कुँडमझारी । वहेशिविका नंदीवर्धन नर,
सुरवर साथ हजारी ॥ प्र० १ ॥ शक ईशान
सुरेश्वर चामर, करते हर्ष अपारी । जय जय
ध्वनि सुर नर किन्नर करे, मन उलट अति धारी
॥२॥ दुंदुभी देव ब्रजावे बुरसे, विविध सुमन
मनो हारी । नर नारी राति गुण गाती, प्रभु
भव पार उतारी ॥ प्र० ३ ॥ क्रमसे बहिर उद्याने
आवे, वृक्ष अशोक उदारी । आभूषण तज लोच
किया प्रभु, पंच महाब्रत धारी ॥ प्र० ४ ॥ नमो
नाथाय कही सब सुरपति, जाय नंदीसर भारी ॥
आतम लक्ष्मी हर्षे वल्लभ, उत्सव करे सुख-
कारी ॥ प्र० ५ ॥

॥ काव्यं ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-

माचले, सङ्करया सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
स्त्रुभिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा-
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधास्तिकृतेऽर्चितो जिनवरो-
चीरोऽवतादेहिनाम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमात्मने अनन्ता-
नन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
चीरजिननाथाय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं,
अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

(३)

गीत-दोहरा.

वदि दशमी मृग मासकी, हत्थुत्तर रिख सार ।
त्यागन कर संसारको, वीर हुए अनगार ॥१॥

बहुल विप्रधर पारणा, किया प्रथम भगवान ।
अंच दिव्य परगट हुए, अहो महात्म दान ॥२॥

(गजल, चाल धन धन बो जगमें)

धन्य धन्य वीर जिनंद भगवान, तपस्या-
करके बतानेवाले ॥ अंचली ॥ किया घटमासी

(२)

दोहरा.

उत्पात्ति स्थिति नाशको, जाने जिन समकाल ।
 छाना जाहिर जो किया, गति आगति सह काल ॥१॥
 द्रव्य अनंत जानते, गुण पर्याय अनंत ।
 मन चिंतित सब जीवके, जाने श्रीभगवंत ॥२॥
 तीर्थकर शुभ नामको, त्रीजे भव दृढ बंध ।
 उदय विपाके जिन भवे, अनुभव होय अबंध ॥३॥
 आसन कंपे इंद्रका, आवे सुर परिवार ।
 समवसरण रचना करे, जिन शासन जयकारा ॥४॥

(शान कल्याण)

पूजा प्रभु केवल ज्ञान आधारी ॥ पू० अं-
 चली ॥ सुर सुरपति मिल चार प्रकारी, सम-
 वसरण रचे भारी ॥ १ जगयुरु जगतारक जग-
 नायक, बैठे जग हितकारी ॥ २ ॥ चउतीस
 अतिशय पैतीस वाणी, दोष अष्टादश जारी ॥३॥
 प्रतिहारज अड परिसद बारां, द्वादश गुण भं-
 डारी ॥ ४ ॥ सग नय सग भंड चउ अणु

जोंगे, देशना चउगति वारी ॥५॥ क्षणभर साधा-
रण उपदेशे, कल्प अनादि विचारी ॥६॥ आतम
लक्ष्मी जिनपद पूजा, वल्लभ हर्ष अपारी ॥७॥
॥ काव्यम् ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हे-
माचले, सद्भृतया सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
म्बुभिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणि महा
नन्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधास्तिकृतेऽर्चितो जिन
वरो वीरोऽवतादेहिनाम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्यौ श्री परमात्मने अन-
न्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय
श्रीवीरजिनसर्वज्ञाय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं,
दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥४॥

(३)

गीत-दोहरा.

वन महसेन
समवस्तरण

३ ।
इदृ॥१॥

कारण यजन वहाँ मिला, ब्राह्मणका परिवार ।
इंद्रभूति तब चिंतवे, मनमें विविध विचार ॥२॥

(कानडा-स्थीहा.)

पूजो वीर जिनंदको भावे ॥ पूजो वीर०
अंचली ॥ तीरथ थापना ज्ञानसे जानी, पावा
पुरि प्रभु वीरजी जावे ॥ पू० १ ॥ सुन सर्वज्ञ
अभिमानको धरता, गौतम वाद करनको आवे
॥ पू० २ ॥ वेद ऋचा संशय सब टारी, वीर
प्रभु गौतम समझावे ॥ पू० ३ ॥ इम एकादश
विप्र प्रतिबोधी, निज गणधर प्रभु आप बनावे॥
पू० ४॥ नव गण एकादश गण धारी, वीर प्रभु
तीरथ वरतावे ॥ पू० ५ ॥ संघ चतुर्विंध थापी
जिनजी, तीर्थकर निज कर्म खपावे॥पू० ६॥ आतम
लक्ष्मी हर्ष धरीने, वल्लभ वीरको सीस नमावे
॥ पू० ७ ॥

॥ अथ पंचमनिर्वाणकल्याणक पूजा ॥

(१)

॥ दोहरा ॥

तीस तीस घर केवली, छद्म अधिक कुछ बार ।
पूर्णायु प्रभु वीरका, बार साठ निरधार ॥ १ ॥
वसुधा तल पावन करी, ऊन वर्ष कुछ तीस ।
निकट समय निर्वाणको, जानी श्रीजगदीस ॥ २ ॥
पचपन शुभ फलके कहे, पचपन इतर विचार ।
प्रश्न करे छत्तीसका, विन पूछे विस्तार ॥ ३ ॥

(कब्बाली)

प्रभु श्रीवीर जिनपूजन, करो नरनारी
शुभ भावे ॥ अं० ॥ किया उपकार जो जगमें,
कथनसे पार नहीं आवे । तजी भवी मान सब
अपना, नमन करी नाथ गुण गावे ॥ १ ॥ सहस
छत्तीस साधवियाँ, सहस चउद साधु गण थावे।
केवली वैकिय सत सत सो, बादी सय चार
कहलावे ॥ २ ॥ ओही मन पर्यवा ज्ञानी, ते-
रांसो पांचसो मावे । पूरव चउद धारी शत
तीनो, चउदसो साध्वी शिव जावे ॥ ३ ॥ श्रावक
एक लाख ब्रत धारी, एगुण सठ सहस बतलावे।

आविका लाख तिग सहसा, अठारां सूत्र फर-
मावे ॥ ४ ॥ प्रभु परिवार परिवरिया, अपापा
नगरी दीपावे । अमा कार्तिक रिख स्वाति, प्रभु
निर्वाण सुख पावे ॥ ५ ॥ आतम लक्ष्मीपति
स्वामी, हुए निजरूप उपजावे । अटल संपत्
प्रभु पामी, वल्लभ मन हर्ष नहीं मावे ॥ ६ ॥

॥ काव्यम् ॥

गर्भस्थोपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु
हेमाचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः शुचितरैः कुम्भा-
म्बुभिः स्नापितः । दीक्षाकेवलबोधपर्वणे महान-
न्दास्तिकाले सुरैः, सद्बोधास्तिकृतैर्चितो जिनवरो
चीरोऽवताहोहिनाम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ अँ ही श्री परमात्मने अन-
न्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्री
वीरजिनपारम्भताय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं,
दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

(२)

गीत-दोहरा.

गौतम जिन आणा गण, देव शर्मके हेत ।

प्रतिबोधी आते सुना, जाना नहीं संकेत॥ १ ॥
 वीर प्रभु मोक्षे गए, छोरी मुझ संसार ।
 हा ! हा ! भरते हो गया, मोह अति अंधकार॥२॥
 वीतराग नहीं राग हैं, एक पखो मुझ राग ।
 निष्फल इम चिंतत गयो, गौतम मनसे राग॥३॥
 मान कियो गणधर हुओ, राग कियो गुरु भक्ति।
 खेद कियो केवल लियो, अङ्गूत गौतम शक्ति॥४॥
 दीप जगाए रायने, तिण दीवाली नाम ।
 एकम गौतम केवली, उत्सव दिन अभिराम॥५॥

(धन्याश्री.)

पूजन करो सुखकारी महावीर जिन पू-
 जन० ॥ अं० ॥ परमात्म सिद्ध बुद्ध अचर
 अज, परमानन्द विहारी ॥ महावीर० ॥ १ ॥
 अष्टकर्म जंजालसे छूटे, आवागमन निवारी ॥
 महावीर० २ ॥ वीर प्रभु मोक्षे गए जानी, इंद्र
 आए साठ चारी ॥ महावीर० ॥ ३ ॥ उचिता-
 चरण करी हरि दाढो, लेवे उपद्रव हारी ॥ म-
 हावीर० ॥ ४ ॥ रयण थूभ करी इंद्र नंदीसर,
 करे उत्सव अतिभारी ॥ महावीर० ॥ ५ ॥ जिन

दादा स्वर्गे हरि पूजे, समकित दृढ़ आचारी ॥
महावीर० ६ ॥ आत्म लक्ष्मी फल पूजाका,
बलभ हर्ष अपारी ॥ महावीर० ७ ॥

॥ कलश ॥

(रेखता ।)

कल्याणक गाया जिनचंदा, प्रभु श्रीवीर
सुखकंदा ॥ अं० ॥ च्यवन जन्म व्रत आनंदा,
केवल निर्वाण अतिनंदा । कल्याणक पांच ए
कहिए, आराधि कल्याण निज लहिए ॥ १ ॥ नगर
धन्य गाम नरनारी, हुए जहाँ जीव अवतारी ।
कल्याणक भूमि स्पर्शनसे, निजात्म शुद्ध दर्श-
नसे ॥ २ ॥ नंदीसर दीप हरि करता, कल्याणक
महिमा पुण्य भरता । करे समकित व्रत धारी,
श्रावक तिम श्राविका सारी ॥ ३ ॥ तपागच्छ
नाम दीपाया, श्रीविजयानंद सूरिराया । न्या-
यांभोनिधि विरुद् पाया, श्री आत्माराम जग
गाया ॥ ४ ॥ विजय लक्ष्मी गुरु दादा, विजय
श्रीहर्ष गुरुपादा । लघु तस बंधु सुख दाया,

मुनि श्री हंस विजय राया ॥ ५ ॥ विनयी तस
शिष्य सुखकारी, विजय संपत् संपत् धारी ॥
गणि पन्यासकी आणा, बनी रचना भवि गाना ॥
॥ ६ ॥ संवत् युग वेदं युर्गं पाणी, प्रभु निर्वा-
णसे जाणी । आत्म तेवीस पचवीसा, कमी
विक्रम सय वीसा ॥ ७ ॥ तिथि पूनम कवि
बारा, मास भाद्र पक्ष उजियारा । पुरि जैन रा-
जनगर सोहे, जिनालय यात्रु मन मोहे ॥ ८ ॥
विजय कमल सूरि राजे, उपाध्याय वीर विजय
गाजे । प्रवर्तक श्रीमुनि कांति, विजयजी टारे
मन झाँति ॥ ९ ॥ इन्हीके राज्यमें जानो, हुई
रचना भवि मानो । आत्म लक्ष्मी हर्ष दाता,
बलभ गुरु देव गुण गाता ॥ १० ॥ प्रभु श्रीवीर
जिनमंदर, पासमें स्थान आति सुंदर । धर्म-
शाला उजम नामे, किया चउमास आरामे ॥ ११ ॥
कल्याणक वीर सुखदाया, सन्मुख श्री वीर
जिन गाया । मिच्छामि दुक्कडं भाखे, अविधि
श्री वीर जिन साखे ॥ १२ ॥

इति श्रीमहावीरप्रभुपूर्वचकल्याणकपूजा ॥

॥ अथ एकवीस प्रकारी पूजा ॥



॥ दोहा ॥

श्रीश्रीआदिदेवश्री, क्षषभजिनंद दयाल ।
 पदकज प्रणमुं भावसे, होवे मंगल माल ॥ १ ॥
 जिनवाणी गुरु चरणको, नमन करी भविकाज ।
 पूजा एकवीस भेदसे, वर्णवुं श्रीजिनराज ॥२॥
 स्नपन विलेपन आभरण, पुष्प वास वर धूपं ।
 दीपक फल अक्षत शुचि, पत्र पूग सदरूपा॥३॥
 नैवेद्य निर्मल जलकलश, वस्त्र चमर सित छत्र ।
 वाय ध्वनि शुभ गाजती, गायन नटन विचित्र॥४॥
 जिनवर गुण स्तुति सुख करी, कोषबृद्धि मनधार ।
 जिनगणधर फरमानसे, पूजा एकवीस सार॥५॥



॥ पहली जलपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पूजा पहली मानिये, स्नपन करे प्रभु अंग ।
 भव्यजीव अर्चन करी, करे कुमति मल भंग॥

विजन ॥२॥ तिलक त्रयोदश नव अंग जानो,
 श्री जिनचंद विलेपन मानो । भवोदधि पार
 उतारा उतारा भविजन ॥ ३ ॥ नव अंग ति-
 लके निधि नव थावे, तत्त मिटे तन मन सुख
 पावे। पूजन प्रभु दुःख टारा, दुःखटारा, भविजन ॥
 ४॥ सुर सुरपति नर नरपति करते, प्रभु पूजा आ-
 तमपद वरते । वल्लभ गुरु उपकारा उपकारा,
 भविजन ॥ ५ ॥

॥ काव्य पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
 शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
 ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल
 पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो
 सुमति का ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
 वाह वाह वाह ३

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय
 चंदनं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

॥ तीसरी आभूषण पूजा ॥

॥ दोहा ॥

आभूषण पूजा भली, त्रीजी श्री जिनराय ।
करते भवी शुभ भावसे, तनमन अति हुलसाया ॥१॥

(देशी—हमको छोड़ चले बन माधो)

भूषण पूजा हरिगण विरचे, हित सुख
आनन्दकार करोरे । भू० अंचली ॥ विविध रत्न
मणिमय अति सुंदर, जिन अंग भूषण धार
ठरोरे । निरुपम अनुभव रस लहे भविजन,
मन वच काय उदार नरोरे ॥ भू० ॥ १ ॥ सुं-
दर मस्तक मुकुट विराजे, चंद्र सूर्य छबि सार
हरोरे । अर्ध चंद्र सम प्रभु भाल स्थल, विमल
तिलक मनोहार घरोरे ॥ भू० ॥ २ ॥ कानमें
कुंडल झगमग दीपे, कंठमें दीपे हार खरोरे ।
बाँहे बाजुबंद हाथमें कंकण, कमर कंदोरा सार
भरोरे ॥ भू० ॥ ३ ॥ भूषणसे भूषित जिन त-
नुको, कीजे श्रावकाचार वरोरे । तस फल भू-
षित निज तनु होवे, जयजय मंगलाचार ध-

(गजल ॥ देशी—आशकतो होचुका हुं)

पूजा प्रभुकी कीजे, मनमाना फल लीजे
 ॥ अं० ॥ आगम वाणी बोले, प्रभु पूजा फल
 खोले । उपांग मांही बीजे, मनमाना फल लीजे
 ॥ १ ॥ हित सुख जोग कारी, पद मोक्ष को
 दातारी । संगात साथी कीजे, मनमाना फल
 लीजे ॥ २ ॥ निर्मल तीर्थ पानी, क्षीरोद आदि
 आनी । कलशा कनक भरीजे, मनमाना फल
 लीजे ॥ ३ ॥ चोसठ इंद्र करते, जिन स्त्रान्न
 पुण्य भरते । शुभ भाव तिम धरीजे, मनमाना
 फल लीजे ॥ ४ ॥ श्रावक शुद्ध भावे, करी स्त्रान्न
 हर्ष पावे । वल्लभ आत्म रीजे, मनमाना फल
 लीजे ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पद ॥

(देशी—तेरी छलबल है न्यारी.)

प्रभु पूजा है प्यारी, भव पार उतारी
 करो शास्त्रानुसारी मेरेप्यारे सुजान । मानोजी
 सुज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल

रोरे ॥ भू० ॥४॥ वाहिर ज्ञगमग अंतर ज्योति,
प्रगटे भाव विचार तरोरे । आत्म निर्मल चि-
द्घन रूपे, वल्लभ हर्ष अपार सरोरे ॥ भू० ॥५॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी भेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल
यावो मेरी जान ॥ करो पूजा भगवान्, धरो सु-
मतिका ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह
चाह वाह ३

॥ मंत्रः ॥ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
भूषणानि यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ चौथी पुष्पपूजा ॥

॥ दोहा ॥

याँच वर्ण कुसुमे करी, पूजे श्री जिनराय ।
भविजन पामे पूजताँ, पंचम गति सुखदाय ।१

(बडहंस, देशी—नाथ कैसे गजको फंद छुडायो)

भविकजन पूजो श्री जिनराया, एतो भक्त
भवमां सुखदाया ॥ भ० ॥ अं० कुंद बकुल म-
चकुंद मालती, दमनक अरविंद गाया । नाग
पुन्नाग मंदार केतकी, जाइ तिलक मन भाया ॥
भ० ॥ १ ॥ जासूस जूङ गुलाब मोगरा, म-
ल्हिका चंपा सुहाया । नव मालिकाली गुण-
शाली, केवडा वास भराया ॥ भ० ॥ २ ॥ ज-
लज थलज इत्यादि सुमगण, रची वादल वर-
साया । सुरगण सुरगणपति शुभ भावे, सम-
किती सब हर्षाया ॥ भ० ॥ ३ ॥ सुरभि कुसुम
प्रभु निष्कामी तुम, चरननमें सुखदाया ।
कामी देवको आक धतूरा, मूरख मन भरमाया ॥
भ० ॥ ४ ॥ जिम जिन चरणमें हरिगण पूजे,
तिम श्रावक फरमाया । आतम बल्लभ कुसुमा-
र्चनसे, मोह कुमति गढ ढाया ॥ भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पंद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करौ

(बडहंस, देशी—नाथ कैसे गजको फंद छुडायो)

भविकजन पूजो श्री जिनराया, एतो भव
भवमां सुखदाया ॥ भ० ॥ अं० कुँद बकुल म-
चकुँद मालती, दमनक अरविंद गाया । नाग
पुन्नग मंदार केतकी, जाइ तिलक मन भाया
॥ भ० ॥ १ ॥ जासूस जूङ गुलाब मोगरा, म-
ल्लिका चंपा सुहाया । नव मालिकाली गुण-
शाली, केवडा वास भराया ॥ भ० ॥ २ ॥ ज-
लज थलज इत्यादि सुमगण, रची वादल वर-
साया । सुरगण सुरगणपति शुभ भावे, सम-
किती सब हर्षाया ॥ भ० ॥ ३ ॥ सुरभि कुसुम
प्रभु निष्कामी तुम, चरननमें सुखदाया ॥
कामी देवको आक धतूरा, मूरख मन भरमाया
भ० ॥ ४ ॥ जिम जिन चरणमें हरिगण पूजे,
तिम श्रावक फरमाया । आतम वल्लभ कुसुमा-
र्चनसे, मोह कुमाति गढ ढाया ॥ भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पंद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवप्रार उतारी, करो

शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
जान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मति का ध्यान करो आत्म कल्याण, होवे वाह
वाह वाह ३

॥मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय
युष्पाणि यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

॥ पांचमी वासक्षेपपूजा.

॥ दोहा ॥

पांचमी पूजा वासकी, सुरनर विरचे वास ।
भाव धरी शुभ वासना, करवा मुक्ति वास ॥१॥
(माढ-दादरा—देशी मेरे गमका तराना)

जय जय नर नारा मल हरनारा, पूजक
श्री भगवान । भवि दुख हरनारा, सुख कर-
नारा, जिनमत प्यारा, पूजक श्री भगवान ॥
॥ अंचली ॥ बावना चंदन कुंकुम मूगमद्, तगर्

अंबर घनसार । कृष्णागरु कंकोल सुगंधी, चू-
रण विविध प्रकार ॥ भविदुःखहरनारा सुखक-
रनारा० ॥ १ ॥ रुचिर द्रव्य सब चूरण भेली,
अंग उपांगजिनंद । पूजोप्रभुपद जगसिर ति-
लको, लहो सुख आनंद कंद ॥ भवि दुःख हर-
नारा सुखकरनारा० ॥ २ ॥ नासन भव कुवा-
सनारे, ये चूरण भरपूर । जिन चरनन पूजन
कियोरे, दूरित करे चकचूर ॥ भवि दुःख हर-
नारा सुखकरनारा० ॥ ३ ॥ पूजन करतां मह-
महेरे, दश दिशि वास सुगंध । नूर चढे तन
ऊपरेरे, नासे भव दुर्गंध ॥ भवि दुःख हरनारा
सुखकरनारा० ॥४॥ पूजक पूजा कारणेरे, पूज्य
स्वयं पद लेत । आतम लक्ष्मी संपजेरे, वल्लभ
आनंद हेत ॥ भवि दुःखहरनारा सुखकरनारा० ५

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
जान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल-

यावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मति का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह
वाह वाह ३

॥ मंत्रः ॐ हौं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय
वासान् यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

॥ छट्ठी धूप पूजा ॥

॥ दोहा ॥

छट्ठी पूजा जिनतणी, करे सुरासुर राय ।
धूपदशांग मिलायके आत्म आनंद पाय ॥६॥

(देशी—पनीहारीकी)

सेल्हारस कृष्णागरु मारा वालाजी, सुरभी
मृगमद सार वालाजी ॥ अगर तगर कुंदरु भलौ
मारा वालाजी, चंदनअरु घनसार वालाजी ॥७॥
अंवर शुभ द्रव्य शर्करा मारा वालाजी, मेरी
धूप वनाय वालाजी ॥ कनक जात वैहूर्यका

मारा वालाजी, धूपधान मन भाय वालाजी॥२॥
 सुरपति जिम भक्ति करे मारा वालाजी, तिम
 तुम करो भवि भाव वालाजी । धूप धूम उरध
 दिशि मारा वालाजी, गति उरध तुम थाव
 वालाजी ॥ ३ ॥ धूप जले जिम पावके मारा
 वालाजी, भक्तिमें तिम कर्म वालाजी । वामांगे
 जिन पूजतां मारा वालाजी, पावे भवि शिवर्शर्म
 वालाजी ॥ ४ ॥ फैले गंध दशो दिशि मारा
 वालाजी, तिम पूजक वर गुण वालाजी । आ-
 तम लक्ष्मी पामिये मारा वालाजी, वल्लभ हर्ष
 अनून वालाजी ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
 शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान॥मानोजी सुज्ञान,
 प्रभु पूजन बनावो, पूजनसे शिवफल पावो
 मेरी जान करो पूजा भगवान, धरो सुमति का
 ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह
 वाह ॥ ३ ॥

॥ संत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

— • —
॥ सातमी दीपकपूजा ॥

॥ दोहा ॥

दीपकपूजा सातमी, करे भविक शुभ वास ।
ज्ञान भाव विकसित करी, अज्ञ तिमिर करे नास ॥१॥

(देशी—महवूव जानी मेरा)

पूजा प्रभु आनंदकारी, भव पार उत्तारी ।
कीजे भवि मन शुद्ध करके, आज्ञा जिन सारी
॥ पू० ॥ १ ॥ दीपक कीजे प्रभु आगे, टारे अंध-
कारी । अज्ञान तिमिरको नासे, निज रूप वि-
हारी ॥ पू० ॥ २ ॥ निर्मल गोष्ठृतसे भरके,
करुणा रस धारी । फानसमें दीपक कीजे, भक्ति
प्रभु प्यारी ॥ पू० ॥ ३ ॥ मिथ्यात्व तिमिर घट
ताङुं, ज्योति उपकारी । प्रगटे मन अंदर ज्ञाता,
चिद् आनंद भारी ॥ पू० ॥ ४ ॥ आत्म लक्ष्मी

मुनिमहाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित. ३०७

प्रभु पूजा, आत्म बलिहारी । वल्लभ मन हर्ष
मनावे, पूरण हितकारी ॥ पू० ॥ ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
जान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मति का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह
वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

॥ आठमी फलपूजा ॥

॥ दोहा ॥

मन वच काया इक करी, कीजे विविध प्रकार ।
फल पूजा भवी आठमी, शिव सुख फल दातारा ॥

(देशी—अब माँहे पार उत्तार जिनंदजी।)

भवजल तारण हार जिनंदजी, भव जल
तारण हार। जन्म मरण भव दुःख निवारी,
पूजक पार उत्तार। अंचली। नवरंगी नारंगी
निर्मल, नींबु आम्र फल सार। कदलीफल श्री-
फल जंबीरी, द्राक्ष बदाम अनार ॥ १ ॥ पिसतां
निमजां सेव संतरां, सीताफल सुखकार। पूर्णी-
फल तरबूजां अखोडां, खरबूजां रसदार ॥ २ ॥
इत्यादि सुरभि स्वादु फल, सुंदर दोष निवार।
कंचन थाल विशाल भरीने, जग नायक पुर-
धार ॥ ३ ॥ सुरपति भक्ति करे तिम भविजन,
फल पूजा करतार। सुर सुख फल लई श्रावक
होवे, शिव वानिता भरतार ॥ ४ ॥ फल पूजा
श्री जिनवर केरी, आतम लक्ष्मीदातार। मनुज
गति सुवेल सफल हो, वल्लभ हर्ष अपार ॥ ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

श्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी; करो
शाखानुसारी मेरे प्यारे सुजान। मानोजी सुज्ञान,

प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल पावो
मेरी जान । करो पूजा भगवान्, धरो सुमतिका
ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह
वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय फलानि यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥

॥ नवमी अक्षतपूजा ॥

॥ दोहा ॥

अक्षय सुखके कारणे, अक्षत पूजा होय ।
शुचि अक्षत जिन पूजिए, आगम अक्षर जोय ॥१॥

(देशी—नाटकको)

भविजन करणी, जिनवर वरणी । प्रभु पूजा
शिव सुख दाय दाय दाय । अंचली । सुर असुर
नर खेचर स्वामी, करी पूजा भावे शिव जाय
जाय जाय ॥ भ० ॥१॥ अति अपार भवसागर
माँही, तारनेको नावा सम थाय थाय थाय ॥

३१० विविध पूजासंग्रहे २१ प्रकारी पूजा.

भ० ॥ २ ॥ भाव धरी भरी थाल कनकका, अ-
क्षत अखंड शुभ लाय लाय लाय ॥ भ० ॥ ३ ॥
स्वस्तिक पूरे कर्म को चूरे, जिनवर आगल
भवि आय आय आय ॥ भ० ॥ ४ ॥ आतम
लक्ष्मी फल पूजाका, वल्लभ हर्ष मन पाय पाय
पाय ॥ भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान ॥ मांनोजी सु-
जान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
पावो मेरी जान ॥ करो पूजा भगवान, धरो
सुमतिका ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
वाह वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ ह्ली श्री परमपुरुषाय पर-
मेश्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जि-
नेंद्राय अक्षतान् यजामहे स्वाहा ॥ ९ ॥

॥ दशमी पत्रपूजा ॥

॥ दोहा ॥

मुदा करण दस्मी कीजिए, श्रद्धा शुद्ध बनाय।
पूजा दशमी पत्रकी, हृदय रसे जिनराय ॥ १ ॥

(देशी-होई आनंद बहाररे)

पत्र पूजा मनोहाररे, भवि विधिसे कीजे॥
विधिसे कीजे शिवसुख लीजे । पत्र० अंचली॥
नाग पुन्नाग मरुक अरविंदो, मचकुंद कुंद मं-
दाररे ॥ भ०॥१॥ अंब कदंब अशोक मालिका,
जाई शतपत्री धाररे ॥ भ० ॥ २ ॥ जुइ प्रसुख
शुभ वर्ण सुगंधी, मेली दल अति साररे ॥ भ०
॥ ३ ॥ कनक पात्र धरे जिन बिंब आगे, सम-
कित धर नर नाररे ॥ भ० ॥ ४ ॥ आत्म जि-
नपद जिन अर्चनसे, वल्लभ हर्ष अपाररे ॥
भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पुजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान। मानोजी सुज्ञान,

३१२ विविध पूजासंग्रहे २१ प्रकारी पूजा.

प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल पावो
मेरी जान । करो पूजा भगवान्, धरो सुमति
का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह
वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय प-
त्राणि यजामहे स्वाहा ॥ १० ॥

— — —

॥ ग्यार्वीं पूर्णीफलपूजा ॥

॥ दोहा ॥

ग्यार्वीं पूजा मानिए, पूर्णीफल अति चंग ।
भवि जिन चरणे ढोइए, होवे भंग अनंग ॥ १ ॥

(सोरठ—कुवजाने जादू डारा—देशी ॥)

जिन पूजन आनंद कारा, प्रभु भवजल
पार उतारा ॥ जिन० अंचली ॥ चरण कमल
जिनवर अरचीजे, होय भ्रमर भवि प्यारा ।
जैसे कीट बदल होवे भमरी, ध्यान प्रभु उप-
कारा ॥ जि० ॥ १ ॥ पूर्णीफल शुभ सरस अ-

खंडित, अमृतरस सम सारा । भक्ति युक्ति धर
जिनवर आगे, होवे आनंद भारा ॥ जि० ॥२॥
सुरनायक सम भविजन निरखी, श्रीजिनचंद-
दिदारा । जिनपद पूजन सुंदर कीजे, तजी सं-
सार असारा ॥ जि० ॥३॥ पूर्णीफल पूजा फल
भविजन, सुंदर चित्त विचारा । पद चिदघन
आनंद लहो सुख, प्रवचन वचन उदारा ॥ जि०
॥ ४ ॥ आत्म पूजा जिनवर पूजा, परमानंद
पद धारा । अजर अमर अज अटल निरंजन,
बहुभ हर्ष अपारा ॥ जि० ॥ ५ ॥

॥ काव्य--पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी, मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान धरो सु-
मति का ध्यान । करो आत्म कल्याण, होवे
वाह वाह वाह ३

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्ली श्रीपरमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय पू-
गीफलानि यजामहे स्वाहा ॥ ११ ॥

॥ बारवीं नैवेद्यपूजा ॥
॥ दोहा ॥

बारवीं पूजा जिनतणी, शुचि नैवेद्य रसाल ।
भविजन भावे पूजिये, भर भर सुंदर थाल ॥१॥
(देशी—नाटककी—श्री शंखेश्वरा)

जय जय जिनेश्वरा तूं मुनीश्वरा, अर्चन
शुभ भावसे करुं ठरा ठरा ॥ अंचली ॥ लप-
नसीरी वर घेवर सुंदर, दालि सालि धृत धार ।
मोदक मोतीचूर सेवियां, फेणी खाजां सार ॥
ज० १ ॥ बरफी खोपरापाक ने घारी, मगदल
आति मनोहार । पेडा अमृतपाक पतासा, सङ्क-
रपारा हार ॥ ज० २ ॥ खीर खांड धृत बिचमे
भेली, दूधपाक कंसार । बूंदी लाखनसाइ चूरमा,
केसरीया सुखकार ॥ ज० ३ । इत्यादि नैवेद्यसे

मुनिमहाराजश्री वल्लभविजयजी विरचित। ३१५

भरके, सुंदर सोना थार। श्रीजिन सन्मुख ढोवे
भावे, कारण फल अनाहार ४ शचिपति सम
आवकजन करते, पूजा टरे दुःख भार। आत्म
आनंद लक्ष्मी पामे, वल्लभ हर्ष अपार ॥ ज०५
॥ काव्य--पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी, मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल पावे
मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सुमाति
का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह
वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हं ह्री श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय नै-
वेद्यं यजामहे स्वाहा ॥ १२ ॥

॥ तेरवीं जलसे भरे कलशकी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जिनवर पूजा तेरवीं, जलभृत कलश सुहाय ॥

३१६ विविध पूजासंग्रहे २१ प्रकारी पूजा.

भावेजन शुभ भावे करे, पातिक दूर पुलाय॥१॥
(दशी—तोरे दर्शनकी बलिहारी)

तुम चिदघन चंद आनंद नाथ। तुम अ-
र्चनकी बलिहारी ॥ अंचलि ॥ कनक कलश
मंडित रखोसे, सुनि गुण गुणिता चारी ॥ तु०
॥ १ ॥ गंगा मागध अरु वरदामा, आदि तीर्थ
जल धारी ॥ तु० ॥ २ ॥ निर्मल जलभृत कल-
शकी पूजा, करे सुर चार प्रकारी ॥ तु० ॥ ३ ॥
वित्तम श्रावक जिन पूजे विधिसे, आनंद मंगल-
कारी ॥ तु० ॥ ४ ॥ आत्म लक्ष्मी प्रगटे तबही,
बलभ हर्ष अपारी ॥ तु० ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो, पूजनसे शिवफल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मतिका ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह
चाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ हूँ ही श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय जलभृतकलशं यजामहे स्वाहा ॥ १३ ॥

॥ चौदमी वस्त्रपूजा ॥
॥ दोहा ॥

वस्त्र युगलसे पूजिए, मनमें आति हुलसाय ।
सुखदायक जग जीवके, श्री श्री श्री जिनराय ॥१४॥

(देशी—पारस्प्रभु भवजल पार उतार)

भविक जन प्रभु पूजन हितकार॥अंचली॥

उज्जल वस्त्र युगल भलोरे, पल्लव आति सुकुमार॥
चंद्रकिरण सम शोभतीरे, अद्रभुत ज्योति सार
॥ भ० ॥ १ ॥ आखिल सुरासुर नायकारे, मन
धरि भक्ति उदार । जिनवर बिंब मंडित
करे रे, शोभा अपर अपार ॥ भ० ॥ ३ ॥ करणी
समकिती हरि तणीरे, लोक उभय सुखकार ।
देशविहति श्रावक करेरे, कुमाति अनल जलधार
॥ भ० ॥ ३ ॥ जय जिनवर जय जग गुरुरे,

३१८ विविध पूजासंग्रहे २१ प्रकारी पूजा.

स्कल देव सरदार। त्रिभुवन जन मन मोहनारे,
चार बार बलिहार ॥ भ० ॥ ४ ॥ आत्म शिव
यद् पंकज मधु रस, चिद घन सुख निरधार ।
आनन्द लक्ष्मी पूजन का फल, वल्लभ हर्ष अपार
॥ भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भव पार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवफल
यावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मति का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे
वाह वाह वाह ॥३॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय
वस्त्रयुगलं यजामहे स्वाहा ॥ १४ ॥



॥ पंद्रमी चामरपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पंद्रमी पूजा भली, कीजे भक्ति काज ।
चामर युग करकमल लई, पूजिए श्रीजिनराजाः ।
(भैरवी—कहरवा—देशी—हेजी तेरे दर्दे हिजरने सताया.)

करो भवि अर्चन महानंद दाया । प्यारा
प्रभु, सुखकारा प्रभु, दुःख हारा प्रभु, जिन
राया । करो भवि अर्चन महानंद दाया । अं-
चलि० । जगतारक जगनाथजी, जगगुरु जग-
दाधार । जगवत्सल जगदीशजी, जगधणी जग
अवतार । प्रभु जग चिंतामणि सम भाया ॥
प्यारा० १ ॥ समवसरण रचना भली, करे सुर
चार प्रकार । स्यादवाद् वानी सुने, वैठी पर्षदा
बार ॥ प्रभु जग जन्म मरण मिटाया ॥ प्या-
रा० २ ॥ चंद्र सूर्य किरणोज्वला, विविध र-
थण दंड जाल । दो पासे प्रभुके खडे, करे अ-
मर प्रतिपाल ॥ प्रभु जग ताप संताप नसाया
॥ प्यारा० ३ ॥ सुर चामर पूजा करी, चाखे

३२० विविध पूजासंग्रहे २१ प्रकारी पूजा.

अनुभव स्वाद । तिम श्रावक पूजन करे, सु-
मतिमंत श्रुतवाद ॥ प्रभु जग अजर अमर पद
पाया ॥ प्यारा० ॥ ४ ॥ चामर युग हरि ढोवते
सूचन करता एह । हम सम उर्ध्व गति
लहे, करे नमन प्रभु जेह ॥ प्रभु जग आतम
बल्लभ थाया ॥ प्यारा० ॥ ५ ॥

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
मतिका ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे वाह
वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ओँ हँ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय चामरयुगलं यजामहे स्वाहा ॥ १५ ॥

॥ सोलमी छत्रपूजा ॥

॥ दोहा ॥

तीन छत्र शिर शोभते, पाप तमो दिनकार ।
पूजा सोलमी जिन तणी, भवजल तारण हार॥

(देशी-मन मोहा जंगलकी हरणीने.)

भवि पूजो जिनदं जग तरणीने । भ० ॥
अंचलि ॥ चंद्रमंडल सम श्रेत विराजे, जिन शिर
छत्र विचरणीने ॥ भ० ॥१ ॥ भव सिंधु तरनेको
नावा, पाप ताप विहरणीने ॥ भवि० ॥ २ ॥
सुमाति जन मन हर्ष मनावे, कुमाति हर्ष विद-
रणीने ॥ भवि० ॥ ३ ॥ तीन छत्र प्रभु शिर सू-
चवते, त्रिभुवन यश विस्तरणीने ॥ भ० ॥ ४ ॥
कनक रत्न माणि माणक जडीयुं, सुरनर जन
मन हरणीने ॥ भ० ५ ॥ जिम हरि तिम भवि
श्रावक कीजे, प्रभु पूजा शिव वरणीने ॥ भ०६॥
आतम लक्ष्मी हर्ष धरीने, वल्लभ धन्य तुम क-
रणीने ॥ भ० ७ ॥

॥ काव्य—पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान। मानोजी सुज्ञान,
प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल पावो
मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सुमतिका
ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह वाह ॥
॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय. श्रीमते जिनें-
द्राय छत्रत्रयं यजामहे स्वाहा ॥ १६ ॥

—→

॥ सतारमी वार्जीत्रपूजा ॥

॥ दोहा ॥

मधुर तूर ध्वनि कीजिये, पूजा सत दश धार ।
पूजन फल भविजन लहे, अजरामर पद सार॥१

(देशी-नाटककी-हाय गजब सितम,)

पूजा प्रभुकी सुखकरी,

दुःख हरी है भवि खरी ॥ अंचालि ॥

मधुर स्वरसे बाजती, मूरज अतिही गाजती ।
 भजो प्रभुको हितकरी, दुःख हरी है भवि खरी ॥१॥
 शंख भेरी जल्लरी ताल, दुंदुभि बजे कंसाल ।
 शुद्ध भाव मन धरी, दुःख हरी है भवि खरी ॥२॥
 चेणु वीणा नंदी तूर, श्रीमंडल तंबूरा पूर ।
 साथ गायन सुर हरि, दुःख हरी है भवि खरी ॥३॥
 श्रावक पूजे जिन दयाल, होवे नित्य मंगल माल ।
 तरो प्रभुके पग परी, दुःख हरी है भवि खरी ॥४॥
 आत्म लक्ष्मी आपत्ती, पाप ताप कापती ।
 चल्लभ हर्ष पद वरी, दुःख हरी है भवि खरी ॥५॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
 शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
 ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो, पूजनसे शिवफल
 पावो मेरी जान, करो पूजा भगवान, धरो सुमति
 का ध्यान, करो आत्म कल्याण, होवे वाह वाह
 वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः उम्हि ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
यजामहे स्वाहा ॥ १७ ॥



॥ अठारमी गीतपूजा ॥
॥ दोहा ॥

गीत गान प्रभु आगले, पूजा अठारमी सार ।
भविजन मनमें रम रही, आनंद मंगल कार ॥१॥
(देशी-श्रीचंदा प्रभु भगवान भवजल पार करो.)

प्रभु अर्चन आनंदकार, भविजन मनमे
वसा ॥ अंचालि ॥ श्री जिनवर त्रिमुखन महा-
राया, चरण शरण प्रभु शिव सुखदाया । पूजन
करी भवि शिवपद पाया, दूर किया संसार, भ-
विजन मनमें वसा ॥ प्र० १ ॥ इंद्र सुरासुर
सब मिल आवे, जिन चरननमें सीस नमावे ।
गीत गान प्रभु सन्मुख गावे, जय जय जिन
जयकार, भविजन मनमें वसा ॥ प्र० २ ॥ जय
जग बांधव जय जग तारक, जय दुःख
हारक मोह निवारक । मदन विडारक शिवसुख

कारक, चिद्घन रूपके धार, भविजन मनमें
वसा ॥ प्र० ३ ॥ वाजती गाजती इंद्र ददामा,
श्रीमंडल घनघोर प्रकामा । मूर्छना सात तीन
स्वर ग्रामा, वार वार बलिहार, भविजन मनमें
वसा ॥ प्र० ४ ॥ गीत गान पूजन हरि करते,
श्रावक तिम निज मनमें धरते, आतम लक्ष्मी
मल हरि वरते, वल्लभ हर्ष अपार, भविजन
मनमें वसा ॥ प्र० ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । सानोजी
सुज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिवं
फल पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो
सुमतिका ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
वाह वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परंमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय
गीतं यजामहे स्वाहा ॥ १८ ॥

॥ उन्नीसवीं नाटकपूजा ॥

॥ दोहा ॥

भव नाटक काटन भणी, नाटक पूजा सार ।
जिनवर आगे कीजिए, लड़ए भवको पार ॥१॥
झण झण रणके नेउरा, घृघरियां छनकंत ।
दुमक दुमक कर नाचती, सुरवनिता सहकंत ॥२॥
विविध तूर धुनि गाजती, अनुभव अमृतधार ।
जिन गुण गावत तारसे, नटन करे नर नारा ॥३॥

(देशी—पियाला प्रेमरस है भरपूर.)

पूजा प्रभुकी आनंदकार, करो ने भवि ल-
टक लटक लटक । पाता है शिवपुर राज, वही
नर झटक झटक झटक ॥ पू० । अंचली ॥ हा
हा हु हु आदि सुरगण, मिल गंधर्व कटक ।
सोल सिंगार सजी करी आई, जिनपुर मटक
मटक ॥ पू० ॥ १ ॥ देवकुमर कुमरी मिल नाचे,
राचे मन नहीं खटक । ऐसो उत्तम अवसर
पायो, बहु भव भटक भटक ॥ पू० २ ॥ राव-
ण ने मंदोदरी राणी, विधिसे करके नटक ।

उत्तम तीर्थकर पद पायो, मिटगई अटक अटक
 ॥ पू० ३ ॥ अष्टा पद गिरि वीण बजातें, त्रृटि
 तारां त्रटक । पण तुटचो नहीं भाव जरा तस,
 निर्मल फटक फटक ॥ पू० ४ ॥ प्रभावती राणी
 कर नाटक, भव नाटक दियो छटक । आतम
 वह्लभ निजपद पायो, मनोभव पटक पटक
 ॥ पू० ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
 शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
 जान, प्रभु पूजन बनावो, पूजनसे शिव फल
 पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो सु-
 मति का ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
 वाह वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्यं श्रीपरमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमतै जिनेंद्राय
 नाटकं यजामहे स्वाहा ॥ १९ ॥

॥ वीसमी जिनगुणस्तुतिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

जिनगुणस्तुतिपूजा सदा, करो भविक गुण धारि।
 पूजनसे पूजक तणी, करे स्तुति दनुजारि ॥१॥
 भव दावानल नीर सम, मोह धूलि हरनार ।
 हल माया भू दारणे, सुरगिरि धीरज धार ॥२॥
 जगतारण जगदीश जिन, सागर सम गंभीर ।
 दोष निवारी गुण धरी, जय जय तूं प्रभु धीर ॥३॥

(देशी—भजनकी.)

अशरण शरण करण सुख संपद, विपद
 हरण जगवाला वाला प्रभु वाला । सुख सागर
 आगर गुण त्राता, गाता गुणकी माला माला
 प्रभु माला ॥ अशरण । अंचलि । अलख अगो-
 चर अजर निरंजन, भंजन दुःखकी रासी रासी
 प्रभु रासी । हितकारी उपकारी जग जन, म-
 न्मथके हैं नासी नासी प्रभु नासी ॥ अ० १ ॥
 तीर्थकर जगदीश जिनेश्वर, योगीश्वर अति
 वीरा वीरा प्रभु वीरा । ब्रह्मा विष्णु जिन शिव

शंकर, मंदर गिरि सम धीरा धीरा प्रभुधीरा
 ॥ अ० २ ॥ नाम अनंते गुणही अनंते, वर्णन
 करुं तुझ कैसे कैसे प्रभु कैसे । दिल अनुभव
 मा आगल बालक, कही न सके निज जैसे
 जैसे प्रभु जैसे ॥ अ० ३ ॥ हे जिन तारंक मोह
 निवारक, करते भवि जग देवा देवा प्रभु देवा
 ॥ मुनि नर खग सुर गणपति सेवा, फल शिव
 सुखको लेवा लेवा प्रभु लेवा ॥ अ० ४ ॥ आ-
 तम निज गुण दायक धारी, शरण लिया मैं
 तेरा तेरा प्रभु तेरा आतम आनंद वल्लभ मांगे,
 टारो भव भव फेरा फेरा प्रभु फेरा ॥ अ० ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
 शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
 ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
 पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान्, धरो
 सुमति का ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
 वाह वाह वाह ॥ ३ ॥

॥मंत्रः ॥ॐ हैरी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरासृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
जिनगुणस्तुतिं यजामहे स्वाहा ॥ २० ॥

॥ इकवीसमी कोशटद्धिपूजा ॥
॥ दोहा ॥

जिन पूजा इकवीसमी, कोश वृद्धि मनोहार ।
करो भविक शुभ भावसे, भरो पुण्य भंडार ॥१॥
(देशी—मान मायाना करनारा रे)

सुखकारा प्रभु सुखकारा रे भवि पूजो
प्रभु० ॥ धन्य धन्य पूजन करनारा रे भवि
पूजो प्र० ॥ अं० ॥ रजत मणि कलधौत रथ-
णसे, कोश भरे हरि सारा । श्रावक तिम भरे
कोश उचित धन, पावत ज्ञान उदारारे ॥ भ०
॥ १ ॥ ज्ञाता उवाङ् राय पसेणी, जीवा भिगम्
हितकारा । द्रौपदी अंबड सुर सुरियाभा, देव
विजय अधिकारारे ॥ भवि पूजो प्रभु० ॥ २ ॥
महा निशीथे वीर वचन है, पूजन भेद विचारा ।

द्रव्य पूजा और भाव पूजा जिन, सागार और
अनगारारे ॥ भं० ॥ ३ ॥ जेह अधर्मी मंदमति
जन, पूजन जिन हरनारा । तेह करे निज चे-
तन सदनको, दुःख व्यसन आगारारे ॥ भ०
॥ ४ ॥ इम जाणी भवि जिनवर पूजो, होवे
भवोदधि पारा । आतम लक्ष्मी हर्ष धरीने, वल्लभ
गुरु उपकारारे ॥ भ० ॥ ५ ॥

॥ काव्य-पद ॥

प्रभु पूजा है प्यारी, भवपार उतारी, करो
शास्त्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान । मानोजी सु-
ज्ञान, प्रभु पूजन बनावो । पूजनसे शिव फल
पावो मेरी जान । करो पूजा भगवान, धरो
सुमतिका ध्यान, करो आतम कल्याण, होवे
वाह वाह वाह ॥ ३ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
कोशवृद्धिं यजामहे स्वाहा ॥ २१ ॥



(कलश)

॥ रेखता ॥

जिनंद गुण आज मैं गाया, इह पर लोक
 सुखदाया । नहीं तुम सम जग कोई, यथारथ
 रूप जस होई ॥ १ ॥ अनुपम सुमन गुण माला,
 सुमन नर पूजतां वाला । पाप संताप सब जावे,
 रूप शीतल निज थावे ॥ जि० ॥ २ ॥ इस विध
 पूजा इकवीसा, करे भवी जीव जगदीसा । करावे
 भाव सुरंगा, अपुनरावृत्ति फल चंगा ॥ जि० ॥ ३ ॥
 तप गच्छ गगन दिनकर्ता, विजय आनंद सूरि
 भर्ता । विजय लक्ष्मी गुरु दादा, विजय श्री हर्ष
 गुरु पादा ॥ जि० ॥ ४ ॥ विजय बलभ लघु
 दासा, सुगम रचनाकी जस आसा । कृपा मरु
 देवी नंदनकी, पूर्ण हुई आस वंदनकी ॥ जि०
 ॥ ५ ॥ करण यात्रा नगर कावी, बडौदा शहर
 संघ आवी । कियो उत्सव शुभ भावे, अनुपम
 हर्ष आति पावे ॥ जि० ॥ ६ ॥ पति संघ खीमचंद
 भाई, मति शुभ जास मन आई । करी विनती

करण पूजा, चुनीलाल साथी तस दूजा ॥ जि०
॥७॥ संवत मुनि शंभुहृग वेदा, युग्म प्रभु वीर
गत खेदा । इषु इँदु आत्म हितकारी, महीना
मार्गशिर धारी ॥ जि० ॥८॥ कवि दिन पूर्णिमा
जानो, कविता पूर्ण थई मानो । आत्म लक्ष्मी
हर्ष दाता, वल्लभ निशदिन गुण गाता ॥ जि०
॥९॥ विजय सूरि कमल राजे, उपाध्याय वीर
विजय गाजे । विजय कांति प्रवर्त्तकजी, नमुं प्रभु
भय निवर्त्तकजी ॥ जि० ॥ १० ॥ तीर्थ कावी
मंडन स्वामी, करुं वंदन शिर नामी । आगम
विपरीत जो थावे, मिच्छामि दुक्कड़ भावे ॥ जि० ११

॥ इति इक्वीस प्रकारी पूजा ॥

॥ श्रीकृष्णमंडलपूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री श्री शांतिप्रभु, प्रणमी मन वच काय ।
कृष्णमंडल पूजा रचुं, शांतिकरण सुखदाय ॥१॥
मेरुगिरि नंदीश्वरे, शाश्वत श्री जिनराज ।
पूजा अष्ट प्रकारसे, विरचे सुर सुरराज ॥२॥
जिनवर गुण मनमें धरी, श्रावक समकितवंत ।
तिम अडविध पूजन करे, चार वीस भगवंत ॥३॥
जल चंदन और फूलसे, दीपक धूप प्रदान ।
वर अक्षत नैवैद्य फल, पूजा अष्ट विधान ॥४॥
देव नमी प्रणमी गुरु, जिनवाणी चितलाय ।
मियागाम पूजा रची, वीरवचन सुपसाय ॥५॥

॥ श्रीकृष्णभद्रेवपूजा ॥

॥ दोहा ॥

आदि जिनेश्वर आदिनृप, आदि मुनीश्वर राय ।
युगलाधर्म निवारको, जीव सकल सुखदाय ॥६॥

॥ सारंग ॥

मन मगन आदि जिन ध्यानमें, मन मगन आदि जिन ध्यानमें । दूर भइ दुनिया तनमनसे, नाभिनंदन जिन गानमें ॥ मन० ॥
 अं० ॥ जग चिंतामणि जगयुरु जगधनी, गावत सब कोई तानमें । हरि हर ब्रह्मा शिव परमेष्ठी, मावत जिनयुण मानमें ॥ मन० ॥ १ ॥
 भूमंडल भवि कमल विवोधन, दिनकर सम जग ज्ञानमें । सर्व जीव हितेकारक प्रभुजी, निः श्रेयस सुख दानमें ॥ मन० ॥ २ ॥ चौसठ इँद्र करे जस सेवा, आतम लक्ष्मी अमानमें । हर्ष धरी प्रभु पूजा रचीहै, वल्लभ वीर वखानमें ॥
 मन० ॥ ३ ॥

॥ काव्यम्—शिखरिणी छंदः ॥

नमस्यामाकार्षुः सुरपतिदिनेशामरवराः, सु-
 माधुर्यैदेवापगजलसुपूर्वैर्हिमघटैः । सुभद्रश्रीपुष्पा
 क्षतफलसुरालयुतिकरैर्यजामस्तं देवं जिनपति-
 महो मंगलकरम् ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

॥ श्री अजितनाथजिनपूजा ॥
॥ दोहा ॥

विजयामात सूजातकी, पूजा शिवसुखदाय ।
परमानंद भावें करें, जन्म मरण मिट जाय॥१॥
॥ सोरठ-सद्गुरु चरण विना अज्ञान तिमिर टलसे नहींरे देशी॥

जिनवर सरण विना संसार ऋमण टलसे
नहीं रे । जन्म मरण देनारुं कर्म बीज जलसे
नहीं रे ॥ अंचलि ॥ जिन वचनामृत पान विना,
सत्यासत्यके ज्ञान विना, पापपुंज प्रभु ध्यान
विना, बलसे नहीं रे ॥ जि० १ भव भय हा-
रक भान विना, प्रभु परमात्म गान विना,
शुभ मन आत्म मान विना, चलसे नहीं रे ॥
जि० २॥शुभ गुरु देव विज्ञान विना, धरम य-
थारथ जाण विना, समकित भेद पिछाण विना,

पलसे नहीं रे जि० ३ सुरनर पूजित नाण वि-
ना, अठदस दोषके हाण विना, पूजा प्रभुकी
आण विना, फलसे नहींरे ॥ जि० ४ निजगुण
आतम खान विना, वल्लभ वीर वखान विना,
अजित जिनेसर दान विना, मलसे नहींरे॥जि०
। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।
॥ श्री संभवनाथजिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

जितारि संभव प्रभु, श्री संभव जिन देव ।
सुर सुरपति नर नरपति, करते निशादिनसेवा ॥१॥
मूल अतिशय चार हैं, प्रातिहार्य सुर आठ ।
ज्ञान अनंता जानिये, ज्ञानातिशय ठाठ ॥२॥
(वरवा, ताल—कहेरवा धनधन बो जगमे नरनार—देशी)

श्रीश्रीश्री संभव जिनराज, पूजा करो क-
रावो भावे श्री श्री श्री संभव जिनराज ॥ अं-
चलि ॥ पूजा है प्रभूकी रंगरेल, देवे मुक्ति पुरी
में मेल । पावे निजगुण आतम खेल, नहीं फिर
जन्म मरणको पावे ॥३॥ दूजा मूल अतिशय

जान, पूजातिशय सुंदर मान । जस चउतीस
भेद वखान, जिनागममें गणधर फरमावे ॥
श्री०२ ॥ जनमे प्रभु अतिशय चार, क्षय धाती
करम अगियार । किये उन्नीस देव विचार,
सुरासुर नर नारी गुण गावे ॥ श्री०३ ॥ तीजा
चाचातिशय सार, भेद पण तीस मनमें धार ।
एक योजनमें विस्तार, समज निज निज भा-
षामें आवे ॥ श्री०४॥ आतम लक्ष्मी दातार,
प्रभु पूजो लहो भवपार । हर्ष वीर वचन आधार,
चरणमें वल्लभ सीस नमावे ॥ श्री०५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री अभिनंदनस्वामिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चौथा अतिशय जानिये, अपाय अपगम नाम ।
अभिनंदन चौथा प्रभु, पूजो अतिशय धाम ॥१॥
॥ राग—माल्कोश ॥ नवणकरो जिनचंद आनंद भर ॥देशी॥

पूजन करो अभिनंद आनंदभर, पूजन०
अंचली ॥ संवरनंदन वंदन पूजन, काटे कलि-

मल फंद ॥ आ० १॥ जगदभिनन्दन जगहित-
कारी, भवभव दुरित निकंद ॥ आ० २ ॥ लो-
कालोक प्रकाशक जिनवर, जिम गेगने रवि-
चंद ॥ आ० ३ ॥ वांछित पूरण अंतर्यामी, चि-
दघन आनंद कंद ॥ आ० ४ ॥ आतम लक्ष्मी-
वीर वचनसे, वल्लभ हर्ष अमंद ॥ आ० ५ ॥

। काढ्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

—३३९—

॥ श्री सुमतिनाथस्वामिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पंचम सुमति नाथजी, सुमति तणा भंडार ।
पंचम गति दायक प्रभु, पंचम नाण दातार ॥१॥
॥ माढ ॥ ताल दादरा ॥ चाल—मोरे गमका तराना ॥

सुमतिजिन वंदो पाप निकंदो भवजल ता-
रणहार । प्रभुपूजा अमंदो होवे आनंदो शिव-
सुखकंदो भवजल तारण हार ॥ अंचली ॥ राग
गयो गयो द्वेष गयो गयो, मोह गयो गयो
भाग । रजत कनक मणि तिगडुं सोहे, तिस-

कारण महा भाग ॥ प्रभु० १ ॥ कनक कमल
सुर विरचित ऊपर, निर्मल पाय ठवंत । विच-
रंता अवनि तलेरे मोहरिपु भगवंत ॥ प्रभु० २ ॥
संसार पार उतारणीरे वाणी जस स्याद्वाद । कु-
मति मद तरु दारणीरे, सुमति मन आस्वाद
॥ प्रभु० ३ ॥ जीव भवि प्रतिबोधतारे, अज्ञ-
तिमिर करी नाश । रत्नत्रयी कंठे ठवीरे, झग-
मग ज्योति प्रकाश ॥ प्रभु० ४ ॥ आतम लक्ष्मी
निजगुण प्रगटे, पूजन हर्ष अमान । अपुनरा-
द्वृति पद मिलेरे, वह्नभ वीर प्रमान ॥ प्र० ५ ॥
। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री पद्मप्रभस्वामिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

छट्टा जिन श्रीपद्मप्रभ, षट काया रखवार ।
पूजो भवि भक्ति करी, सुख संपद दातार ॥३॥

॥ दक्षणी दुमरी ॥

जावो जावो नेमि पिया थारी गति जानीरे ॥ देशी ॥

पदम प्रभुकी पूजा शिवसुख दानीरे । प०

॥ अंचली ॥ प्रभु मुख देखी चंद, पावत भवि
आनंद । सुरासुर नर मुनि पति गुण खानीरे ॥
प० १ ॥ शुद्ध भाव चित्त स्थिर, पूजत जिनंद
धीर । आनंद परम लहे भक्ति मन आनीरे ॥
प० २ ॥ दरस दुरित जावे, रोग सोग पासे
नावे । अंशोक प्रथम पाडि हेर तरु मानीरे ॥
प० ३ ॥ वचन पियूष जिन भविजन करे ईन
धर नृप कुल नभ दिनमाणि ज्ञानीरे ॥ प० ४ ॥
आत्म अनूप रूप, निज गुण धर भूप । वल्लभ
हर्ष मन वीर वानी जानीरे ॥ प० ५ ॥
। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री सुपार्वनाथजिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्रीसुपार्वजिन सेविये, सप्तम श्रीअरिहंत ।
सातों भयको टारके, पामे भवको अंत ॥ १ ॥
राग स्याम कल्याण.
प्रभु पूजन भविजन हितकारा ॥ अंचली ॥

जल थल कुसुम सुगंधी महके, पांच वरण म-
नोहारा ॥ प्र० १ ॥ सुरवृष्टि जिन सुमना सेवे, पावे
भव निस्तारा ॥ प्र० २ ॥ दिव्य ध्वनि सुर नर
मन मोहे, सुस्वर राग सुतारा ॥ प्र० ३ ॥ पृथ्वी
नंदन पूजन वंदन, आनंद मंगलकारा ॥ प्र०
४ ॥ आत्म लक्ष्मी हर्ष धरीने, वल्लभ वीर आ-
धारा ॥ प्र० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्रीचंद्रप्रभस्वामिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चंद्रप्रभजिन आठमा, पूजो भवि चित्त लाय ।
अष्ट करम दूरे टरें, अष्टम शुभगति थाय ॥१॥
गजल ताल कबाली ॥ चाल नाटक-आसक तो हो चुकाहु ॥

पूजन तो होरहाहै, चाहे तारो या न तारो
॥ अं० ॥ चंदा प्रभुजी स्वामी, करो रूप निज
धामी । तुम शरणा हो रहाहै, चाहे तारो या
न तारो ॥ १ ॥ यति श्राद्ध धर्म भेदे, वदे नाम

तीर्थ वेदे । चामर दो हो रहा है, चाहे तारो या
न तारो ॥ २ ॥ अरि बाह्य और अंदर, सब
जीते हैं जिनेंद्र । साम्राज्य होरहा है, चाहे तारो
या न तारो ॥ ३ ॥ आसन सिंह सोहे, भवि
जीव मन मोहे । आनंद होरहा है, चाहे तारो
या न तारो ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी दाता, वल्लभ
वीर गाता । दिल हर्ष होरहा है, चाहे तारो या
न तारो ॥ ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

—•—
॥ श्रीसुविधिनाथ जिनपूजा ॥

॥ 'दोहा ॥

नवम सुविधि जिन पूजिये, नवनिधि सुविधि धरंत ।
ब्रह्म युसि नव साधके, नव नव भव न करंत ॥२॥

॥ देशी वणजारेकी ॥

श्रीसुविधि जिनंद सुखकारी, प्रभु पूजा
पार उतारी ॥ अंचलि ॥ द्वादश तरणि जीपंतु,
भा मंडल पुंठ दीपंतु । षष्ठम पाडिहेर विहारी

॥ प्र० १ ॥ मोक्ष सार्थ वाह मन लावी, सेवो
शिव अर्थे आवी । इम दुंदुभि शब्द उच्चारी ॥
प्र० २ ॥ प्रभु सम नही अन्य कोइ प्राणी, तीन
जगतमें दानी ज्ञानी । तीन छत्र प्रभु शिर धारी
॥ प्र० ३ ॥ इम अड पाडि हेर कहावे, प्रभु
पासे नित सुर ठावे । सेवे सुरनर अमरी नारी
॥ प्र० ४ ॥ आतम लक्ष्मी गुण बारी, धारे प्रभु
हर्ष अपारी । वल्लभ मन वीर पधारी ॥ प्र० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री शीतलनाथ जिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

दशमा शीतलनाथजी, दश यतिधर्म पुनर्नित ।
काम दशा दशा टारवा, पूजो आगम रीत ॥ १ ॥
॥ राग-पील्द—ख्याल ट्यो ॥

मेरे जिनदं शीतल महाराया । पूजन चि-
दघन रूप करी रे । मेरे० अं० ॥ शीतल चंद-
न्नसे प्रभु थारी । शीतलता आति जाउं बलिहारी ।
चंदन शीतलता बाह्यकारीमतुम अंतर करनार,

करम हरनार, के मुझ मन चाह खरीरे ॥ मेरे०
 ॥१ ॥ कर करुणा करुणा भंडारी । करुणासागर
 अभिधा धारी । मैं सेवक आयो तुम द्वारी ।
 विरुद्ध निवाहो राज, मेरे शिरताज, के विपदा
 दूर हरीरे ॥ मेरे० ॥२॥ दोष नहीं गुणवृद्ध आ-
 धारी । जिनवर ब्रह्मा शंभु मुरारी । आतम ल-
 क्षमी हर्ष अपारी । वल्लभ वीर सनाथ, मुक्तिका
 साथ, के आनन्दरूप वरीरे ॥ मेरे० ॥३॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

—*—

॥ श्रीश्रेयांसनाथजिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्रीश्रेयांस जिनेसरु, पद्कज मधुकर होय ।
 आतम श्रेयस साधिये, जन्म मरण मिटे दोय ॥१॥

॥ केशरीयाथासुं प्रीत लगीरे ॥ देशी ॥

श्रेयांस जिननंदकी पूजा करुरे शुभ भावसे।
 अं० । गजवर मन रेवा नदीरे, सीता मन श्रीराम
 । लक्ष्मी मन विष्णु वसेरे, गिरिजा मन शिव

नामरे श्रेयांस जिनंदकी पूजा करुरे शुभ भावसे
 ॥ १ ॥ मधुकर मनमें मालतीरे, चकवा मन
 दिन इंदं । तिम मुझ मन तुमही वसेरे, श्रीश्रे-
 यांस जिनंदरे श्रेयांस जिनंदकी पूजा करुरे शुभ
 भावसे ॥ २ ॥ शांत रसे नयनां भरेरे, मुख
 कज अतिही प्रसन्न । राग द्वेष रंचक नहींरे,
 प्रभुजी तुम धन्न धन्नरे श्रेयांस जिनंदकी पूजा
 करुरे शुभ भावसे ॥ ३ ॥ अंक विना खी शो-
 भतो रे, शख विना प्रभु हाथ । तिसकारण तु-
 मही प्रभुरे, वीतराग जग नाथे श्रेयांस जिनंदकी
 पूजा करुरे शुभभावसे ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी
 देखके रे, होवे हर्ष अमंद । जिन पूजा फल ए
 सहीरे, वल्लभ वीर जिनंदरे श्रेयांस जिनंदकी
 पूजा करुरे शुभ भावसे ॥ ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।




श्रीवासुपूज्य जिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

पूजो जिनवर बारमा, उपदेसे अंग बार ।
द्वादश व्रत श्रावकतणा, द्वादश प्रतिमा सार ॥
॥ राग-जयज्यवंती ॥ तुं हैं एक प्यारो प्राण ॥ देशी ॥

वासु पूज्य पूजो प्राणी, प्रभु है अनंत
ज्ञानी । प्रभु सब गुणखानी, जीवको सरन है
॥ वा० १ ॥ प्रभु प्यारो प्राण जान, आत्म आ-
धार मान । प्रभुके ही शुभ ध्यान, मिटत मरन
है ॥ वा० २ ॥ दाता निर्भय दान, दाता शिव
सुख थान । प्रभुको भवि पिछान, तारन तरन है ॥
वा० ३ ॥ वसुपूज्य राय तात, जया राणी मात
जात । सुर नर दिन रात, पूजत चरन है ॥
वा० ४ ॥ आत्म आनंद चंद, जिन लक्ष्मी
हर्ष कंद । वीर गुण कटे फंद, वल्लभ परन है
॥ वा० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।



॥ श्री विमलनाथ जिन पूजा ॥

॥ देहा ॥

विमलं चरण धारी प्रभु, विमलनाथ भगवंत ।

विमलं विमलं पोते थया, सेवक विमल करंता ॥१॥

॥ राग सीहा कानडा ॥

पूजन विमल जिनेश्वर कीजे, पूजन० ॥
 अंचली ॥ सुर नर मुनि जस चरन परत है, क-
 रम भरम सब झट पट छीजे ॥ पू० १ ॥ तुम
 सम जिन नहीं और धरत है, उपशम रस स-
 ज्जन मन रीजे ॥ पू० २ ॥ कोइ संग नारी कोइ
 नाच करत है, देखत भवि जनको मन खीजे
 ॥ पू० ३ ॥ भवजल जो नहीं आप तरत है, से-
 वक को वो क्या फल दीजे ॥ पू० ४ ॥ आतम
 लक्ष्मी हर्ष भरत है, वल्लभ वीर वचन रस पीजे
 पू० ५ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

श्री अनंतनाथ जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अनंत नाथ प्रभु पूजिए, चउदसमा जिनदेव ।
चार अनंता पासिए, सुर नर गण करे सेव ।१॥

॥ राग भैरवी ॥ लागी लगन कहो केसे छूट ॥ देशी ॥

अनंत जिनेश्वर जग परमेश्वर प्राणजीविन
सुख कंदो रे ॥ अनंत० अंचलि ॥ जस गण-
धर मुनिवर गण मधुकर, सेवत पद अरविंदो
रे ॥ सिंहसेन नृप नंदन वंदन, करत सुरासुर इंदो
रे ॥ अनंत० १॥ जग मंडल सहु निर्मल कारण,
जिन शासन नभ चंदो रे । उदय भयो भवि कु-
मुद खिडावन, सुयशा माता नंदो रे ॥ अनंत०
२॥ लोकालोक अनंत द्रव्य गुण, पर्याय प्रगट
दिनंदो रे । सार्थक नाम प्रभु तुम कहिए, अ-
नंत अनंत आनंदो रे ॥ अनंत० ३॥ दुरित
निवारिणी पूजा सुंदर, काटे भव भय फंदो रे ।
आतम लक्ष्मी हर्ष धरीने वल्लभ वीर जिनंदो रे
॥ अनंत० ४॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ श्री धर्मनाथ जिनशूजा ॥

॥ दोहा ॥

दायक नायक सारथी, देशक धर्म सुमित्र ।

धर्मनाथ प्रभु पूजिए, मन वच काय पवित्र ॥१॥

॥ वरखा तथा पहाड़ी । रसदी बूदां परी ॥

श्री धर्मनाथ महाराज अर्चन सुंदर बना ॥
 अंचली ॥ धर्मनाथ प्रभु धर्म कहंता, साधु श्रा-
 वक भेद लहंता, सेवी थये बहु भवि भगवंता,
 चामी कर्म समाज अर्चन सुंदर बना ॥ श्री०१॥
 भवसागर निर्यामक धारी, सार्थवाह भव अ-
 टवी भारी, महा गोप पदवी जिन सारी, महा
 माहण जिनराज अर्चन सुंदर बना ॥ श्री०२॥
 द्रव्य भाव दो प्राण पिछाने, द्रव्य प्राण दश ज-
 गमें जाने, भाव प्राण प्रभु चार वखाने,
 चार मिले शिवराज अर्चन सुंदर बना ॥
 श्री०३॥ ज्ञान वीर्य जीवन सुख धारी, भाव
 अनंता चार प्रकारी । आतम लक्ष्मी हर्ष अपारी,
 वल्लभ वीरसुं काज अर्चन सुंदर बना ॥ श्री०४॥
 ॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ श्री शांतिनाथ जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जग शांति प्रगटाववा, प्रगट भए जिनराज ।
शांतिनाथ शांति करी, नाम लियो महाराज॥१॥

॥ राग गौडी ॥ देशी—बीर जिनेश्वर स्वामी ॥

शांति जिनेश्वर स्वामी शिवंकर शांति०
अंचलि ॥ अचिरा नंदन पूजन वंदन, अचरा
नंद पद पामी शिवंकर । शां० १ ॥ हिंसा झूठ
घोरी अरु कीडा, हासी रति भय वामी शिवं-
कर । शां० २ ॥ क्रोध मान माया मद अस्ति,
लोभ प्रेम दिये दामी शिवंकर । शां० ३ ॥ मत्सर
शोक अज्ञानने निद्रा, अष्टादश दोष नामी शि-
वंकर । शां० ४ ॥ आत्म लक्ष्मी हर्ष अनुपम, व-
रुष वीर नमामि शिवंकर । शां० ५ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ श्रीकुंथुनाथ स्वामी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सत्तरमा जिन सेविए, कुंथु नाथ दयाल ।

३५२ विविध पूजासंग्रहे श्री कृष्णपंडल पूजा.

संयम सत्तर भेदसुं, भाखे त्रिभुवन पाल ॥१॥
प्रभु समरण लय लाइए, मन वंछित फल थाय ।
भव तजी भवि शिव पाइए, कुंथुजिनंद गुण गाय ॥२
॥ श्री राग ॥

कुंथु जिन पूजा शिव तरु कंद, कुंथु० अं-
चलि ॥ गजपुर षष्ठम चक्री सुहंकर, श्री राणी
सुर राजा नंद । जग उपकारी प्रभु हितकारी,
सेवे सुर नर मुनि गण इंद ॥ कुंथु० १ ॥ रुधि-
रामिष गोपय सम नेतु, निरामय सुंदर तनु
चंद । स्वेद रहित मल उज्जित कांति, श्वासो-
च्छ्वास सुगंध अरविंद ॥ कुं० २ ॥ विधि आहार
निहार प्रभुकी, देखे नहीं छउमत्थ जन बृंद ।
आतम लक्ष्मी हर्ष अपूरव, वल्लभ वीर वचन
विकसंद ॥ कुंथु० ३ ॥

॥ काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ॥

॥ श्री अरनाथस्वामी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अष्टादश शीलांगरथ, धोरी प्रभु हजार ।

अष्टादशम जिनेसरु, पूजी हो भवपार ॥ १ ॥
 सुमति संयम उर धरी, कुमति संग निवार ।
 अनुभव अमृत धारिए, वारिए विषय विकार॥२॥
 ॥ पीलु तथा बरवा ॥

प्रभु पूजन भवि अति सुखकारी भव भव
 संकट दूर निवारी ॥ प्र० ॥ अंचलि ॥ श्री
 अरनाथ जिनंद महाराया, घाति करम हृष्ट
 क्षय किए चारी । निर्मल लोकालोक प्रकाशी,
 प्रगट भयो केवल उजयारी ॥ प्र० १ ॥ सुरनर
 तिर्यग कोटाकोटी, समवसरण भूमि मग भारी।
 अर्छ मागधि वाणी गामिनी, योजन नर सुर
 तिर्यग धारी ॥ प्र० २ ॥ भास्मंडल प्रभु पुंठे सोहे,
 रोग उपद्रव दूर निवारी । आत्म लक्ष्मी हर्ष
 मनावे, वल्लभ वीर वचन अनुसारी ॥ प्र० ३ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्रीमहिनाथजिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

कुंभराय कुल गगनमें, सहस्र किरण अवतार ।
पूजा महिजिनंदकी, टारे भव अंधकार ॥ १ ॥

॥ सोरठ ॥ वीर जिन दीनी माने एक जरी ॥ देशी ॥

जिनवरपूजा भवपार करी । अंचलि ॥ मलिल
जिनेश्वर जग परमेश्वर । तारण तरण तरी ।
जिनवर पूजा० १ ॥ वैरोति अति वृष्टि अवृष्टि ।
होवे न रोग मरी । जिनवर पूजा० २ ॥ दुर्भिक्ष
स्वपर दलभय नासे । जिहां प्रभु पाय धरी ।
जिनवर पूजा० ३ ॥ पूजक पूजासे पूज्य होवे ।
जिम श्रेणिकने हरि । जिनवर पूजा० ४ ॥
आतम लक्ष्मी हर्ष चरणमें । वल्लभ वीर परी ।
जिनवर पूजा० ५ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्रीमुनिसुब्रतस्वामी पूजा ॥

॥ दोहा ॥

मुनिसुब्रत जिन वीसमा, मुनिसुब्रत भंडार ।
शूजो भवि शुभ भावसे, शिव कमला दातारा ॥१॥

॥ होरी ॥ सिंधकाफी ॥

करे करे करे करे करे मुनि सुब्रत जिन
अर्चन करे। अंचलि ॥ सरस कमल दल नयन
सुहंकर, वदन शांत शशधरे । एकादश अ-
तिशय जिन सोहे, ओगणीस किए सुर वरे
४ ॥ मु० १ ॥ धर्मप्रकाशक चक्र आकाशे, चाले
जिनवर पुरे । चामर फटिक सिंहासन सुंदर,
पाद पीठ सहचरे ४ ॥ मु० २ ॥ तीन छत्र ध्वज
विजय पताका, फरके फररर फरे । आतम
लक्ष्मी हर्ष बतावे, वल्लभ वीर सिमरे ४ ॥
मुनि० ३ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री नेमिनाथजिनपूजा ॥

नभि जिनवर एक वीसमा, अंतर शत्रु नमाय।
मान नभि भवि पूजिए, थिर करी मन वच काय। १
होई आनंद वहार ॥ देशी ॥

पूजो भवि भगवंतरे, प्रभु वैठे मगनमें ॥
अंचलि ॥ कनक कमल नव ऊपरे रे, विचरे
पाय ठवंत रे ॥ प्रभु० १ ॥ रजत कनक और
रख के रे, प्राकार तिग सोहंत रे ॥ प्रभु० २ ॥
समवसरण प्रभु वैठते रे, चार मुख दिखंत रे ॥
प्रभु० ३ ॥ आतम लक्ष्मी हर्षसे रे, बलभ वीर
कहंत रे ॥ प्रभु० ४ ॥

। काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्री नेमिनाथजिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मचारी प्रभु बालसे, बावीसमा जिनराय ।
नेमिनाथ परतापसे, पाप ताप मिटजाय ॥ १ ॥

॥ कव्वाली ॥

प्रभु श्री नैमि जिन पूजन नशीबांवर भवि
यावे । प्रभु० अंचलि ॥ शिवादेवी माता नंदनके,
भवि निश दिन गुण गावे । तजी राजुलसी
नारी, करी क्षय मोह शिव जावे ॥ प्रभु० १ ॥
तरु अशोक नित्य छाया, अधो मुख कंटका
थावे । तरु गण मार्गमें नमते, गगन ध्वनि दुं-
दुभि भावे ॥ प्रभु० २ ॥ पवनै सुखदाइ चल-
तीहै, प्रदक्षिणा पक्षिगण लावे । आतम लक्ष्मी
अति हर्षे, वल्लभ मन वीर गुण आवे ॥ प्रभु० ३ ॥

काव्य तथा मंत्र पूर्ववत् ।

॥ श्रीपार्वनाथ जिनपूजा ॥

॥ दोहा ॥

तेवीसमा प्रभु पासजी, मनवंछित दातार ॥
भवसागरमें द्वीप सम, जगजीवन आधार ॥ १ ॥

(मानमायाना करनारारे ॥ देशी ॥)

हितकारी जगत उपकारी रे, प्रभु पार्श्व-

नाथ अवतारी । दुख दोहग दूर निवारी रे,
भवसागर पार उतारी ॥ अंचली ॥ पारस पुरि-
सादानी कहाए, वंछित फल दातारी । अश्वसेन
वामादेवीके नंदन, पूजन मंगल कारी रे ॥
प्रभु० ॥ १ ॥ शोधन भूमि साथ ही वर्षा, सुगंध
निर्मल वारी । पांच वरण फूलोंकी वर्षा, जानु-
दघन मनोहारी रे ॥ प्रभु० २ ॥ केश दाढ़ि मूँछ
नख अवास्थित, कोटि जघन्य सुर चारी ।
आतम लक्ष्मी हर्ष अनुकुल, कृतु वल्लभ वीर
सारी रे ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥

। काव्य तथा मंत्रं पूर्ववत् ।



॥ श्रीमहावीरस्वामिपूजा ॥

॥ दोहा ॥

चरम जिनेश्वर वीरजी, सिद्धारथ कुल चंद ।
त्रिशला मात सुजातको, पूजो आनंदकंद ॥१॥

॥ राग धनाश्री ॥

पूजन करोरे आनंदी जिनंद पद पूजन०
 अंचलि । वीर जिनेश्वर जगपरमेश्वर, कर्म कलंक
 निकंदी जिनंद पद पूज० १ ॥ शासन नायक
 शिवसुख दायक, पूजा शिवतरु कंदी जिनंद
 पद० २ ॥ वर्षमान प्रभु वृद्धि करता, निजगुण
 कथन करंदी जिनंद पद० ३ ॥ वदन कमल
 कांति हंस निर्मल, तन मन भवि विकसंदी
 जिनंद० ४ ॥ आत्म लक्ष्मी हर्ष मनावे, वल्लभ
 वीर आनंदी जिनंद पद० ५ ॥

॥ काव्यम् ॥

नमस्यामाकार्षुः सुरपतिदिनेशामरवराः,
 सुमाधुर्यैदेवापगजलसुपूरौहिंमघटैः । सुभद्रश्री
 पुष्पाक्षतफलसुरालद्युतिकरैर्यजामस्तं देवं जिन-
 पतिमहो मंगलकरम् ॥ १ ॥

॥ मंत्र ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
 जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
 जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १९ ॥



॥ कलश ॥ रेखता ॥

जिनंद गुण गाया आनंदे, करण त्रयं जोग
 भवि वंदे । जनम जनमके अघ जावे, प्रभु गुण
 गावे सुख पावे ॥ जि० १ ॥ सुरासुर इंद्र नर
 नारी, गणि मुनि साधवी सारी । मिली सब गुण
 प्रभु गावे, कभी नहीं तोभी अंत आवे ॥ जि० २ ॥
 मैं अति तुच्छ मति धारी, प्रभु गुण कैसे लहुं
 पारी । गाया गुण तोभी भक्तिसे, लवे शिशु
 माता शक्तिसे ॥ जि० ३ ॥ तंप गच्छ गगन
 रवि रूपा, श्री विजयानंद सूरि भूपा । न्यायां-
 भोनिधि विस्तु धारी, श्री आत्माराम बलिहारी
 ॥ ४ ॥ विजय लक्ष्मी गुरु दादा, विजय श्री
 हर्ष गुरु पादा । विजय वल्लभ गुण गावे, चर-
 णमैं नित्य चित्त लावे ॥ जि० ५ ॥ संवत् कृषि
 शंभुद्वग वेदा, युगल प्रभु वीर गत खेदा । आ-
 तम संवत् रस चंदा, संवत् विक्रम नर इंदा ॥
 जि० ६ ॥ कृषि रस अंक शशि आवे, प्रतिपदा

भाद्र सुदि थावे । जनम महिमा दिवस जानो,
 कवि कविता पूरण मानो ॥ जि० ७ ॥ विजय
 कमल सूरि राजे, उपाध्याय वीर विजय गाजे ।
 करी प्रेरणा कृति काजे, कृपा पूरण थई आजे ॥
 जि० ८ ॥ प्रवर्त्तक श्री मुनि कांति, विजयजी
 टारे मन भ्रांति । आतम लक्ष्मी हर्ष पावे, व-
 ल्लभ पूजे प्रभु भावे ॥ जि० ९ ॥ हुई रचना
 मियागामे, निकट शांति प्रभु धामे । आगम
 विपरीत वयण भाखे, मिथ्यादुष्कृत प्रभु साखे
 ॥ जि० १० ॥

॥ इति श्रीकृष्णमण्डलपूजा ॥

॥ श्रीनंदीश्वरदीपपूजा ॥

— • —
॥ दोहा ॥

वंदी वीर जिनंदको, आनंद सुगुरु पसाय ।
नंदीश्वर पूजा रखुं, सिमरी सारद माय ॥ १ ॥
जिनघरमें विस्तारसे, रथी नंदीश्वर द्वीप ।
विधिसे प्रभु पधराय के, कीजे पूजा अधिप॥२॥
अडसय अभिषेके करी, पूजा प्रीति विसेस ।
एकादश वा कीजिए, निज शक्ति उपदेश ॥३॥
सामग्री सब मेलके, श्रद्धा रुचि नर नार ।
जल कलशे निज करधरे, भवोदधि तारन हार ॥४॥
दो पासे सम श्रेणि रही, गाजते मंगल तूर ।
पूजा प्रभुकी किजीए, अघ होवे चकचूर ॥ ५ ॥

॥ माठ ॥ ताल दादरा ॥ चाल मोरे गमकातराना ॥

निर्मल पद धारा मल हरनारा वीर प्रभु
भगवान् । प्रभु सुख करनारा दुःख हरनारा भवि-
जन प्यारा वीर० ॥ अंचलि ॥ त्रिशला नंदन

वीरजीरे, ज्ञान परम गुण आप । स्याद्वाद
 वाणी करीरे, मेटथो एकांत ताप । प्र० १ ।
 जन्म समय जिन देवकेरे, मेरु गिरि पर जाय ।
 कल्याणक उत्सव करेरे, न्हवरावे जिन राय ।
 प्र० २ ॥ व्योम बाणहृग् सबमिलिरे, करे
 अभिषेक उमंग । वैमानिक दश इंद्रके रे, दश
 अभिषेक सुरंग । प्र०३ । भुवनपति पति वीसके
 रे, मानो अभिषेक वीस । व्यंतरपति बत्रीस
 केरे, जानो भवि बत्रीस । प्र० ४ । एकसो ब-
 त्रीस जानिएरे, शशि रविके अभिषेक । जोइ-
 सपति नरलोककेरे, छासठ छासठ विवेक । प्र०५
 इकसो चोराणु इंद्रकेरे, ए अभिषेक मिलाय ।
 आतम लक्ष्मी संपजेरे, वल्लभ हर्षमनाय प्र० ६।

॥ पनीहारीकी दशी ॥

आठ आठ पांच पांच ने मारा वालाजी,
 षट षट अरु चार चार वालाजी । शकेशान-
 चमर बलि मारा वालाजी, धरण भूत वण सार-

सिद्ध अनंते होगये, होंगे और अनंत ।
स्थान न रोके ज्योतिमें, ज्योति एक मिलंता॥५॥
धन्याश्री ।

पूजन करो सुख धाम भविक जन पू० अंचली ॥
अष्ट कर्मको दूर करीरे, सिद्ध किये निज काम ॥६॥
दुख हरी सुखमय बनीरे, रमते आतम राम ॥७॥
जन्म नहीं मरना नहींरे, रोग न सोग न नाम ॥८॥
सत चित आनंदरूप धरीरे, अक्षय सुख विसराम ॥९॥
आतम लक्ष्मी हर्ष वरीरे, वल्लभ शिव सुख ठाम ॥१०॥
॥ दोहा ॥

सखलित अलोकाकाशमें, लोकाये कियो वास ।
देहादि यहां छोरके, शाश्वत वहां निवास ॥ १ ॥
मित्र नहीं वैरी नहीं, नहि संयोग वियोग ।
भूख नहीं तरषा नहीं, नहीं विषय रस भोग ॥२॥
द्रव्य प्राण नहि सिद्धमें, प्राण भाव हैं चार ।
ज्ञान सौख्य जीवित तथा, वीर्य अनंता धार ॥३॥
राजा नहि परजा नहीं, नहि ठाकुर नहि दास ।
सुख सरिखा सब जीवको, सबकर्के औविचल वास ॥४॥

विविध पूजासंग्रहे चउदं राजलोक पूजा. ४८५

शब्द रूप रस गंध नहि, नहीं फरस नहि वेद ।
गुरु चेला नहि मोक्षमें, नहीं वृद्ध लघुखेद ॥५॥

स्यामकल्याण ।

सेवो भविजन प्रभु जग उपकारी—सेवो० अंचली॥
यंदरां भेदे सिद्ध कहावे, पूर्व अवस्था धारी ॥१॥
अंचल महोदय ब्रह्मपद लीना,आवागमन निवारी २
सुखकी उपमा जगमें न होवे,अनुभव ज्ञान विचारी ३
हृदय कमल कांति प्रभु आवे,हंस होवे भवपारी ४॥
आतम लक्ष्मी प्रभुता प्रगटे, वल्लभर्ष अपारी॥५॥

(काव्य—मंत्र—पूर्ववत्)

कलश ।

शूजो भवी जीव जिनचंदा, होवे शिवसुख आनंदा ।
कटे भ्रमजालका फंदा, मिटे जरामरण दुख दंदा ॥
तपागच्छ नाम दीपाया, श्री विजयानंद सूरि राया ।
न्यायांभोनिधि विरुद्ध पाया, श्री आत्माराम जग
गाया ॥ २ ॥
विजय लक्ष्मी गुरु दादा, विजय श्री हर्ष गुरु पादा ।

४८६ विविध पूजासंग्रहे चउद राजलोक पूजा.

लघु तस शिष्य सुखदाया, वल्लभ जिनराज गुण
गाया ॥ ३ ॥

चतुर्दश राज जिनवरका, कहा गणधरने फरमाया।
ऋषि मुनि तंत्रमें गाया, संक्षेपे लेश बतलाया।४॥
रस युग वेद कर थाया, संवत महार्वीर जिनराया।
आत्म पचवीस तेवीसा, कर्मी विक्रम सयवीसा।५॥
विजय दशमी कविवारे, मास आश्विन उजियारे।
खुडाला संघ जयकारी, करी रचना आनंद भारी।६॥
सुधारी भूल चुक लेना, सज्जन मोहे जान कर देना ॥६॥
मिछ्छामिदुक्कडं भाखे, वल्लभ प्रभुपार्श्वकी साखे।७॥

७५
इति न्यायाम्भोनिधि—जैनाचार्य—श्रीमद्विजयानन्दसूरि
(आंत्मारामजी) शिष्य—श्रीमान् श्रीलक्ष्मी विजयजी
शिष्य—श्रीमान् श्रीहर्षविजयजी शिष्य—श्रीवल्लभ
विजयविरचिता चतुर्दश रज्जवात्मक लोक-
स्वरूप गर्भिता श्रीदेवाधिदेवपूजा समाप्ता

विविध पूजासंग्रहे संक्षिप्ताष्टप्रकारपूजा. ४८७

“ अथ संक्षिप्ताष्टप्रकारपूजा ”

—•—
“ जलपूजा ”

गंगानदी फुनि तीर्थजलसे कनकमय कलशे भरी, निज शुच्छ भावे विमल थावे न्हवण जिनवरको करी । भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना जग हितकरी, करु विमल आत्म कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ऊँ हूँ श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय
जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय
जलं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

—•—
“ चंदनपूजा ”

सरस चंदन घसिय केसर भेली मांही बरासको, नव अंग जिनवर पूजते भवि पूरते निज आसको । भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना जग हित करी, करु विमल आत्म कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी ॥ २ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

“पुष्पपूजा.”

सुरभि अखंडित कुसुम मोगरा आदिसे
प्रभु कीजिए, पूजा करी शुभयोग तिग गति
पंचमी फल लीजिए। भव पाप ताप निवारणी
प्रभु पूजना जग हित करी, करु विमल आत्म
कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय पुष्पाणि यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

“धूपपूजा.”

दशांग धूप धूखायके भवि धूप पूजासे लिए,
फल उर्ध्वगति सम धूम दहि निजपाप भवभवके
किए। भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना

जग हित करी, करु विमल आतम कारणे व्य-
वहार निश्चय मन धरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

“दीपपूजा.”

जिम दीपके परकाससे तम चौर नासे
जानिए, तिम भावदीपक नाणसे अज्ञान नास
चखानिए। भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना
जग हित करी, करु विमल आतम कारणे व्य-
वहार निश्चय मन धरी ॥ ५ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें-
द्राय दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

“अक्षतपूजा”

शुभ द्रव्य अक्षत पूजना स्वस्तिक सार

४९० विविध पूजासंग्रहे संक्षिप्तप्रकारपूजा.

बनाइए, गति चार चूरण भावना भवि भावसे
मन भाइए। भव पाप ताप निवारणी प्रभु
पूजना जग हित करी, करु विमल आत्म
कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिने-
न्द्राय अक्षतान् यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

“नैवेद्यपूजा.”

सरस मोदक आदिसे भरी थाली जिन
पुर धारिए, निर्वेदि गुणधारी मने निज भावना
जानि वारिए। भव पाप ताप निवारणी प्रभु
पूजना जग हित करी, करु विमल आत्म
कारणे व्यवहार निश्चय मनधरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौं श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिने-
न्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

“फलपूजा.”

फल पूर्ण लेनेके लिए फलपूजना जिन कीजिए, पण इंद्रि दामी कर्म वामी शाश्वतापद-लीजीए । भव पाप ताप निवाणी प्रभुपूजना जग हित करी, करु विमल आत्म कारणे व्य-वहार निश्चय मन धरी ॥ १ ॥

॥ मंत्रः ॥ ॐ हौ श्री परमपुरुषाय परमे-
श्वराय जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते जिने-
न्द्राय फलानि यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥

॥ इत्यष्टप्रकार पूजा ॥

४९२ विविध पूजासंग्रहे श्रीमहिजयानन्दसूरिपूजाष्टकम्.

॥ ६ ॥ श्रीमहिजयानन्दसूरिपूजाष्टकम् ॥

“जलपूजा” (शिखरिणी वृत्तम्)

सतां तीर्थादीनां विमलसालिलैः कुम्भनिभृतै-
र्महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम् ।
तपागच्छाधीशां मुनिगणपतिं मङ्गलकरं,
यजामः श्रीसूरिर्महतविजयानन्दमनधम् ॥१॥
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे जलं
यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

“चन्दनपूजा.”

सुभद्रश्रीचन्द्रप्रचुरतरवाहीकनिकरै-
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरि गुरवे चन्दनं
यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

“पुष्पपूजा.”

जपाजातीपद्मरुद्धवकुलकुन्दादिकुसुमै-

* आठों ही पूजामें प्रथम पाद पढ़ कर तीनों पाद प्रथम
पूजाके ही पढ़ लेने वादमें मंत्र पढ़ना ।

विविध पूजासंग्रहे श्रीमद्विजयानन्दसूरिपूजाष्टकम्. ४९३

॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे पुष्पाणि
यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

“धूपपूजा.”

दशाङ्गेधूपैश्चागुरुमृगमदादिप्ररचित्तै-
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे
धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

“दीपपूजा.”

तमश्शान्त्यै नित्यं सुरभिघृतदीपेन विधिना,
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे दीपं
यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

“अक्षतपूजा.”

अखण्डैस्सद्भान्यैर्यवचणकवल्लाक्षतमुखै-
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे
अक्षतान् यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

“नैवेद्यपूजा.”

सुधास्वादीयोभिर्वटकसहितैमोदकगणै-

४९४ विविध पूजासंग्रहे श्रीमद्विजयानन्दसूरिपूजाष्टक.

॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे नैवेयं
यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

“फलपूजा.”

अलैः शुद्धैर्द्राक्षाकदलपनसाम्रादिविविधे-
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे फलानि
यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥
॥ इति श्रीविजयानन्दसूरिपूजाष्टकं समाप्तम् ॥

—४६—

श्रीमद्विजयानन्दसूरिपूजाष्टकं.

“जलपूजा.”

अति शुद्ध निर्मल नीर छान्यो कलश
कंचनको भरी । उपकारी जगमें मनोवांछित
करे मंगल अघ हरि ॥ तपगच्छ धोरी हाथ
जोरी करुं जलसे पूजनं । श्री सूरि विजयानन्द
होवे कर्ममलुको धूजनं ॥ १ ॥

॥ अंत्रः ॥ ॐ श्री विजयानन्दसूरिगुरवे जलं
यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

विविध पूजासंग्रहे श्रीमद्विजयानंदसूरिपूजाष्टक. ४९५

“चंदनपूजा.”

घसि शुद्ध चंदन और केसर कटोरी कंचनभरी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिगुरवे चंदनं
यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

“पुष्पपूजा.”

पांच वर्ण सुगंध सुंदर कुसुमसे माला करी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिगुरवे पुष्पाणि
यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

“धूपपूजा”

सुगंध धूप दशांग महके कुमाति गंधको हरि करी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिगुरवे धूपं
यजामहे स्वाहा ॥ ४ ॥

“दीपपूजा.”

शुद्ध गोषुतभयों दीपक प्रगट जतनासे करी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिगुरवे दीपं
यजामहे स्वाहा ॥ ५ ॥

४९६ विविध पूजासम्रहे श्रीपद्विजयानंदसूरिपूजाष्टक.

“अक्षतपूजा.”

अखंड उज्जल शुद्ध अक्षत थाली कंचनकी भरी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिगुरवे अक्ष-
तान् यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

“नैवेद्यपूजा.”

अति शुद्ध सुंदर रसवती पकवानसे थाली भरी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्री विजयानंदसूरिगुरवे नैवेद्यं
यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

“फलपूजा.”

निज पूर्ण फलके कारणे नानाफले थाली भरी ।
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरवे फलानि
यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥

॥ इति पूजाष्टकं समाप्तम् ॥

विविध पूजासंश्रहः समाप्तः ।

